

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 23/259**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2242	1.060	64.65	12.02	0.0824	Good
2	2243	6.700	65.21	11.95	0.5219	Good
3	2244	4.070	59.46	11.10	0.2686	Good
4	2245	7.070	59.23	12.63	0.5288	Good
5	2246	3.330	69.87	13.51	0.3144	Good
6	2247	3.490	63.79	11.62	0.2586	Good
7	2272	4.100	65.38	11.17	0.2993	Good
8	2273	4.320	54.14	10.18	0.2380	Good
9	2274	3.990	63.97	14.37	0.3667	Good
10	2275	4.080	61.65	16.59	0.4174	Good
11	2276	4.040	64.41	10.99	0.2860	Good
12	2277	4.190	58.78	13.10	0.3226	Good
13	2248	3.480	53.84	15.62	0.2927	Good
14	2249	3.830	62.25	13.72	0.3271	Good
15	2250	3.170	64.40	10.28	0.2099	Good
16	2251	6.570	62.93	11.22	0.4638	Good
17	2252	3.940	52.80	16.48	0.3428	Good
18	2253	3.080	60.69	14.91	0.2787	Good
19	2278	4.240	60.63	15.17	0.3901	Good
20	2279	4.130	64.00	11.48	0.3036	Good
21	2280	3.250	64.14	11.66	0.2431	Good
22	2281	4.130	63.65	15.79	0.4151	Good
23	2282	4.140	63.20	12.23	0.3200	Good
24	2283	7.120	59.30	14.28	0.6031	Good
25	2201	3.810	54.11	16.80	0.3463	Good
26	2202	3.750	66.42	12.32	0.3068	Good
27	2203	3.130	57.01	15.75	0.2811	Good
28	2204	3.740	67.63	4.41	0.1115	Inferior
29	2205	3.920	59.68	15.08	0.3528	Good
30	2206	6.130	63.10	13.53	0.5235	Good
31	2254	3.970	61.11	12.42	0.3013	Good
32	2255	2.950	53.11	14.69	0.2301	Good
33	2256	2.870	67.81	10.65	0.2072	Good
34	2257	4.140	60.89	8.41	0.2120	Inferior

35	2258	4.070	56.20	14.77	0.3378	Good
36	2259	3.620	65.52	13.66	0.3240	Good
37	2207	3.910	61.20	13.56	0.3245	Good
38	2208	2.790	55.41	13.82	0.2137	Good
39	2209	3.060	59.59	13.73	0.2503	Good
40	2210	2.530	56.13	15.91	0.2259	Good
41	2211	3.750	62.10	11.71	0.2726	Good
42	2212	3.870	64.14	10.60	0.2632	Good
43	2260	3.570	50.78	19.38	0.3513	Good
44	2261	3.760	69.55	11.42	0.2985	Good
45	2262	6.540	66.13	12.13	0.5245	Good
46	2263	3.760	55.40	14.66	0.3053	Good
47	2264	3.210	56.25	14.54	0.2626	Good
48	2265	3.710	57.74	14.18	0.3038	Good
49	2213	3.790	59.10	12.20	0.2733	Good
50	2214	3.920	57.98	15.57	0.3540	Good
51	2215	3.930	65.45	9.41	0.2421	Good
52	2216	3.870	61.16	12.66	0.2995	Good
53	2217	3.680	59.92	11.38	0.2510	Good
54	2218	4.040	57.13	13.83	0.3192	Good
55	2266	4.340	58.62	15.88	0.4041	Good
56	2267	4.170	61.80	12.06	0.3107	Good
57	2268	6.800	57.27	13.46	0.5243	Good
58	2269	4.240	59.43	14.54	0.3663	Good
59	2270	4.090	58.40	15.63	0.3734	Good
60	2271	3.970	66.15	10.82	0.2843	Good
61	2219	3.430	56.21	10.80	0.2082	Good
62	2220	3.660	61.85	10.82	0.2449	Good
63	2221	3.520	63.33	11.86	0.2644	Good
64	2222	5.930	59.97	13.26	0.4714	Good
65	2223	3.480	56.28	11.19	0.2192	Good
66	2224	3.920	70.46	13.13	0.3626	Good
67	2295	3.360	56.48	11.12	0.2110	Good
68	2296	1.240	59.25	15.12	0.1111	Good
69	2297	3.220	69.41	10.99	0.2457	Good
70	2298	6.480	70.21	11.44	0.5203	Good
71	2299	4.180	61.24	10.61	0.2717	Good
72	2300	3.390	58.29	9.04	0.1787	Good
73	2225	2.110	53.23	13.39	0.1504	Good
74	2226	3.900	64.69	10.14	0.2558	Good

75	2227	3.910	61.29	11.89	0.2850	Good
76	2228	3.900	63.46	13.24	0.3276	Good
77	2229	3.980	66.42	12.44	0.3287	Good
78	2230	6.590	60.68	12.34	0.4936	Good
79	2289	3.970	71.46	10.57	0.2997	Good
80	2290	3.790	64.76	9.08	0.2229	Good
81	2291	3.860	72.28	11.26	0.3142	Good
82	2292	3.560	71.00	13.35	0.3375	Good
83	2293	3.610	64.74	12.94	0.3025	Good
84	2294	4.580	72.99	14.36	0.4800	Good
85	2231	3.810	60.02	12.13	0.2774	Good
86	2232	7.210	64.79	9.46	0.4420	Good
87	2233	3.930	61.70	9.84	0.2386	Good
88	2234	3.120	60.54	13.88	0.2621	Good
89	2235	3.030	59.12	13.09	0.2345	Good
90	2236	3.540	56.14	12.86	0.2556	Good
91	2284	3.830	64.96	10.95	0.2723	Good
92	2285	4.000	61.84	14.36	0.3552	Good
93	2286	6.520	65.53	11.06	0.4727	Good
94	2287	6.860	70.31	13.23	0.6380	Good
95	2288	4.160	66.15	14.03	0.3860	Good
96	2237	7.380	60.85	11.04	0.4959	Good
97	2238	3.940	61.04	13.22	0.3180	Good
98	2239	3.150	56.24	15.63	0.2769	Good
99	2240	3.360	67.29	10.73	0.2426	Good
100	2241	3.010	50.56	16.06	0.2444	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 24/260**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2348	6.760	61.90	14.56	0.6091	Good
2	2349	4.060	63.22	12.08	0.3102	Good
3	2350	4.120	63.18	13.72	0.3572	Good
4	2351	3.870	62.52	13.69	0.3313	Good
5	2352	3.830	58.93	13.12	0.2961	Good
6	2353	3.890	63.47	14.15	0.3493	Good
7	2354	2.990	51.35	11.30	0.1734	Good
8	2396	4.030	52.33	12.46	0.2628	Good
9	2397	4.040	72.48	12.42	0.3636	Good
10	2398	3.190	72.16	10.27	0.2364	Good
11	2399	4.160	69.72	13.08	0.3794	Good

12	2400	3.980	71.26	13.23	0.3753	Good
13	2301	4.100	60.13	11.44	0.2821	Good
14	2302	4.000	62.19	10.61	0.2640	Good
15	2303	4.170	64.81	12.79	0.3457	Good
16	2304	3.850	67.42	12.30	0.3192	Good
17	2305	6.630	68.07	13.65	0.6159	Good
18	2306	3.610	62.35	11.72	0.2639	Good
19	2355	3.940	60.36	11.81	0.2809	Good
20	2356	4.020	62.03	15.81	0.3944	Good
21	2357	4.030	63.30	14.66	0.3740	Good
22	2358	4.200	60.48	13.24	0.3364	Good
23	2359	3.590	62.85	13.41	0.3026	Good
24	2360	3.900	66.55	14.58	0.3783	Good
25	2307	4.190	63.42	12.28	0.3264	Good
26	2308	3.980	57.99	12.23	0.2822	Good
27	2309	3.620	59.39	13.37	0.2874	Good
28	2310	3.280	53.75	12.54	0.2211	Good
29	2311	3.450	58.97	16.35	0.3326	Good
30	2312	4.000	61.48	11.00	0.2704	Good
31	2361	3.960	61.04	9.16	0.2214	Good
32	2362	3.900	59.86	14.02	0.3272	Good
33	2363	3.800	61.01	13.11	0.3040	Good
34	2364	3.750	58.85	13.98	0.3086	Good
35	2365	3.910	59.61	10.00	0.2330	Good
36	2366	1.750	58.28	13.07	0.1334	Good
37	2313	7.010	67.36	12.01	0.5671	Good
38	2314	3.790	70.41	12.91	0.3445	Good
39	2315	3.750	70.82	12.23	0.3248	Good
40	2316	6.530	59.48	11.05	0.4290	Good
41	2317	8.050	65.44	12.90	0.6794	Good
42	2318	3.730	64.57	8.15	0.1962	Inferior
43	2367	3.840	60.14	13.90	0.3210	Good
44	2368	3.810	55.87	12.87	0.2739	Good
45	2369	3.590	55.15	13.69	0.2710	Good
46	2370	3.950	66.45	14.57	0.3824	Good
47	2371	6.270	63.42	10.41	0.4138	Good
48	2372	3.890	56.72	12.32	0.2719	Good
49	2319	4.090	61.09	10.57	0.2642	Good
50	2320	3.710	63.56	16.60	0.3914	Good
51	2321	3.250	57.42	9.77	0.1823	Good

52	2322	3.910	59.39	12.07	0.2803	Good
53	2323	4.140	61.74	13.20	0.3374	Good
54	2324	3.730	72.90	13.59	0.3696	Good
55	2373	3.770	64.61	13.26	0.3231	Good
56	2374	4.070	61.29	12.43	0.3101	Good
57	2375	3.980	64.54	9.68	0.2488	Good
58	2376	6.860	71.18	12.56	0.6133	Good
59	2377	4.190	64.17	12.95	0.3482	Good
60	2378	4.090	70.49	12.50	0.3603	Good
61	2325	3.380	64.33	12.50	0.2718	Good
62	2326	3.820	60.84	13.41	0.3117	Good
63	2327	4.360	56.22	11.79	0.2891	Good
64	2328	4.140	59.69	11.27	0.2786	Good
65	2329	3.970	61.15	11.19	0.2715	Good
66	2330	4.120	60.66	10.32	0.2579	Good
67	2379	4.250	63.10	10.05	0.2695	Good
68	2380	4.170	71.77	12.74	0.3811	Good
69	2381	4.140	71.35	13.51	0.3991	Good
70	2382	4.100	70.72	12.64	0.3665	Good
71	2383	6.950	72.06	13.72	0.6874	Good
72	2384	4.040	59.76	10.88	0.2626	Good
73	2331	4.050	57.84	10.70	0.2507	Good
74	2332	3.890	62.50	11.28	0.2742	Good
75	2333	3.820	65.80	13.01	0.3270	Good
76	2334	4.000	59.28	11.15	0.2644	Good
77	2335	3.780	60.26	14.44	0.3289	Good
78	2336	3.700	57.22	9.79	0.2072	Good
79	2385	7.070	63.35	11.48	0.5140	Good
80	2386	4.120	61.41	6.92	0.1751	Inferior
81	2387	4.140	70.93	12.74	0.3743	Good
82	2388	1.440	59.05	13.85	0.1178	Good
83	2389	4.120	61.63	12.01	0.3049	Good
84	2390	4.300	59.62	12.16	0.3118	Good
85	2337	3.770	65.27	9.97	0.2454	Good
86	2338	6.870	60.25	9.46	0.3916	Good
87	2339	4.190	56.57	14.58	0.3457	Good
88	2340	3.890	54.81	13.10	0.2793	Good
89	2341	4.290	68.75	12.01	0.3544	Good
90	2342	3.820	58.08	14.81	0.3285	Good
91	2391	4.090	56.20	14.89	0.3423	Good

92	2392	3.960	58.52	10.39	0.2408	Good
93	2393	7.090	71.48	13.00	0.6587	Good
94	2394	4.140	71.09	12.73	0.3747	Good
95	2395	4.310	53.50	12.30	0.2836	Good
96	2343	3.940	59.21	12.87	0.3002	Good
97	2344	4.140	66.15	11.41	0.3126	Good
98	2345	3.230	60.95	13.29	0.2616	Good
99	2346	3.740	65.33	10.30	0.2517	Good
100	2347	3.970	65.34	13.48	0.3498	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 26/262**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2548	3.300	61.51	12.75	0.2587	Good
2	2549	4.230	62.65	12.75	0.3380	Good
3	2550	3.580	62.78	12.39	0.2785	Good
4	2551	3.840	65.40	12.66	0.3180	Good
5	2552	3.840	61.31	12.72	0.2995	Good
6	2553	4.020	66.92	11.97	0.3220	Good
7	2501	3.570	57.73	12.26	0.2528	Good
8	2502	3.830	65.30	12.51	0.3129	Good
9	2503	4.000	60.03	12.89	0.3096	Good
10	2504	3.380	54.62	12.67	0.2339	Good
11	2505	3.610	57.55	12.22	0.2538	Good
12	2506	3.930	68.00	11.49	0.3069	Good
13	2554	6.870	62.45	12.62	0.5414	Good
14	2555	4.010	67.00	12.04	0.3236	Good
15	2556	3.970	58.28	12.73	0.2946	Good
16	2557	7.900	65.93	12.73	0.6628	Good
17	2558	7.070	66.56	12.44	0.5854	Good
18	2559	4.050	58.98	12.72	0.3038	Good
19	2507	3.260	60.43	13.06	0.2572	Good
20	2508	3.780	67.93	11.64	0.2990	Good
21	2509	3.570	50.07	13.36	0.2388	Good
22	2510	3.510	56.96	12.90	0.2580	Good
23	2511	3.820	59.79	12.71	0.2903	Good
24	2512	3.430	67.49	13.11	0.3036	Good
25	2560	3.040	58.88	12.53	0.2244	Good
26	2561	4.370	56.42	13.47	0.3321	Good
27	2562	4.040	64.65	12.33	0.3220	Good
28	2563	3.940	58.02	13.31	0.3042	Good

29	2564	6.700	64.93	12.75	0.5548	Good
30	2565	3.500	62.38	12.68	0.2769	Good
31	2513	4.400	58.85	12.83	0.3322	Good
32	2514	3.700	60.98	12.96	0.2923	Good
33	2515	3.700	57.92	12.02	0.2575	Good
34	2516	1.550	44.05	15.78	0.1077	Good
35	2517	3.240	58.90	12.48	0.2381	Good
36	2518	3.670	61.42	12.26	0.2764	Good
37	2566	3.840	49.19	14.23	0.2688	Good
38	2567	3.950	59.74	12.02	0.2836	Good
39	2568	3.960	62.84	12.73	0.3168	Good
40	2569	4.050	58.82	13.89	0.3309	Good
41	2570	2.680	57.30	12.25	0.1881	Good
42	2571	3.960	63.90	11.97	0.3029	Good
43	2519	3.440	64.74	12.22	0.2721	Good
44	2520	3.820	60.42	12.88	0.2972	Good
45	2521	3.450	56.67	12.72	0.2487	Good
46	2522	3.830	60.58	12.55	0.2911	Good
47	2523	3.760	62.33	12.05	0.2824	Good
48	2524	3.630	66.44	11.63	0.2806	Good
49	2572	4.260	50.39	15.00	0.3221	Good
50	2573	3.890	60.70	12.34	0.2914	Good
51	2574	4.110	62.74	11.99	0.3091	Good
52	2575	3.970	57.24	12.95	0.2942	Good
53	2576	4.020	59.79	12.74	0.3063	Good
54	2577	7.120	63.99	12.06	0.5497	Good
55	2525	5.860	63.98	11.75	0.4407	Good
56	2526	4.010	67.73	11.86	0.3220	Good
57	2527	4.000	57.35	12.66	0.2904	Good
58	2528	3.250	62.93	12.11	0.2477	Good
59	2529	4.210	60.93	12.26	0.3145	Good
60	2530	4.360	58.00	11.97	0.3026	Good
61	2578	3.930	61.80	12.23	0.2971	Good
62	2579	3.910	63.36	12.37	0.3065	Good
63	2580	3.930	56.44	13.61	0.3018	Good
64	2581	8.070	58.34	12.67	0.5964	Good
65	2582	3.890	59.52	12.60	0.2918	Good
66	2583	3.600	64.63	11.90	0.2768	Good
67	2531	3.300	54.63	13.55	0.2442	Good
68	2532	6.760	63.59	12.03	0.5171	Good

69	2533	4.090	55.26	13.72	0.3100	Good
70	2534	3.290	61.79	12.22	0.2484	Good
71	2535	3.370	58.33	12.53	0.2463	Good
72	2536	3.380	63.57	11.78	0.2532	Good
73	2584	4.120	57.97	13.02	0.3111	Good
74	2585	3.410	52.94	12.43	0.2244	Good
75	2586	4.090	53.19	13.37	0.2908	Good
76	2587	3.270	56.13	12.95	0.2377	Good
77	2588	3.920	56.29	13.16	0.2905	Good
78	2589	4.050	63.39	12.45	0.3195	Good
79	2537	4.180	60.13	11.74	0.2951	Good
80	2538	4.020	61.03	12.68	0.3111	Good
81	2539	4.140	69.21	11.50	0.3295	Good
82	2540	4.010	58.35	13.26	0.3104	Good
83	2541	4.110	61.10	12.98	0.3259	Good
84	2542	3.140	70.10	11.51	0.2534	Good
85	2590	4.100	44.53	15.11	0.2759	Good
86	2591	7.020	55.21	12.43	0.4816	Good
87	2592	3.850	53.03	14.24	0.2907	Good
88	2593	3.920	62.19	12.11	0.2952	Good
89	2594	4.010	62.31	11.86	0.2963	Good
90	2595	3.830	65.00	12.17	0.3030	Good
91	2543	3.470	58.87	12.99	0.2655	Good
92	2544	7.080	61.01	11.74	0.5069	Good
93	2545	6.570	62.33	11.94	0.4888	Good
94	2546	4.060	54.68	13.70	0.3041	Good
95	2547	6.760	62.31	12.12	0.5104	Good
96	2596	6.950	67.53	11.91	0.5588	Good
97	2597	6.910	56.87	12.91	0.5072	Good
98	2598	6.960	64.86	11.96	0.5401	Good
99	2599	4.410	61.03	12.62	0.3396	Good
100	2600	4.220	64.98	11.90	0.3263	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 34/332**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3342	7.370	63.79	12.02	0.5653	Good
2	3343	4.600	64.89	12.58	0.3754	Good
3	3344	4.360	63.50	12.79	0.3540	Good
4	3345	3.300	62.04	12.83	0.2627	Good
5	3346	2.050	58.16	13.00	0.1550	Good



6	3347	4.160	63.49	13.07	0.3453	Good
7	3372	4.190	60.26	12.21	0.3084	Good
8	3373	3.130	62.88	13.12	0.2582	Good
9	3374	4.010	69.06	13.86	0.3838	Good
10	3375	3.580	54.59	13.15	0.2570	Good
11	3376	4.050	63.44	12.47	0.3204	Good
12	3377	3.900	59.57	11.78	0.2738	Good
13	3348	3.560	69.05	13.95	0.3428	Good
14	3349	3.610	61.58	12.60	0.2801	Good
15	3350	4.110	60.58	13.27	0.3304	Good
16	3351	4.250	67.62	12.16	0.3494	Good
17	3352	4.070	68.34	11.56	0.3215	Good
18	3353	4.260	63.96	12.54	0.3417	Good
19	3301	3.800	66.52	12.01	0.3036	Good
20	3302	4.110	63.79	12.96	0.3399	Good
21	3303	3.750	57.03	12.78	0.2734	Good
22	3304	3.940	63.18	12.08	0.3006	Good
23	3305	4.600	61.15	12.82	0.3606	Good
24	3306	3.970	61.97	12.26	0.3017	Good
25	3354	4.100	64.00	12.53	0.3288	Good
26	3355	4.320	69.73	12.23	0.3685	Good
27	3356	4.120	66.03	12.42	0.3378	Good
28	3357	4.320	63.83	12.45	0.3434	Good
29	3358	3.960	65.01	12.64	0.3255	Good
30	3359	4.140	64.66	11.91	0.3188	Good
31	3307	4.150	65.00	12.40	0.3345	Good
32	3308	4.020	65.73	12.08	0.3192	Good
33	3309	4.180	68.76	13.34	0.3833	Good
34	3310	3.450	61.25	12.56	0.2653	Good
35	3311	3.490	62.21	12.07	0.2621	Good
36	3312	4.320	67.70	12.27	0.3590	Good
37	3360	7.020	66.74	11.94	0.5595	Good
38	3361	3.890	65.08	12.71	0.3217	Good
39	3362	3.360	70.52	12.37	0.2930	Good
40	3363	3.330	67.20	12.04	0.2694	Good
41	3364	4.120	69.98	14.52	0.4186	Good
42	3365	3.820	63.77	12.62	0.3075	Good
43	3313	4.160	69.07	12.44	0.3573	Good
44	3314	4.120	69.68	13.53	0.3885	Good
45	3315	3.490	63.35	12.63	0.2792	Good

46	3316	6.730	66.47	12.61	0.5640	Good
47	3317	4.140	64.89	12.36	0.3320	Good
48	3318	7.280	67.17	12.27	0.5999	Good
49	3366	4.120	63.91	12.05	0.3172	Good
50	3367	4.120	65.58	12.47	0.3370	Good
51	3368	4.290	68.60	12.08	0.3556	Good
52	3369	4.230	64.88	12.59	0.3456	Good
53	3370	1.800	59.17	13.39	0.1426	Good
54	3371	3.890	59.15	12.54	0.2886	Good
55	3319	4.280	70.25	11.80	0.3548	Good
56	3320	6.960	69.48	11.54	0.5582	Good
57	3321	3.490	62.16	12.82	0.2782	Good
58	3322	4.240	67.85	12.51	0.3600	Good
59	3323	3.080	69.34	12.66	0.2704	Good
60	3324	6.940	64.52	12.20	0.5462	Good
61	3378	3.930	47.31	14.27	0.2653	Good
62	3379	4.120	60.11	12.41	0.3074	Good
63	3380	4.230	69.55	11.26	0.3312	Good
64	3381	4.110	55.84	14.38	0.3300	Good
65	3382	4.070	66.66	12.09	0.3280	Good
66	3383	6.920	66.38	12.34	0.5667	Good
67	3325	4.420	68.17	11.90	0.3585	Good
68	3326	4.260	65.42	12.27	0.3421	Good
69	3327	4.200	67.50	12.43	0.3524	Good
70	3328	4.080	66.79	12.61	0.3435	Good
71	3329	6.940	70.89	13.71	0.6746	Good
72	3330	4.270	72.47	11.20	0.3467	Good
73	3384	4.030	55.48	13.57	0.3035	Good
74	3385	3.990	62.42	11.89	0.2961	Good
75	3386	6.480	63.39	12.34	0.5067	Good
76	3387	3.900	60.76	13.12	0.3108	Good
77	3388	6.940	70.84	11.91	0.5857	Good
78	3389	4.160	68.49	11.64	0.3316	Good
79	3331	4.060	72.49	11.19	0.3293	Good
80	3332	4.220	69.16	11.25	0.3283	Good
81	3333	3.500	69.85	11.58	0.2832	Good
82	3334	4.330	73.63	10.48	0.3343	Good
83	3335	3.270	72.04	11.19	0.2636	Good
84	3336	4.010	66.70	11.14	0.2979	Good
85	3395	2.170	72.61	11.22	0.1769	Good

86	3396	3.360	64.25	12.22	0.2638	Good
87	3397	3.700	66.28	12.79	0.3138	Good
88	3398	6.940	64.84	12.83	0.5774	Good
89	3399	3.850	64.63	12.90	0.3211	Good
90	3400	2.550	65.88	13.28	0.2231	Good
91	3337	3.950	63.90	11.78	0.2974	Good
92	3338	4.100	70.89	11.99	0.3485	Good
93	3339	4.340	67.30	12.24	0.3576	Good
94	3340	4.560	69.94	11.17	0.3561	Good
95	3341	6.780	69.27	11.12	0.5221	Good
96	3390	3.840	71.15	13.03	0.3560	Good
97	3391	3.790	66.64	11.93	0.3013	Good
98	3392	2.720	69.58	11.40	0.2157	Good
99	3393	3.900	56.70	12.72	0.2812	Good
100	3394	4.020	68.71	12.04	0.3325	Good

DATE: 20.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 04/72**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	348	6.740	54.98	9.71	0.3599	Good
2	349	4.070	55.70	9.55	0.2165	Good
3	350	4.410	59.09	9.63	0.2509	Good
4	351	3.230	58.09	13.86	0.2600	Good
5	352	1.990	53.69	10.56	0.1128	Good
6	353	3.280	57.01	9.63	0.1801	Good
7	354	4.410	66.66	13.26	0.3898	Good
8	301	2.890	52.13	9.30	0.1402	Good
9	302	3.890	53.49	9.33	0.1941	Good
10	303	4.430	58.31	13.99	0.3615	Good
11	304	3.730	53.41	9.42	0.1876	Good
12	305	6.750	58.28	9.03	0.3551	Good
13	306	3.640	56.02	9.64	0.1966	Good
14	307	3.710	59.05	10.28	0.2252	Good
15	355	6.270	67.36	9.10	0.3844	Good
16	356	7.170	55.73	12.74	0.5091	Good
17	357	7.300	60.04	11.31	0.4957	Good
18	358	8.360	73.44	15.14	0.9296	Good
19	359	4.120	62.84	12.08	0.3127	Good
20	360	6.970	63.34	11.24	0.4963	Good
21	361	7.030	58.58	13.64	0.5617	Good
22	308	3.330	57.36	9.21	0.1758	Good
23	309	7.400	59.38	12.88	0.5661	Good
24	310	7.120	60.43	12.74	0.5482	Good
25	311	3.820	66.42	10.07	0.2556	Good
26	312	7.110	56.74	9.73	0.3925	Good
27	313	7.030	64.16	11.19	0.5048	Good
28	314	6.920	57.45	9.16	0.3640	Good
29	362	3.810	51.56	11.93	0.2343	Good
30	363	7.030	56.89	11.79	0.4717	Good
31	364	3.990	57.82	14.01	0.3232	Good
32	365	7.310	64.53	10.34	0.4876	Good
33	366	8.410	55.89	11.20	0.5265	Good
34	367	6.520	58.93	10.37	0.3984	Good

35	368	4.190	57.03	12.03	0.2874	Good
36	315	6.760	73.02	9.57	0.4725	Good
37	316	3.990	60.86	9.37	0.2274	Good
38	317	3.450	61.77	11.12	0.2370	Good
39	318	4.230	57.48	10.66	0.2593	Good
40	319	6.770	57.86	10.54	0.4130	Good
41	320	7.140	52.61	7.39	0.2777	Inferior
42	321	7.070	54.51	11.28	0.4348	Good
43	369	6.550	55.91	10.73	0.3930	Good
44	370	4.070	68.60	9.55	0.2666	Good
45	371	7.300	58.21	9.31	0.3957	Good
46	372	3.850	66.22	11.25	0.2868	Good
47	373	4.060	62.03	12.24	0.3082	Good
48	374	7.070	55.85	10.26	0.4051	Good
49	375	4.170	61.24	10.74	0.2744	Good
50	322	6.490	61.73	12.44	0.4984	Good
51	323	4.250	70.62	12.62	0.3787	Good
52	324	4.230	62.57	9.97	0.2640	Good
53	325	7.870	56.64	9.32	0.4155	Good
54	326	4.210	58.23	10.49	0.2572	Good
55	327	3.650	52.48	11.13	0.2132	Good
56	328	6.260	67.76	15.20	0.6448	Good
57	376	6.990	61.14	11.19	0.4781	Good
58	377	7.150	58.37	11.84	0.4941	Good
59	378	8.340	61.78	9.31	0.4796	Good
60	379	4.400	56.08	12.23	0.3018	Good
61	380	3.930	57.34	11.79	0.2657	Good
62	381	6.770	58.66	10.36	0.4116	Good
63	382	6.520	61.70	8.14	0.3273	Inferior
64	329	7.050	62.98	8.35	0.3708	Inferior
65	330	4.290	62.99	8.30	0.2244	Inferior
66	331	4.180	69.35	9.17	0.2658	Good
67	332	4.130	57.25	9.45	0.2234	Good
68	333	3.860	65.24	9.58	0.2413	Good
69	334	3.870	57.02	11.26	0.2485	Good
70	335	7.310	71.86	10.94	0.5746	Good
71	383	6.750	59.07	13.02	0.5191	Good
72	384	3.900	67.64	10.26	0.2707	Good
73	385	4.090	60.47	9.15	0.2262	Good
74	386	4.030	66.56	13.30	0.3567	Good

75	387	3.870	64.17	10.33	0.2566	Good
76	388	6.700	65.13	12.73	0.5554	Good
77	389	8.090	73.31	13.33	0.7904	Good
78	336	6.950	57.47	14.13	0.5643	Good
79	337	3.910	58.92	9.73	0.2240	Good
80	338	3.980	61.81	8.43	0.2074	Inferior
81	339	3.640	48.42	9.60	0.1693	Good
82	340	4.210	58.22	12.16	0.2981	Good
83	341	3.250	67.42	9.88	0.2165	Good
84	342	4.000	58.36	9.72	0.2268	Good
85	390	3.920	65.27	11.71	0.2995	Good
86	391	3.640	60.22	13.37	0.2930	Good
87	392	4.070	59.76	12.82	0.3118	Good
88	393	6.520	67.43	14.31	0.6292	Good
89	394	4.030	60.09	10.62	0.2571	Good
90	395	6.050	60.56	12.17	0.4459	Good
91	343	6.940	55.55	11.00	0.4240	Good
92	344	3.210	58.40	9.97	0.1868	Good
93	345	3.940	64.69	10.42	0.2656	Good
94	346	6.470	60.42	13.47	0.5267	Good
95	347	4.170	67.48	10.89	0.3065	Good
96	396	4.210	57.51	12.14	0.2939	Good
97	397	3.960	63.00	9.48	0.2364	Good
98	398	1.910	72.06	11.09	0.1526	Good
99	399	8.280	56.58	12.55	0.5879	Good
100	400	3.910	53.52	13.42	0.2807	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 21/215**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2061	2.820	56.57	11.86	0.1892	Good
2	2062	4.060	56.18	10.63	0.2424	Good
3	2063	3.310	62.56	14.85	0.3075	Good
4	2064	4.030	60.61	12.21	0.2982	Good
5	2065	3.130	58.95	12.16	0.2244	Good
6	2066	2.380	62.64	10.36	0.1545	Good
7	2067	3.540	55.33	11.24	0.2202	Good
8	2074	2.910	60.00	10.53	0.1839	Good
9	2075	3.620	57.21	10.84	0.2244	Good
10	2076	3.490	60.68	11.21	0.2373	Good
11	2077	3.860	57.16	10.48	0.2312	Good

12	2078	3.920	62.56	10.18	0.2497	Good
13	2079	3.990	66.11	13.01	0.3431	Good
14	2080	3.360	56.46	13.50	0.2560	Good
15	2094	4.100	57.93	10.98	0.2608	Good
16	2095	4.150	54.53	10.58	0.2395	Good
17	2096	3.210	58.68	10.22	0.1926	Good
18	2097	3.710	64.46	12.35	0.2953	Good
19	2098	4.230	60.48	10.81	0.2766	Good
20	2099	3.880	57.12	11.20	0.2483	Good
21	2100	4.270	65.19	13.74	0.3826	Good
22	2008	6.750	72.29	12.06	0.5886	Good
23	2009	4.100	64.49	14.06	0.3719	Good
24	2010	3.760	56.35	9.17	0.1944	Good
25	2011	4.060	58.76	12.53	0.2988	Good
26	2012	3.890	55.77	11.49	0.2493	Good
27	2013	3.810	60.26	12.50	0.2869	Good
28	2014	4.130	68.26	13.24	0.3734	Good
29	2021	3.070	63.55	10.40	0.2029	Good
30	2022	3.280	55.94	9.47	0.1738	Good
31	2023	3.050	65.86	13.51	0.2715	Good
32	2024	3.720	61.77	10.57	0.2429	Good
33	2025	1.540	69.90	13.35	0.1437	Good
34	2026	3.990	65.74	13.13	0.3443	Good
35	2032	6.710	61.66	9.67	0.3999	Good
36	2033	3.570	60.38	13.13	0.2831	Good
37	2034	3.410	58.15	11.38	0.2257	Good
38	2035	3.560	63.70	12.70	0.2880	Good
39	2036	6.560	70.42	13.87	0.6409	Good
40	2043	3.840	66.23	13.08	0.3325	Good
41	2044	3.770	57.72	13.60	0.2959	Good
42	2045	6.870	54.66	10.26	0.3854	Good
43	2046	4.100	56.16	10.99	0.2530	Good
44	2047	3.760	53.78	11.70	0.2365	Good
45	2048	3.700	58.44	10.39	0.2246	Good
46	2054	3.360	65.85	14.78	0.3269	Good
47	2055	3.050	59.62	12.68	0.2306	Good
48	2056	3.660	61.25	13.14	0.2946	Good
49	2057	3.630	51.59	10.31	0.1931	Good
50	2058	2.810	59.62	9.75	0.1633	Good
51	2059	2.970	61.68	7.30	0.1337	Inferior

52	2060	3.540	66.24	9.95	0.2333	Good
53	2068	3.490	61.16	10.71	0.2286	Good
54	2069	3.100	73.82	9.89	0.2263	Good
55	2070	3.560	63.97	7.27	0.1655	Inferior
56	2071	3.390	68.34	9.60	0.2224	Good
57	2072	3.150	67.02	9.31	0.1966	Good
58	2073	3.430	62.11	10.74	0.2288	Good
59	2081	3.780	58.52	12.01	0.2657	Good
60	2082	3.960	64.79	11.84	0.3037	Good
61	2083	3.780	60.69	12.41	0.2846	Good
62	2084	3.290	70.59	10.75	0.2497	Good
63	2085	3.390	59.28	11.30	0.2271	Good
64	2086	1.350	69.43	10.27	0.0963	Good
65	2087	2.740	57.62	10.90	0.1721	Good
66	2088	4.010	58.34	10.90	0.2550	Good
67	2001	6.560	62.51	10.37	0.4251	Good
68	2002	3.410	65.60	13.29	0.2974	Good
69	2003	3.670	61.89	13.27	0.3013	Good
70	2004	3.770	73.93	9.06	0.2526	Good
71	2005	5.030	72.74	13.47	0.4929	Good
72	2006	7.030	59.48	9.80	0.4098	Good
73	2007	2.700	61.51	10.65	0.1769	Good
74	2015	4.140	69.54	12.96	0.3730	Good
75	2016	4.130	67.29	5.90	0.1640	Inferior
76	2017	3.960	61.00	11.18	0.2701	Good
77	2018	4.000	56.17	15.06	0.3384	Good
78	2019	3.790	73.74	6.93	0.1937	Inferior
79	2020	2.930	64.40	13.82	0.2608	Good
80	2027	4.120	62.17	11.92	0.3053	Good
81	2028	2.790	65.96	13.25	0.2438	Good
82	2029	2.350	71.36	8.27	0.1387	Inferior
83	2030	3.250	69.84	11.03	0.2503	Good
84	2031	5.450	64.68	15.29	0.5390	Good
85	2037	6.730	60.54	12.32	0.5021	Good
86	2038	2.920	60.59	10.13	0.1793	Good
87	2039	4.160	65.45	13.49	0.3673	Good
88	2040	6.360	59.63	13.01	0.4935	Good
89	2041	3.920	70.12	10.30	0.2830	Good
90	2042	3.270	61.84	14.96	0.3025	Good
91	2049	1.660	63.04	12.29	0.1287	Good



92	2050	3.610	68.01	8.32	0.2043	Inferior
93	2051	4.020	64.25	12.54	0.3240	Good
94	2052	3.450	56.04	13.22	0.2556	Good
95	2053	2.960	66.63	8.07	0.1592	Inferior
96	2089	6.690	72.59	7.73	0.3753	Inferior
97	2090	3.730	61.65	11.29	0.2596	Good
98	2091	5.960	65.92	14.47	0.5686	Good
99	2092	4.120	61.43	9.25	0.2340	Good
100	2093	3.650	65.08	13.66	0.3245	Good

DATE: 17.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 31/329**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3013	4.450	62.51	11.26	0.3133	Good
2	3014	3.860	73.32	11.80	0.3339	Good
3	3015	3.900	57.30	11.94	0.2668	Good
4	3016	4.110	75.42	10.32	0.3198	Good
5	3017	6.880	63.89	9.22	0.4052	Good
6	3018	3.820	61.41	10.18	0.2388	Good
7	3019	4.200	60.61	8.66	0.2205	Inferior
8	3020	3.760	55.44	12.36	0.2576	Good
9	3021	3.360	53.80	9.83	0.1777	Good
10	3035	4.250	65.36	9.06	0.2516	Good
11	3036	4.100	57.43	6.97	0.1640	Inferior
12	3037	8.080	56.09	9.75	0.4420	Good
13	3038	3.970	56.13	9.50	0.2116	Good
14	3039	4.360	70.44	10.02	0.3078	Good
15	3040	7.090	69.61	13.22	0.6523	Good
16	3047	4.250	65.86	12.89	0.3608	Good
17	3048	3.410	63.36	9.04	0.1954	Good
18	3049	3.920	68.02	9.22	0.2458	Good
19	3050	6.490	65.48	10.80	0.4588	Good
20	3051	5.940	60.32	10.93	0.3914	Good
21	3052	4.240	67.70	9.32	0.2675	Good
22	3058	7.290	63.96	10.73	0.5001	Good
23	3059	3.680	63.75	10.31	0.2418	Good
24	3060	4.060	64.78	10.81	0.2842	Good
25	3061	3.600	64.37	9.46	0.2192	Good
26	3062	3.680	60.25	10.85	0.2407	Good
27	3084	3.340	53.57	10.70	0.1914	Good
28	3085	4.080	60.34	6.91	0.1701	Inferior
29	3086	3.160	60.90	10.36	0.1994	Good
30	3087	3.950	65.01	12.29	0.3156	Good
31	3088	4.140	55.42	11.10	0.2546	Good
32	3089	4.120	62.08	10.92	0.2793	Good
33	3090	4.170	63.81	11.66	0.3102	Good
34	3096	3.960	71.83	10.66	0.3033	Good

35	3097	4.360	69.75	10.39	0.3161	Good
36	3098	6.270	63.28	11.03	0.4376	Good
37	3099	4.080	64.68	9.63	0.2542	Good
38	3100	4.000	66.76	12.01	0.3208	Good
39	3070	3.480	60.03	9.08	0.1897	Good
40	3071	3.490	69.12	9.32	0.2248	Good
41	3072	3.300	54.40	10.92	0.1960	Good
42	3073	3.400	58.98	9.61	0.1928	Good
43	3074	4.070	72.51	11.79	0.3480	Good
44	3075	4.070	57.48	10.66	0.2495	Good
45	3076	3.430	64.01	9.92	0.2178	Good
46	3006	3.860	53.43	11.10	0.2289	Good
47	3007	4.100	58.63	9.99	0.2403	Good
48	3008	6.380	65.04	7.92	0.3286	Inferior
49	3009	3.670	60.61	9.75	0.2169	Good
50	3010	3.350	58.44	9.53	0.1866	Good
51	3011	3.790	62.98	7.95	0.1899	Inferior
52	3012	4.310	59.45	9.07	0.2323	Good
53	3027	3.970	61.16	9.25	0.2247	Good
54	3028	3.950	56.32	8.59	0.1912	Inferior
55	3029	4.010	58.01	9.62	0.2238	Good
56	3030	3.890	58.13	9.63	0.2178	Good
57	3031	4.000	65.31	13.34	0.3484	Good
58	3032	4.180	55.19	9.69	0.2236	Good
59	3033	3.930	51.63	12.61	0.2558	Good
60	3034	4.140	54.22	9.72	0.2182	Good
61	3041	4.360	57.50	9.70	0.2433	Good
62	3042	3.180	64.93	9.49	0.1959	Good
63	3043	4.030	67.69	9.50	0.2591	Good
64	3044	7.210	54.87	13.43	0.5314	Good
65	3045	4.220	63.68	9.34	0.2511	Good
66	3046	4.170	63.47	10.84	0.2869	Good
67	3053	4.050	69.94	12.67	0.3588	Good
68	3054	3.930	73.57	12.72	0.3678	Good
69	3055	3.880	62.85	9.16	0.2235	Good
70	3056	4.220	66.11	9.64	0.2688	Good
71	3057	4.170	56.57	7.94	0.1872	Inferior
72	3077	4.170	52.41	13.51	0.2952	Good
73	3078	7.270	60.43	9.30	0.4086	Good
74	3079	4.120	58.06	9.09	0.2175	Good

75	3080	4.190	76.30	9.29	0.2971	Good
76	3081	6.970	65.96	13.64	0.6273	Good
77	3082	4.310	58.79	9.29	0.2353	Good
78	3083	3.870	57.31	9.86	0.2187	Good
79	3091	4.260	57.60	10.09	0.2475	Good
80	3092	3.480	73.99	9.11	0.2346	Good
81	3093	3.720	62.03	9.27	0.2139	Good
82	3094	6.660	56.26	12.44	0.4662	Good
83	3095	4.310	60.63	9.67	0.2526	Good
84	3063	3.770	56.25	12.04	0.2552	Good
85	3064	4.170	60.85	10.07	0.2556	Good
86	3065	4.080	60.60	9.74	0.2407	Good
87	3066	4.270	66.03	13.92	0.3924	Good
88	3067	6.350	66.25	9.55	0.4020	Good
89	3068	4.000	57.72	9.65	0.2228	Good
90	3069	4.030	58.03	9.10	0.2128	Good
91	3022	3.480	56.42	10.86	0.2133	Good
92	3023	4.200	58.71	10.19	0.2512	Good
93	3024	8.520	58.58	13.59	0.6782	Good
94	3025	4.230	62.13	10.51	0.2762	Good
95	3026	3.970	60.20	10.45	0.2497	Good
96	3001	4.070	62.45	11.18	0.2841	Good
97	3002	4.090	56.58	9.01	0.2086	Good
98	3003	3.900	50.64	13.55	0.2675	Good
99	3004	4.000	60.21	9.38	0.2260	Good
100	3005	4.400	53.96	11.92	0.2829	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 45/424**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4434	4.220	65.91	11.15	0.3102	Good
2	4435	3.540	54.99	13.75	0.2676	Good
3	4436	3.750	65.79	11.80	0.2910	Good
4	4437	3.930	58.26	13.11	0.3003	Good
5	4438	3.450	53.67	10.40	0.1925	Good
6	4439	4.410	62.87	10.67	0.2959	Good
7	4440	6.930	68.60	13.19	0.6272	Good
8	4483	4.070	61.53	9.10	0.2279	Good
9	4484	3.860	68.83	12.86	0.3416	Good
10	4485	4.110	64.08	10.38	0.2733	Good
11	4486	4.260	59.45	10.80	0.2735	Good

12	4487	4.270	58.15	9.44	0.2344	Good
13	4488	4.360	61.28	11.37	0.3039	Good
14	4489	4.190	51.48	11.09	0.2392	Good
15	4441	3.670	64.29	13.70	0.3233	Good
16	4442	3.910	63.16	9.80	0.2420	Good
17	4443	4.160	60.55	9.93	0.2500	Good
18	4444	3.980	66.48	12.35	0.3268	Good
19	4445	2.020	59.56	10.44	0.1256	Good
20	4446	3.940	62.66	10.55	0.2604	Good
21	4447	4.050	58.60	11.66	0.2766	Good
22	4454	3.540	53.86	15.67	0.2988	Good
23	4455	3.710	57.41	9.27	0.1974	Good
24	4456	3.900	57.59	10.90	0.2449	Good
25	4457	3.220	62.94	9.79	0.1984	Good
26	4458	4.160	60.72	11.91	0.3008	Good
27	4459	3.250	71.49	12.84	0.2984	Good
28	4460	3.850	54.92	12.36	0.2614	Good
29	4490	3.780	71.38	12.61	0.3402	Good
30	4491	4.310	60.13	10.24	0.2655	Good
31	4492	3.490	56.18	11.36	0.2227	Good
32	4493	4.070	69.42	13.35	0.3773	Good
33	4494	3.780	54.05	14.80	0.3024	Good
34	4448	3.910	59.23	11.31	0.2620	Good
35	4449	4.300	51.53	10.81	0.2395	Good
36	4450	4.270	55.86	10.96	0.2613	Good
37	4451	4.070	61.56	11.47	0.2873	Good
38	4452	3.830	60.76	11.13	0.2589	Good
39	4453	1.950	58.88	11.68	0.1342	Good
40	4495	3.340	55.04	15.32	0.2816	Good
41	4496	4.140	53.82	14.25	0.3175	Good
42	4497	4.150	54.42	13.74	0.3104	Good
43	4498	3.960	61.44	7.50	0.1826	Inferior
44	4499	4.250	57.39	11.71	0.2856	Good
45	4500	4.030	61.45	9.05	0.2241	Good
46	4401	4.110	59.63	10.98	0.2692	Good
47	4402	3.910	57.23	10.24	0.2291	Good
48	4403	3.950	52.61	12.94	0.2690	Good
49	4404	4.020	61.55	9.89	0.2448	Good
50	4405	3.380	59.95	6.89	0.1396	Inferior
51	4406	4.050	72.59	13.31	0.3912	Good

52	4407	4.280	58.49	12.74	0.3189	Good
53	4461	3.920	51.05	10.50	0.2101	Good
54	4462	3.400	53.40	12.45	0.2261	Good
55	4463	4.120	61.02	10.50	0.2641	Good
56	4464	3.800	59.93	9.33	0.2124	Good
57	4465	4.260	55.79	10.22	0.2428	Good
58	4408	4.300	60.40	10.13	0.2632	Good
59	4409	4.110	57.29	11.64	0.2741	Good
60	4410	4.120	68.47	12.91	0.3642	Good
61	4411	3.910	57.86	12.56	0.2843	Good
62	4412	4.130	54.39	10.98	0.2466	Good
63	4413	4.190	55.35	11.18	0.2594	Good
64	4414	4.190	58.77	13.97	0.3440	Good
65	4466	4.130	64.01	11.00	0.2908	Good
66	4467	4.190	61.70	9.08	0.2346	Good
67	4468	7.390	63.03	9.17	0.4271	Good
68	4469	3.590	57.18	12.07	0.2477	Good
69	4470	3.410	58.42	10.29	0.2049	Good
70	4415	4.210	56.09	11.16	0.2635	Good
71	4416	4.030	65.50	12.50	0.3301	Good
72	4417	4.150	66.33	11.02	0.3034	Good
73	4418	4.000	65.69	12.30	0.3232	Good
74	4419	3.880	58.76	10.59	0.2413	Good
75	4420	4.060	58.92	10.06	0.2408	Good
76	4421	3.900	60.77	10.45	0.2477	Good
77	4471	4.080	56.31	10.99	0.2526	Good
78	4472	3.900	63.34	14.02	0.3463	Good
79	4473	3.960	65.31	13.83	0.3576	Good
80	4474	4.150	56.13	12.35	0.2876	Good
81	4475	3.920	72.76	12.37	0.3528	Good
82	4422	3.800	55.51	9.35	0.1972	Good
83	4423	4.240	57.15	10.48	0.2540	Good
84	4424	4.140	71.62	12.75	0.3780	Good
85	4425	3.830	56.36	8.37	0.1808	Inferior
86	4426	3.560	62.96	10.80	0.2421	Good
87	4427	4.060	61.02	12.14	0.3008	Good
88	4476	3.220	55.73	10.05	0.1803	Good
89	4477	4.120	57.75	10.08	0.2398	Good
90	4478	3.910	66.95	12.25	0.3206	Good
91	4479	4.130	58.02	12.53	0.3003	Good

92	4480	4.110	63.97	10.69	0.2811	Good
93	4481	6.260	72.74	13.40	0.6104	Good
94	4482	4.260	61.63	9.28	0.2437	Good
95	4428	3.390	53.68	7.10	0.1292	Inferior
96	4429	4.130	59.43	13.07	0.3209	Good
97	4430	3.170	58.72	10.20	0.1899	Good
98	4431	4.250	56.89	10.18	0.2461	Good
99	4432	7.050	60.21	10.20	0.4329	Good
100	4433	4.010	64.58	9.76	0.2526	Good

DATE: 16.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 22/216**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2194	3.660	55.50	11.24	0.2284	Good
2	2195	3.820	61.59	9.68	0.2277	Good
3	2196	3.280	64.79	12.30	0.2614	Good
4	2197	6.360	63.00	11.03	0.4420	Good
5	2198	6.250	57.45	9.43	0.3388	Good
6	2199	2.940	52.55	11.93	0.1843	Good
7	2200	3.850	58.92	14.29	0.3242	Good
8	2108	4.070	59.93	10.08	0.2458	Good
9	2109	4.250	70.25	10.49	0.3132	Good
10	2110	4.010	63.02	10.19	0.2574	Good
11	2111	6.810	51.89	9.92	0.3507	Good
12	2112	7.020	54.17	11.15	0.4240	Good
13	2113	3.800	54.60	8.42	0.1748	Inferior
14	2114	3.960	55.87	8.27	0.1830	Inferior
15	2126	6.350	72.80	13.52	0.6248	Good
16	2127	7.010	64.37	10.89	0.4914	Good
17	2128	4.030	58.19	8.61	0.2019	Inferior
18	2129	3.850	67.98	9.91	0.2595	Good
19	2130	3.910	60.26	13.67	0.3222	Good
20	2131	3.410	55.55	9.40	0.1780	Good
21	2138	3.530	72.81	11.94	0.3068	Good
22	2139	3.980	59.74	9.66	0.2296	Good
23	2140	4.370	58.32	9.88	0.2517	Good
24	2141	3.990	65.48	12.17	0.3180	Good
25	2142	1.850	66.04	9.93	0.1214	Good
26	2143	4.090	59.45	14.23	0.3460	Good
27	2156	3.210	68.07	10.27	0.2244	Good
28	2157	3.760	71.55	10.66	0.2869	Good
29	2158	3.820	65.97	12.85	0.3239	Good
30	2159	4.000	72.04	12.66	0.3648	Good
31	2160	3.980	63.35	13.07	0.3295	Good
32	2161	6.870	58.32	11.63	0.4658	Good
33	2162	3.960	72.21	7.19	0.2055	Inferior
34	2169	3.940	64.82	11.18	0.2857	Good



35	2170	4.040	59.98	9.85	0.2388	Good
36	2171	1.850	66.55	9.27	0.1141	Good
37	2172	3.810	55.97	10.13	0.2160	Good
38	2173	1.920	54.01	12.39	0.1284	Good
39	2174	3.590	68.17	9.31	0.2280	Good
40	2181	3.510	59.95	10.08	0.2120	Good
41	2182	3.000	54.34	7.99	0.1302	Inferior
42	2183	6.070	57.69	10.94	0.3830	Good
43	2184	3.810	69.42	10.27	0.2717	Good
44	2185	6.640	55.96	10.26	0.3811	Good
45	2186	3.410	70.71	9.28	0.2237	Good
46	2187	3.810	54.55	10.21	0.2122	Good
47	2188	4.040	59.22	9.79	0.2343	Good
48	2189	3.840	71.83	9.84	0.2715	Good
49	2190	3.590	72.05	8.45	0.2186	Inferior
50	2191	4.010	72.62	10.95	0.3188	Good
51	2192	3.660	64.02	9.37	0.2196	Good
52	2193	3.820	62.60	12.64	0.3022	Good
53	2101	6.970	71.50	7.85	0.3910	Inferior
54	2102	3.870	59.05	11.43	0.2612	Good
55	2103	4.110	65.99	9.00	0.2441	Good
56	2104	3.840	70.11	7.77	0.2093	Inferior
57	2105	6.970	58.55	6.56	0.2676	Inferior
58	2106	3.930	62.66	10.92	0.2688	Good
59	2107	3.760	60.34	10.92	0.2478	Good
60	2120	3.690	72.43	12.27	0.3280	Good
61	2121	7.150	60.32	10.46	0.4512	Good
62	2122	3.450	66.04	12.04	0.2743	Good
63	2123	4.080	66.84	12.18	0.3321	Good
64	2124	2.990	71.55	10.44	0.2234	Good
65	2125	4.190	61.80	10.60	0.2744	Good
66	2132	3.920	65.85	10.04	0.2591	Good
67	2133	3.450	62.96	9.15	0.1987	Good
68	2134	3.790	52.97	11.99	0.2407	Good
69	2135	2.920	54.58	9.51	0.1515	Good
70	2136	4.040	61.44	11.00	0.2731	Good
71	2137	1.690	58.61	14.21	0.1408	Good
72	2149	4.030	60.82	11.95	0.2930	Good
73	2150	3.960	64.04	12.26	0.3109	Good
74	2151	4.310	51.54	12.13	0.2694	Good

75	2152	3.120	49.70	7.83	0.1214	Inferior
76	2153	2.960	57.99	6.69	0.1148	Inferior
77	2154	4.270	56.61	10.23	0.2472	Good
78	2155	3.600	61.72	9.14	0.2030	Good
79	2163	3.920	70.16	6.70	0.1842	Inferior
80	2164	4.200	60.52	13.75	0.3494	Good
81	2165	3.490	56.25	10.36	0.2035	Good
82	2166	4.080	60.38	12.04	0.2966	Good
83	2167	4.290	60.66	12.30	0.3200	Good
84	2168	6.570	56.44	11.73	0.4349	Good
85	2175	3.680	47.94	10.70	0.1888	Good
86	2176	3.710	54.69	11.43	0.2319	Good
87	2177	3.560	65.24	10.42	0.2421	Good
88	2178	3.790	63.68	11.73	0.2831	Good
89	2179	5.900	60.20	7.34	0.2608	Inferior
90	2180	3.780	63.46	7.11	0.1705	Inferior
91	2115	4.030	57.20	9.53	0.2196	Good
92	2116	3.590	61.90	9.92	0.2204	Good
93	2117	3.950	64.87	11.93	0.3057	Good
94	2118	3.350	65.18	9.25	0.2020	Good
95	2119	3.940	71.06	9.56	0.2675	Good
96	2144	3.020	59.88	9.77	0.1767	Good
97	2145	3.180	74.46	10.81	0.2560	Good
98	2146	4.180	63.95	9.07	0.2424	Good
99	2147	7.440	69.58	8.05	0.4166	Inferior
100	2148	3.410	73.21	13.24	0.3304	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 29/289**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2813	4.060	55.84	12.71	0.2883	Good
2	2814	4.480	59.87	10.96	0.2939	Good
3	2815	4.070	64.56	11.07	0.2910	Good
4	2816	3.720	63.35	11.52	0.2716	Good
5	2817	4.020	57.16	13.59	0.3124	Good
6	2818	3.530	49.69	15.76	0.2764	Good
7	2819	3.410	63.96	13.29	0.2899	Good
8	2832	4.320	56.10	12.55	0.3041	Good
9	2833	4.300	64.14	12.49	0.3444	Good
10	2834	4.140	59.44	12.92	0.3180	Good
11	2835	4.120	56.89	13.73	0.3218	Good

12	2836	4.140	59.36	12.08	0.2968	Good
13	2837	4.050	60.10	12.05	0.2932	Good
14	2838	4.000	56.17	11.25	0.2528	Good
15	2845	3.520	66.22	14.21	0.3312	Good
16	2846	3.930	58.43	12.78	0.2936	Good
17	2847	4.350	64.48	11.27	0.3162	Good
18	2848	3.810	54.93	12.20	0.2553	Good
19	2849	3.250	60.46	11.23	0.2207	Good
20	2850	4.340	59.36	13.98	0.3602	Good
21	2858	4.130	65.25	12.18	0.3283	Good
22	2859	4.120	65.81	13.10	0.3551	Good
23	2860	8.330	65.45	12.13	0.6614	Good
24	2861	4.240	62.29	9.84	0.2599	Good
25	2862	3.640	66.25	12.56	0.3028	Good
26	2863	4.160	63.50	12.17	0.3216	Good
27	2864	4.310	59.74	12.74	0.3280	Good
28	2871	4.120	64.31	13.26	0.3514	Good
29	2872	4.050	57.47	12.77	0.2973	Good
30	2873	2.970	55.28	13.48	0.2213	Good
31	2874	3.920	60.05	10.96	0.2579	Good
32	2875	6.450	64.51	11.83	0.4921	Good
33	2882	3.980	62.16	13.06	0.3232	Good
34	2883	3.690	50.43	14.77	0.2749	Good
35	2884	4.160	52.84	13.21	0.2904	Good
36	2885	4.190	57.50	12.64	0.3046	Good
37	2886	4.220	58.45	10.21	0.2519	Good
38	2887	4.220	61.46	12.50	0.3241	Good
39	2888	4.270	56.99	14.00	0.3407	Good
40	2895	3.480	62.77	14.23	0.3108	Good
41	2896	7.100	61.08	11.79	0.5112	Good
42	2897	3.380	66.95	10.63	0.2407	Good
43	2898	4.040	65.68	10.29	0.2731	Good
44	2899	6.930	58.52	11.98	0.4858	Good
45	2900	6.360	61.86	12.12	0.4770	Good
46	2801	3.240	60.60	13.22	0.2595	Good
47	2802	4.080	63.45	11.57	0.2995	Good
48	2803	5.390	58.49	13.69	0.4317	Good
49	2804	3.980	61.47	13.81	0.3379	Good
50	2805	4.260	62.75	11.51	0.3076	Good
51	2806	4.400	53.56	12.86	0.3032	Good

52	2807	4.460	59.62	11.04	0.2935	Good
53	2820	4.180	64.72	11.71	0.3168	Good
54	2821	3.860	52.25	14.62	0.2949	Good
55	2822	4.150	60.33	10.99	0.2751	Good
56	2823	4.310	61.55	13.14	0.3487	Good
57	2824	4.150	62.42	12.67	0.3283	Good
58	2825	4.330	65.97	11.20	0.3200	Good
59	2826	3.960	63.90	13.60	0.3441	Good
60	2839	3.940	55.53	13.33	0.2916	Good
61	2840	7.220	55.87	12.14	0.4895	Good
62	2841	3.760	57.52	11.86	0.2564	Good
63	2842	3.390	58.92	13.44	0.2685	Good
64	2843	6.650	61.31	14.14	0.5766	Good
65	2844	4.000	60.03	12.41	0.2980	Good
66	2851	4.240	63.10	13.82	0.3697	Good
67	2852	4.250	65.27	13.16	0.3651	Good
68	2853	5.810	67.25	13.95	0.5450	Good
69	2854	2.760	59.58	12.86	0.2114	Good
70	2855	3.790	63.54	11.36	0.2736	Good
71	2856	4.400	62.48	13.46	0.3700	Good
72	2857	4.490	58.52	13.33	0.3502	Good
73	2865	4.080	64.30	13.53	0.3550	Good
74	2866	8.090	60.18	13.43	0.6537	Good
75	2867	3.930	66.23	13.18	0.3431	Good
76	2868	3.930	63.25	13.96	0.3470	Good
77	2869	3.960	65.33	9.28	0.2400	Good
78	2870	4.070	59.93	10.88	0.2654	Good
79	2876	3.850	56.40	14.86	0.3226	Good
80	2877	4.020	62.27	12.70	0.3180	Good
81	2878	4.120	57.89	13.39	0.3193	Good
82	2879	3.530	61.78	13.34	0.2909	Good
83	2880	4.270	59.52	12.67	0.3220	Good
84	2881	4.030	65.09	13.10	0.3438	Good
85	2889	4.070	59.05	11.43	0.2747	Good
86	2890	4.080	55.78	10.61	0.2415	Good
87	2891	4.170	67.39	12.73	0.3578	Good
88	2892	4.190	60.20	12.79	0.3226	Good
89	2893	6.930	62.84	10.77	0.4692	Good
90	2894	7.000	51.70	11.57	0.4186	Good
91	2808	4.270	60.43	10.52	0.2716	Good

92	2809	4.220	51.57	14.27	0.3106	Good
93	2810	6.540	63.27	9.89	0.4094	Good
94	2811	4.160	56.97	11.74	0.2783	Good
95	2812	4.300	57.94	10.96	0.2731	Good
96	2827	3.980	57.58	12.61	0.2889	Good
97	2828	4.190	64.59	11.69	0.3163	Good
98	2829	4.080	55.03	14.03	0.3150	Good
99	2830	3.920	49.70	14.00	0.2728	Good
100	2831	7.120	54.45	11.37	0.4407	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 36/357**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3520	4.190	64.47	10.47	0.2828	Good
2	3521	4.100	55.78	12.96	0.2964	Good
3	3522	4.180	64.59	13.75	0.3712	Good
4	3523	3.490	58.38	12.37	0.2520	Good
5	3524	3.900	64.44	11.31	0.2843	Good
6	3525	3.760	61.37	12.86	0.2967	Good
7	3526	4.060	58.33	11.33	0.2684	Good
8	3539	3.930	52.91	11.28	0.2346	Good
9	3540	4.250	63.60	11.95	0.3230	Good
10	3541	3.490	65.23	13.21	0.3008	Good
11	3542	3.980	58.45	14.46	0.3363	Good
12	3543	3.830	55.84	13.84	0.2961	Good
13	3544	3.960	55.55	15.64	0.3441	Good
14	3545	3.690	58.77	11.83	0.2565	Good
15	3553	3.180	59.07	13.68	0.2569	Good
16	3554	3.890	56.04	13.13	0.2863	Good
17	3555	4.000	58.78	13.76	0.3236	Good
18	3556	7.590	57.29	15.53	0.6755	Good
19	3557	4.100	68.09	9.91	0.2768	Good
20	3558	6.570	56.90	15.41	0.5762	Good
21	3593	3.430	62.17	11.84	0.2524	Good
22	3594	3.980	59.69	11.89	0.2826	Good
23	3595	3.420	54.92	15.29	0.2873	Good
24	3596	4.190	66.37	11.74	0.3264	Good
25	3597	3.470	61.99	11.97	0.2575	Good
26	3598	6.520	64.28	12.59	0.5275	Good
27	3599	3.300	57.83	11.69	0.2231	Good
28	3600	3.780	59.39	12.12	0.2722	Good

29	3508	3.360	60.77	11.30	0.2308	Good
30	3509	3.980	61.30	12.66	0.3088	Good
31	3510	2.450	54.91	11.86	0.1595	Good
32	3511	3.450	61.22	11.24	0.2374	Good
33	3512	4.180	66.51	11.62	0.3231	Good
34	3513	3.880	60.05	11.97	0.2790	Good
35	3514	4.010	62.79	10.93	0.2751	Good
36	3575	3.550	59.33	12.24	0.2577	Good
37	3576	4.040	63.69	13.69	0.3523	Good
38	3577	4.270	60.73	12.58	0.3262	Good
39	3578	4.190	65.86	14.11	0.3893	Good
40	3579	4.060	59.45	11.24	0.2712	Good
41	3580	4.420	64.31	14.85	0.4221	Good
42	3581	3.910	63.76	13.24	0.3300	Good
43	3582	4.030	63.56	11.44	0.2930	Good
44	3583	3.920	58.32	13.63	0.3116	Good
45	3584	4.200	61.99	12.13	0.3158	Good
46	3527	4.110	65.56	10.65	0.2869	Good
47	3528	3.340	59.30	12.01	0.2378	Good
48	3529	3.440	60.62	10.74	0.2239	Good
49	3530	4.080	63.21	10.79	0.2783	Good
50	3531	4.100	64.63	11.57	0.3067	Good
51	3532	3.090	57.38	12.55	0.2225	Good
52	3533	3.800	58.86	12.96	0.2899	Good
53	3546	3.880	58.82	12.31	0.2809	Good
54	3547	2.880	61.08	11.76	0.2068	Good
55	3548	3.450	58.74	12.41	0.2515	Good
56	3549	3.620	56.22	13.52	0.2751	Good
57	3550	3.780	62.81	11.18	0.2654	Good
58	3551	3.720	61.99	12.55	0.2894	Good
59	3552	4.100	64.51	9.13	0.2415	Good
60	3559	2.690	53.08	13.56	0.1937	Good
61	3560	3.300	60.45	5.61	0.1119	Inferior
62	3561	3.730	64.19	5.34	0.1279	Inferior
63	3562	4.010	63.31	14.37	0.3649	Good
64	3563	3.890	62.51	16.29	0.3960	Good
65	3564	3.900	67.22	13.42	0.3518	Good
66	3585	3.890	57.15	11.76	0.2614	Good
67	3586	4.020	55.82	15.76	0.3538	Good
68	3587	4.110	60.74	9.29	0.2318	Good

69	3588	3.270	62.43	9.43	0.1926	Good
70	3589	4.520	60.86	10.75	0.2956	Good
71	3590	3.110	66.18	9.66	0.1987	Good
72	3591	3.890	58.67	14.68	0.3349	Good
73	3592	4.000	61.62	16.07	0.3960	Good
74	3501	7.000	56.21	14.21	0.5593	Good
75	3502	3.450	60.13	16.20	0.3360	Good
76	3503	3.280	62.13	11.89	0.2424	Good
77	3504	4.360	59.94	8.38	0.2189	Inferior
78	3505	7.230	60.91	15.51	0.6832	Good
79	3506	4.180	56.31	10.82	0.2546	Good
80	3507	3.640	58.93	13.91	0.2985	Good
81	3565	4.060	62.88	14.12	0.3605	Good
82	3566	4.130	64.90	12.96	0.3473	Good
83	3567	4.320	64.64	14.51	0.4052	Good
84	3568	3.800	63.76	10.37	0.2512	Good
85	3569	4.360	65.04	14.42	0.4090	Good
86	3570	3.960	55.26	12.54	0.2744	Good
87	3571	3.990	62.59	15.27	0.3814	Good
88	3572	3.880	61.79	16.44	0.3942	Good
89	3573	4.040	63.17	14.96	0.3818	Good
90	3574	3.040	70.51	10.01	0.2146	Good
91	3515	3.690	61.11	9.74	0.2196	Good
92	3516	3.550	53.81	8.34	0.1594	Inferior
93	3517	4.060	63.79	6.60	0.1709	Inferior
94	3518	4.000	61.30	2.38	0.0584	Inferior
95	3519	3.850	69.00	10.33	0.2745	Good
96	3534	3.690	57.06	11.79	0.2483	Good
97	3535	4.010	55.30	10.98	0.2434	Good
98	3536	3.190	64.23	12.94	0.2651	Good
99	3537	3.980	65.02	12.63	0.3268	Good
100	3538	4.110	53.21	5.43	0.1188	Inferior

DATE: 15.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।





**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 13/144**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1206	4.320	52.55	11.82	0.2683	Good
2	1207	4.060	49.76	12.54	0.2533	Good
3	1208	4.290	55.21	8.44	0.1999	Inferior
4	1209	7.240	52.50	12.69	0.4822	Good
5	1210	7.040	50.26	11.86	0.4196	Good
6	1211	4.210	54.34	14.89	0.3406	Good
7	1212	3.990	52.97	11.04	0.2334	Good
8	1226	4.180	57.83	15.32	0.3703	Good
9	1227	4.130	57.36	15.46	0.3663	Good
10	1228	8.410	53.25	14.46	0.6476	Good
11	1229	8.630	56.48	16.18	0.7888	Good
12	1230	3.780	52.42	14.50	0.2873	Good
13	1231	4.090	54.44	13.54	0.3014	Good
14	1232	6.980	65.29	12.45	0.5675	Good
15	1239	3.980	64.53	12.46	0.3200	Good
16	1240	4.080	54.84	12.02	0.2689	Good
17	1241	3.150	58.34	9.14	0.1679	Good
18	1242	4.150	62.17	11.79	0.3042	Good
19	1243	3.810	62.55	10.84	0.2583	Good
20	1244	4.010	61.11	14.19	0.3477	Good
21	1245	4.030	58.09	11.41	0.2672	Good
22	1246	3.870	56.44	11.78	0.2574	Good
23	1247	4.450	59.44	12.01	0.3177	Good
24	1248	6.670	60.86	11.32	0.4596	Good
25	1257	3.700	56.67	10.85	0.2276	Good
26	1258	2.990	57.59	13.72	0.2362	Good
27	1259	7.860	66.50	11.91	0.6225	Good
28	1260	3.090	59.02	13.22	0.2410	Good
29	1261	3.930	63.15	9.69	0.2405	Good
30	1262	2.940	57.31	15.86	0.2672	Good
31	1270	3.750	55.80	13.23	0.2768	Good
32	1271	4.030	56.44	12.37	0.2813	Good
33	1272	3.910	58.28	13.38	0.3050	Good
34	1273	3.620	57.64	12.16	0.2538	Good

35	1274	4.150	59.75	8.10	0.2009	Inferior
36	1275	7.060	58.44	7.22	0.2979	Inferior
37	1276	3.890	59.48	15.03	0.3478	Good
38	1277	7.090	57.82	10.19	0.4176	Good
39	1287	3.880	55.66	13.30	0.2871	Good
40	1288	3.560	58.33	11.43	0.2375	Good
41	1289	4.380	53.27	10.87	0.2536	Good
42	1290	4.140	56.81	10.10	0.2376	Good
43	1291	4.130	51.76	10.94	0.2338	Good
44	1292	6.670	53.70	6.67	0.2388	Inferior
45	1293	6.400	54.96	11.17	0.3930	Good
46	1213	4.310	53.77	8.59	0.1991	Inferior
47	1214	1.450	55.28	9.26	0.0742	Good
48	1215	1.390	58.85	15.16	0.1240	Good
49	1216	4.050	56.48	7.68	0.1758	Inferior
50	1217	4.130	54.52	11.10	0.2499	Good
51	1218	3.940	54.84	7.42	0.1604	Inferior
52	1219	4.070	53.45	14.29	0.3109	Good
53	1220	3.220	52.00	10.79	0.1806	Good
54	1233	6.940	57.79	14.00	0.5614	Good
55	1234	4.160	59.26	11.53	0.2841	Good
56	1235	3.480	58.01	15.51	0.3132	Good
57	1236	3.680	55.98	13.58	0.2797	Good
58	1237	3.990	57.17	11.21	0.2558	Good
59	1238	6.420	61.78	10.25	0.4064	Good
60	1249	4.000	56.42	10.97	0.2476	Good
61	1250	3.990	55.76	13.61	0.3028	Good
62	1251	8.400	57.32	11.15	0.5368	Good
63	1252	6.260	58.94	13.01	0.4801	Good
64	1253	3.880	58.36	11.39	0.2580	Good
65	1254	3.960	57.06	9.27	0.2095	Good
66	1255	6.900	61.27	9.12	0.3857	Good
67	1256	4.190	55.32	14.71	0.3411	Good
68	1263	4.170	62.50	10.34	0.2694	Good
69	1264	4.310	58.69	10.50	0.2655	Good
70	1265	3.910	57.94	10.77	0.2440	Good
71	1266	3.670	58.70	11.72	0.2525	Good
72	1267	3.470	58.67	10.09	0.2054	Good
73	1268	4.060	58.69	11.43	0.2724	Good
74	1269	3.940	61.15	10.09	0.2431	Good

75	1278	6.940	60.29	10.18	0.4261	Good
76	1279	6.830	57.10	8.97	0.3497	Inferior
77	1280	3.680	59.62	10.60	0.2326	Good
78	1281	3.750	56.87	7.98	0.1703	Inferior
79	1282	5.690	59.77	15.24	0.5184	Good
80	1283	3.810	58.95	8.09	0.1817	Inferior
81	1284	3.720	55.38	9.95	0.2050	Good
82	1285	4.100	56.71	9.52	0.2214	Good
83	1286	6.790	57.64	11.71	0.4583	Good
84	1294	4.030	53.22	13.23	0.2837	Good
85	1295	3.660	55.83	10.78	0.2203	Good
86	1296	3.700	54.28	10.30	0.2068	Good
87	1297	3.930	55.40	9.46	0.2059	Good
88	1298	3.950	58.52	10.63	0.2457	Good
89	1299	3.930	62.52	8.09	0.1989	Inferior
90	1300	4.010	55.25	10.32	0.2286	Good
91	1221	3.040	54.47	10.45	0.1730	Good
92	1222	4.400	57.81	10.66	0.2710	Good
93	1223	6.770	58.84	8.11	0.3229	Inferior
94	1224	4.290	58.87	10.58	0.2673	Good
95	1225	4.010	57.71	10.26	0.2374	Good
96	1201	4.110	56.44	11.85	0.2750	Good
97	1202	7.060	56.90	7.68	0.3085	Inferior
98	1203	4.150	55.79	9.12	0.2112	Good
99	1204	4.200	55.67	9.36	0.2188	Good
100	1205	4.220	51.79	11.84	0.2587	Good

DATE: 14.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 15/179**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1413	6.710	54.63	9.46	0.3469	Good
2	1414	2.880	64.98	9.10	0.1702	Good
3	1415	2.440	59.66	13.95	0.2030	Good
4	1416	3.270	59.82	10.01	0.1959	Good
5	1417	3.660	53.22	7.84	0.1526	Inferior
6	1418	4.040	66.21	7.37	0.1972	Inferior
7	1425	3.060	57.33	12.07	0.2118	Good
8	1426	2.020	68.22	11.20	0.1543	Good
9	1427	3.800	70.80	13.55	0.3644	Good
10	1428	3.910	59.80	10.92	0.2553	Good
11	1429	3.850	64.05	14.24	0.3511	Good
12	1430	3.740	56.83	14.24	0.3026	Good
13	1431	2.480	53.27	11.49	0.1518	Good
14	1439	5.940	64.90	15.10	0.5821	Good
15	1440	3.630	53.74	12.08	0.2356	Good
16	1441	3.280	51.94	9.72	0.1656	Good
17	1442	4.160	66.07	13.09	0.3598	Good
18	1443	3.510	69.60	16.15	0.3945	Good
19	1444	6.370	58.07	12.71	0.4701	Good
20	1451	7.540	56.46	13.51	0.5753	Good
21	1452	5.370	60.55	12.58	0.4092	Good
22	1453	5.880	51.57	9.91	0.3005	Good
23	1454	3.020	59.15	13.56	0.2422	Good
24	1455	3.330	56.59	12.19	0.2298	Good
25	1456	3.530	62.71	14.37	0.3181	Good
26	1463	4.140	58.59	9.64	0.2339	Good
27	1464	3.810	58.82	13.24	0.2968	Good
28	1465	3.410	57.82	14.65	0.2888	Good
29	1466	3.260	56.03	13.56	0.2478	Good
30	1467	3.390	57.61	12.22	0.2387	Good
31	1468	3.810	57.77	13.38	0.2945	Good
32	1479	6.350	60.09	13.28	0.5067	Good
33	1480	3.390	61.71	9.98	0.2088	Good
34	1481	6.740	60.61	11.33	0.4630	Good

35	1482	4.090	53.53	11.08	0.2425	Good
36	1483	3.920	54.94	10.34	0.2227	Good
37	1484	6.820	58.52	10.59	0.4228	Good
38	1485	3.340	59.62	12.68	0.2525	Good
39	1486	3.790	65.52	14.47	0.3593	Good
40	1401	3.220	57.45	10.83	0.2003	Good
41	1402	1.710	51.70	12.42	0.1098	Good
42	1403	3.260	55.99	10.02	0.1829	Good
43	1404	3.780	63.28	7.66	0.1833	Inferior
44	1405	4.180	58.79	9.58	0.2353	Good
45	1406	3.620	59.90	10.03	0.2176	Good
46	1419	4.020	61.19	8.01	0.1970	Inferior
47	1420	4.050	51.73	12.14	0.2543	Good
48	1421	3.210	61.52	10.06	0.1987	Good
49	1422	1.450	56.92	11.89	0.0982	Good
50	1423	3.880	54.67	14.93	0.3166	Good
51	1424	3.480	52.40	11.11	0.2025	Good
52	1432	4.090	55.42	10.48	0.2376	Good
53	1433	3.520	51.21	10.58	0.1908	Good
54	1434	6.240	56.43	11.24	0.3956	Good
55	1435	2.410	55.07	15.22	0.2020	Good
56	1436	1.050	54.16	13.61	0.0774	Good
57	1437	6.290	62.10	14.99	0.5856	Good
58	1438	1.690	54.61	12.01	0.1109	Good
59	1445	3.480	57.18	13.99	0.2784	Good
60	1446	3.400	59.67	13.96	0.2832	Good
61	1447	3.460	57.21	13.09	0.2592	Good
62	1448	5.750	57.99	14.86	0.4957	Good
63	1449	3.830	67.97	15.32	0.3987	Good
64	1450	3.990	64.71	14.14	0.3651	Good
65	1457	3.550	58.01	12.43	0.2560	Good
66	1458	3.770	58.97	16.06	0.3570	Good
67	1459	6.590	61.98	11.87	0.4850	Good
68	1460	3.840	63.32	13.38	0.3252	Good
69	1461	3.990	56.99	12.30	0.2797	Good
70	1462	6.560	64.10	12.18	0.5123	Good
71	1469	4.260	60.41	11.57	0.2978	Good
72	1470	3.340	56.17	10.45	0.1961	Good
73	1471	4.030	57.26	9.88	0.2281	Good
74	1472	3.360	63.22	12.99	0.2759	Good

75	1473	4.050	57.73	12.87	0.3009	Good
76	1492	3.070	63.24	13.80	0.2680	Good
77	1493	3.850	63.99	7.13	0.1756	Inferior
78	1494	3.640	60.38	12.04	0.2646	Good
79	1495	6.270	65.97	11.51	0.4759	Good
80	1496	3.450	58.97	12.87	0.2619	Good
81	1497	6.780	58.78	10.63	0.4238	Good
82	1498	6.430	60.24	13.43	0.5202	Good
83	1499	3.450	60.57	12.63	0.2639	Good
84	1500	3.600	56.82	7.92	0.1620	Inferior
85	1407	6.660	58.54	10.86	0.4236	Good
86	1408	1.500	65.35	12.85	0.1260	Good
87	1409	4.110	65.48	8.37	0.2252	Inferior
88	1410	3.060	65.24	10.87	0.2170	Good
89	1411	4.030	65.66	13.34	0.3530	Good
90	1412	3.680	68.36	12.99	0.3268	Good
91	1474	3.490	73.64	13.31	0.3420	Good
92	1475	3.860	70.51	11.97	0.3258	Good
93	1476	3.710	54.07	11.63	0.2334	Good
94	1477	4.050	63.73	12.00	0.3098	Good
95	1478	3.740	61.09	13.42	0.3067	Good
96	1487	3.900	54.99	10.00	0.2145	Good
97	1488	2.350	63.98	9.57	0.1438	Good
98	1489	3.720	71.44	13.70	0.3642	Good
99	1490	6.210	60.21	9.17	0.3428	Good
100	1491	3.900	67.32	11.36	0.2984	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 44/423**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4395	3.980	59.12	13.13	0.3088	Good
2	4396	4.050	57.12	12.76	0.2952	Good
3	4397	4.000	61.85	11.71	0.2896	Good
4	4398	4.310	63.27	14.43	0.3935	Good
5	4399	4.050	56.55	9.94	0.2276	Good
6	4400	4.050	60.28	10.20	0.2491	Good
7	4307	3.830	61.61	11.00	0.2597	Good
8	4308	4.190	61.88	14.53	0.3767	Good
9	4309	3.790	65.93	12.18	0.3043	Good
10	4310	4.120	60.95	11.42	0.2868	Good
11	4311	4.080	57.10	14.26	0.3321	Good

12	4312	3.390	54.68	13.09	0.2427	Good
13	4325	4.220	63.32	11.88	0.3173	Good
14	4326	4.170	55.33	14.60	0.3369	Good
15	4327	3.180	56.75	11.91	0.2150	Good
16	4328	4.280	61.52	13.23	0.3484	Good
17	4329	3.830	61.19	9.23	0.2164	Good
18	4330	3.980	64.83	14.01	0.3614	Good
19	4331	4.210	57.10	14.03	0.3372	Good
20	4343	3.680	61.88	10.37	0.2363	Good
21	4344	3.730	60.65	14.69	0.3323	Good
22	4345	2.440	55.09	16.19	0.2176	Good
23	4346	4.040	61.86	10.91	0.2727	Good
24	4347	3.950	60.31	12.25	0.2919	Good
25	4348	4.080	54.34	9.72	0.2154	Good
26	4356	4.010	59.80	13.11	0.3144	Good
27	4357	3.650	52.73	16.35	0.3146	Good
28	4358	3.410	57.03	11.91	0.2315	Good
29	4359	4.030	58.54	13.05	0.3079	Good
30	4360	3.250	55.85	15.60	0.2831	Good
31	4361	4.120	52.67	15.00	0.3255	Good
32	4362	4.220	59.73	12.49	0.3148	Good
33	4370	3.920	56.21	15.28	0.3367	Good
34	4371	3.190	61.20	12.66	0.2472	Good
35	4372	3.530	61.82	11.58	0.2527	Good
36	4373	3.830	56.18	16.25	0.3497	Good
37	4374	3.880	53.42	13.63	0.2825	Good
38	4375	4.270	56.51	12.32	0.2972	Good
39	4376	4.110	61.24	11.64	0.2930	Good
40	4383	1.360	56.03	14.05	0.1070	Good
41	4384	3.510	55.78	15.17	0.2969	Good
42	4385	4.010	55.24	15.12	0.3348	Good
43	4386	3.540	53.32	13.78	0.2602	Good
44	4387	3.940	64.63	10.57	0.2691	Good
45	4388	3.600	61.53	11.77	0.2606	Good
46	4389	1.490	61.07	15.20	0.1383	Good
47	4390	4.070	59.20	11.77	0.2837	Good
48	4391	3.170	68.09	8.49	0.1832	Inferior
49	4392	4.070	59.56	14.37	0.3484	Good
50	4393	4.130	58.94	12.69	0.3089	Good
51	4394	6.830	57.40	13.31	0.5218	Good

52	4301	2.250	49.49	14.63	0.1629	Good
53	4302	6.470	58.21	12.23	0.4607	Good
54	4303	3.890	66.63	10.66	0.2762	Good
55	4304	4.070	64.90	13.36	0.3529	Good
56	4305	3.970	58.14	12.88	0.2974	Good
57	4306	4.140	60.96	11.34	0.2861	Good
58	4318	4.180	69.39	10.04	0.2913	Good
59	4319	4.140	59.19	12.98	0.3180	Good
60	4320	6.410	60.48	13.10	0.5077	Good
61	4321	3.200	59.42	10.48	0.1994	Good
62	4322	4.390	60.17	12.96	0.3424	Good
63	4323	6.570	55.82	15.35	0.5630	Good
64	4324	4.130	56.02	11.32	0.2618	Good
65	4337	4.060	60.72	10.49	0.2586	Good
66	4338	3.990	61.69	12.40	0.3052	Good
67	4339	3.710	68.71	10.51	0.2679	Good
68	4340	2.490	55.83	14.35	0.1994	Good
69	4341	3.950	55.52	11.71	0.2568	Good
70	4342	4.210	56.06	14.07	0.3322	Good
71	4349	3.880	58.11	12.05	0.2716	Good
72	4350	4.020	61.82	14.75	0.3666	Good
73	4351	4.240	56.38	14.72	0.3519	Good
74	4352	4.140	64.30	9.27	0.2467	Good
75	4353	2.830	52.14	11.68	0.1723	Good
76	4354	4.020	71.98	13.21	0.3823	Good
77	4355	3.470	65.77	14.66	0.3345	Good
78	4363	3.770	63.34	11.79	0.2816	Good
79	4364	4.140	66.20	13.84	0.3792	Good
80	4365	6.280	65.77	13.38	0.5526	Good
81	4366	3.910	57.32	13.47	0.3019	Good
82	4367	3.890	60.14	13.93	0.3260	Good
83	4368	4.240	63.35	13.83	0.3714	Good
84	4369	3.300	60.39	12.34	0.2459	Good
85	4377	3.940	61.89	11.57	0.2821	Good
86	4378	2.240	57.84	11.03	0.1429	Good
87	4379	3.550	52.53	12.49	0.2329	Good
88	4380	3.670	60.53	11.05	0.2455	Good
89	4381	4.090	58.60	13.19	0.3162	Good
90	4382	3.460	69.14	7.06	0.1688	Inferior
91	4313	3.170	58.14	12.14	0.2238	Good



92	4314	3.980	58.15	12.64	0.2925	Good
93	4315	3.760	56.79	13.45	0.2873	Good
94	4316	3.990	55.26	10.48	0.2310	Good
95	4317	3.260	57.65	12.33	0.2318	Good
96	4332	1.190	49.72	15.73	0.0931	Good
97	4333	3.550	65.46	11.63	0.2702	Good
98	4334	4.380	56.06	13.41	0.3294	Good
99	4335	3.490	55.32	13.61	0.2628	Good
100	4336	2.840	58.77	13.10	0.2187	Good

DATE: 11.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 03/71**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	273	3.370	62.48	11.04	0.2325	Good
2	274	3.580	55.02	11.14	0.2195	Good
3	275	4.370	63.83	11.14	0.3107	Good
4	276	3.980	69.89	9.74	0.2710	Good
5	277	4.060	61.20	11.63	0.2891	Good
6	278	8.350	65.75	10.94	0.6004	Good
7	279	4.220	54.11	12.66	0.2891	Good
8	287	4.180	54.75	10.17	0.2328	Good
9	288	1.510	51.37	14.07	0.1092	Good
10	289	3.660	54.38	12.04	0.2397	Good
11	290	2.760	53.31	11.40	0.1678	Good
12	291	6.870	57.81	13.77	0.5469	Good
13	292	3.660	59.27	15.72	0.3411	Good
14	293	4.010	60.08	10.90	0.2627	Good
15	201	4.080	63.29	12.70	0.3280	Good
16	202	4.100	61.17	11.80	0.2960	Good
17	203	6.680	69.40	13.83	0.6413	Good
18	204	8.000	54.01	12.55	0.5424	Good
19	205	4.240	53.16	12.89	0.2904	Good
20	206	8.230	62.33	15.90	0.8156	Good
21	207	4.300	61.86	16.10	0.4283	Good
22	215	6.660	64.42	13.32	0.5714	Good
23	216	4.360	62.43	14.74	0.4011	Good
24	217	4.110	58.43	15.18	0.3646	Good
25	218	3.850	58.39	15.45	0.3473	Good
26	219	3.890	60.79	12.06	0.2851	Good
27	220	3.740	67.14	14.97	0.3759	Good
28	221	3.910	57.49	13.45	0.3022	Good
29	234	6.540	66.17	14.63	0.6331	Good
30	235	6.400	57.44	9.12	0.3354	Good
31	236	3.430	61.26	11.95	0.2511	Good
32	237	3.210	56.19	13.79	0.2488	Good
33	238	3.440	54.96	11.55	0.2184	Good
34	239	3.190	50.13	10.39	0.1662	Good

35	240	7.070	50.39	9.84	0.3507	Good
36	248	4.190	65.22	13.94	0.3809	Good
37	249	4.000	59.53	10.11	0.2408	Good
38	250	6.490	56.88	9.09	0.3355	Good
39	251	3.690	61.60	10.57	0.2402	Good
40	252	6.610	57.45	11.47	0.4356	Good
41	263	7.870	62.00	13.82	0.6745	Good
42	264	6.180	57.41	9.93	0.3523	Good
43	265	4.190	66.03	12.84	0.3553	Good
44	266	3.330	53.76	9.54	0.1708	Good
45	267	3.970	49.72	7.92	0.1564	Inferior
46	280	7.040	53.43	10.74	0.4041	Good
47	281	6.850	51.87	8.91	0.3165	Inferior
48	282	4.380	50.28	14.76	0.3250	Good
49	283	4.140	55.42	10.54	0.2418	Good
50	284	3.450	53.27	13.37	0.2456	Good
51	285	6.880	59.77	12.75	0.5243	Good
52	286	4.220	66.67	14.74	0.4148	Good
53	294	4.130	57.48	13.71	0.3254	Good
54	295	1.670	52.86	11.28	0.0995	Good
55	296	3.190	57.46	12.83	0.2351	Good
56	297	4.090	60.87	11.93	0.2969	Good
57	298	4.390	53.73	10.12	0.2388	Good
58	299	4.050	59.07	10.77	0.2576	Good
59	300	3.770	51.25	10.01	0.1934	Good
60	208	6.770	60.99	14.36	0.5931	Good
61	209	6.440	57.46	16.39	0.6066	Good
62	210	6.560	64.32	12.69	0.5353	Good
63	211	4.280	62.03	16.11	0.4276	Good
64	212	4.190	64.02	13.11	0.3515	Good
65	213	7.290	56.79	16.43	0.6802	Good
66	214	8.230	66.08	13.82	0.7514	Good
67	222	3.690	60.33	12.75	0.2838	Good
68	223	3.330	53.39	11.48	0.2041	Good
69	224	3.820	57.56	11.50	0.2529	Good
70	225	4.140	68.38	14.58	0.4128	Good
71	226	3.540	47.89	11.51	0.1951	Good
72	227	3.530	65.02	14.12	0.3241	Good
73	228	3.410	57.45	15.18	0.2974	Good
74	241	6.980	56.79	14.21	0.5633	Good

75	242	3.220	53.31	12.85	0.2206	Good
76	243	4.250	52.71	10.55	0.2363	Good
77	244	6.920	59.19	16.57	0.6789	Good
78	245	3.670	60.79	12.47	0.2782	Good
79	246	6.550	55.70	10.79	0.3937	Good
80	247	3.370	55.39	13.23	0.2470	Good
81	253	3.420	64.37	12.51	0.2753	Good
82	254	6.530	61.95	11.23	0.4545	Good
83	255	4.040	63.39	10.62	0.2719	Good
84	256	6.370	57.83	12.74	0.4695	Good
85	257	7.430	63.83	10.89	0.5164	Good
86	268	4.070	61.16	11.28	0.2808	Good
87	269	2.860	59.90	14.99	0.2568	Good
88	270	5.250	59.31	11.04	0.3439	Good
89	271	8.500	59.39	9.72	0.4905	Good
90	272	3.470	52.36	8.35	0.1516	Inferior
91	229	3.530	51.44	9.45	0.1716	Good
92	230	3.880	65.05	14.34	0.3620	Good
93	231	6.870	62.51	12.99	0.5578	Good
94	232	3.130	57.49	9.53	0.1715	Good
95	233	3.850	59.28	15.91	0.3631	Good
96	258	6.680	65.48	13.61	0.5952	Good
97	259	3.660	54.10	11.77	0.2331	Good
98	260	6.460	60.69	11.35	0.4451	Good
99	261	4.080	57.53	16.41	0.3852	Good
100	262	8.450	74.49	12.55	0.7901	Good

DATE: 07.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 06/74**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	513	3.470	57.50	14.09	0.2811	Good
2	514	3.610	52.65	12.29	0.2336	Good
3	515	3.790	67.91	13.71	0.3528	Good
4	516	6.890	51.74	9.70	0.3459	Good
5	517	6.450	54.35	12.47	0.4373	Good
6	518	6.720	54.83	10.85	0.3998	Good
7	530	3.760	62.63	14.61	0.3440	Good
8	531	4.090	52.97	9.08	0.1967	Good
9	532	4.030	61.81	13.31	0.3317	Good
10	533	3.460	53.41	7.25	0.1339	Inferior
11	534	8.030	57.40	9.62	0.4433	Good
12	535	8.310	56.11	10.41	0.4853	Good
13	547	4.230	58.74	11.61	0.2885	Good
14	548	5.450	59.64	12.17	0.3957	Good
15	549	4.160	72.57	14.59	0.4405	Good
16	550	6.660	52.95	9.50	0.3350	Good
17	551	4.100	53.57	13.52	0.2968	Good
18	552	6.560	62.21	12.38	0.5051	Good
19	553	3.850	50.40	10.71	0.2079	Good
20	561	3.920	67.05	12.71	0.3340	Good
21	562	7.110	63.61	12.29	0.5560	Good
22	563	4.140	62.23	7.83	0.2016	Inferior
23	564	6.940	61.85	11.27	0.4837	Good
24	565	3.960	55.68	11.17	0.2463	Good
25	566	4.230	60.06	15.32	0.3892	Good
26	573	3.170	58.08	10.33	0.1902	Good
27	574	6.580	56.74	11.26	0.4205	Good
28	575	3.800	61.61	16.10	0.3770	Good
29	576	4.200	65.88	13.21	0.3654	Good
30	577	4.090	59.23	12.61	0.3055	Good
31	578	3.890	59.00	11.71	0.2688	Good
32	579	4.530	54.82	7.55	0.1875	Inferior
33	587	4.090	57.94	10.44	0.2474	Good
34	588	3.770	52.51	12.21	0.2417	Good

35	589	3.500	59.49	10.77	0.2244	Good
36	590	4.040	57.11	10.66	0.2460	Good
37	591	4.200	53.38	9.18	0.2058	Good
38	592	4.180	57.57	12.18	0.2930	Good
39	593	3.510	64.36	12.48	0.2819	Good
40	501	6.620	62.54	13.11	0.5428	Good
41	502	6.950	59.39	11.45	0.4726	Good
42	503	6.200	58.07	15.46	0.5568	Good
43	504	4.180	58.05	12.33	0.2993	Good
44	505	6.280	62.22	14.38	0.5621	Good
45	506	3.980	58.52	11.93	0.2778	Good
46	519	6.590	55.58	13.28	0.4863	Good
47	520	3.650	50.90	11.32	0.2102	Good
48	521	3.310	56.79	10.62	0.1996	Good
49	522	3.900	64.27	13.68	0.3428	Good
50	523	4.070	57.71	13.62	0.3199	Good
51	524	3.770	50.40	7.94	0.1508	Inferior
52	536	3.890	67.02	12.56	0.3275	Good
53	537	6.630	55.21	11.59	0.4243	Good
54	538	6.690	57.46	12.13	0.4663	Good
55	539	6.300	54.24	9.03	0.3087	Good
56	540	6.790	58.68	13.79	0.5493	Good
57	541	4.080	65.11	14.85	0.3945	Good
58	554	6.990	65.68	14.33	0.6578	Good
59	555	4.130	68.38	12.69	0.3585	Good
60	556	3.650	66.83	16.92	0.4128	Good
61	557	6.900	71.26	13.29	0.6534	Good
62	558	4.070	60.06	15.32	0.3744	Good
63	559	7.060	57.73	13.29	0.5415	Good
64	560	4.070	62.99	11.35	0.2910	Good
65	567	4.640	70.51	10.25	0.3355	Good
66	568	4.230	56.75	10.43	0.2504	Good
67	569	4.090	61.76	11.33	0.2863	Good
68	570	3.870	52.23	10.57	0.2136	Good
69	571	4.100	60.57	10.75	0.2669	Good
70	572	4.030	64.80	14.09	0.3679	Good
71	580	4.360	54.64	8.44	0.2010	Inferior
72	581	3.930	64.50	14.20	0.3600	Good
73	582	8.330	61.54	15.37	0.7880	Good
74	583	4.050	57.53	10.43	0.2430	Good

75	584	4.070	62.04	14.99	0.3785	Good
76	585	4.010	54.96	10.08	0.2222	Good
77	586	4.270	63.08	12.75	0.3433	Good
78	594	4.100	61.66	13.01	0.3288	Good
79	595	4.080	57.35	11.14	0.2607	Good
80	596	3.800	59.47	13.32	0.3010	Good
81	597	6.750	57.39	11.34	0.4394	Good
82	598	4.150	61.18	9.73	0.2469	Good
83	599	4.290	57.53	10.76	0.2656	Good
84	600	6.510	59.33	10.70	0.4134	Good
85	507	3.660	61.36	12.89	0.2895	Good
86	508	4.190	65.32	13.29	0.3637	Good
87	509	3.300	57.21	11.40	0.2152	Good
88	510	4.000	60.12	15.19	0.3652	Good
89	511	4.360	63.47	13.55	0.3750	Good
90	512	4.150	64.28	11.82	0.3154	Good
91	525	3.840	59.76	12.35	0.2834	Good
92	526	4.250	61.55	10.74	0.2809	Good
93	527	3.870	66.42	13.54	0.3479	Good
94	528	3.670	62.16	11.94	0.2723	Good
95	529	6.950	66.61	11.57	0.5358	Good
96	542	4.460	66.51	13.77	0.4085	Good
97	543	4.070	56.26	12.53	0.2869	Good
98	544	4.110	54.67	11.52	0.2589	Good
99	545	3.320	54.01	11.74	0.2105	Good
100	546	6.830	58.96	13.76	0.5539	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 49/482**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4813	3.360	61.67	13.72	0.2843	Good
2	4814	3.100	52.86	11.10	0.1820	Good
3	4815	3.620	55.69	12.62	0.2545	Good
4	4816	3.550	59.34	13.13	0.2765	Good
5	4817	3.930	54.85	12.20	0.2629	Good
6	4818	3.800	65.97	11.67	0.2926	Good
7	4801	3.300	59.11	13.35	0.2604	Good
8	4802	2.060	67.91	15.71	0.2198	Good
9	4803	3.390	64.43	14.19	0.3098	Good
10	4804	3.470	59.69	15.41	0.3192	Good
11	4805	3.350	66.18	13.90	0.3082	Good

12	4806	3.250	62.39	15.71	0.3185	Good
13	4819	3.610	61.24	10.99	0.2430	Good
14	4820	2.050	55.06	10.61	0.1197	Good
15	4821	3.270	51.54	8.48	0.1429	Inferior
16	4822	3.690	52.40	9.41	0.1819	Good
17	4823	3.430	59.03	11.13	0.2254	Good
18	4824	3.670	48.39	12.67	0.2250	Good
19	4825	3.420	50.55	9.81	0.1696	Good
20	4831	3.680	58.61	13.24	0.2856	Good
21	4832	3.350	53.50	16.62	0.2978	Good
22	4833	3.520	55.47	11.50	0.2246	Good
23	4834	3.570	58.78	11.26	0.2363	Good
24	4835	2.940	52.84	13.00	0.2020	Good
25	4836	3.480	60.76	11.78	0.2492	Good
26	4841	2.880	54.27	15.22	0.2379	Good
27	4842	3.300	54.70	10.24	0.1848	Good
28	4843	2.890	59.77	12.78	0.2208	Good
29	4844	3.480	58.82	12.00	0.2457	Good
30	4845	3.580	73.34	13.09	0.3437	Good
31	4846	3.960	70.55	13.49	0.3770	Good
32	4847	3.630	50.63	11.50	0.2113	Good
33	4837	3.130	53.87	11.19	0.1887	Good
34	4838	2.950	56.25	15.86	0.2631	Good
35	4839	2.630	55.86	9.88	0.1452	Good
36	4840	1.360	64.95	11.35	0.1002	Good
37	4826	3.430	57.06	11.46	0.2243	Good
38	4827	3.270	54.70	11.68	0.2090	Good
39	4828	3.950	61.08	11.66	0.2812	Good
40	4829	3.340	54.38	12.54	0.2278	Good
41	4830	3.960	61.77	9.37	0.2293	Good
42	4807	3.400	63.57	12.27	0.2652	Good
43	4808	3.140	63.02	12.52	0.2477	Good
44	4809	2.420	61.33	13.21	0.1960	Good
45	4810	3.710	65.47	16.14	0.3921	Good
46	4811	3.850	58.31	12.93	0.2903	Good
47	4812	3.850	58.65	14.51	0.3276	Good

DATE: 06.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में



यद्धपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानो को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 05/73**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	420	3.860	57.00	11.65	0.2563	Good
2	421	1.910	56.20	11.07	0.1188	Good
3	422	3.920	68.43	9.86	0.2646	Good
4	423	6.110	63.13	11.60	0.4473	Good
5	424	4.000	65.83	11.68	0.3076	Good
6	425	3.970	72.82	12.85	0.3716	Good
7	426	3.610	61.53	11.25	0.2498	Good
8	434	6.240	59.97	11.06	0.4137	Good
9	435	3.150	61.66	13.35	0.2592	Good
10	436	6.970	60.53	11.65	0.4914	Good
11	437	4.200	76.41	14.20	0.4557	Good
12	438	3.670	65.66	15.60	0.3758	Good
13	439	6.700	60.29	12.19	0.4925	Good
14	440	4.360	64.85	9.87	0.2790	Good
15	448	4.020	53.01	7.90	0.1684	Inferior
16	449	3.840	55.44	9.92	0.2112	Good
17	450	3.520	67.26	12.15	0.2876	Good
18	451	3.140	61.92	11.42	0.2220	Good
19	452	6.950	65.35	11.81	0.5365	Good
20	453	4.290	69.27	13.67	0.4063	Good
21	460	4.370	62.25	11.90	0.3238	Good
22	461	4.190	60.83	11.21	0.2858	Good
23	462	4.120	70.98	11.36	0.3321	Good
24	463	7.170	61.64	11.16	0.4933	Good
25	464	6.830	60.05	13.99	0.5737	Good
26	465	7.130	66.26	12.38	0.5847	Good
27	477	3.930	63.27	14.08	0.3502	Good
28	478	7.050	65.60	11.77	0.5443	Good
29	479	3.220	64.04	11.93	0.2460	Good
30	480	3.790	56.68	10.66	0.2289	Good
31	481	4.140	61.36	11.77	0.2989	Good
32	401	3.930	65.98	13.60	0.3525	Good
33	402	3.990	68.98	13.63	0.3751	Good
34	403	3.820	67.71	11.98	0.3098	Good

35	404	6.970	75.36	13.08	0.6872	Good
36	405	4.060	75.29	13.02	0.3979	Good
37	406	3.870	68.76	15.24	0.4056	Good
38	407	3.360	69.41	12.09	0.2819	Good
39	487	3.420	59.64	12.74	0.2599	Good
40	488	3.780	56.49	11.81	0.2521	Good
41	489	3.330	60.24	15.11	0.3030	Good
42	490	3.760	65.25	9.16	0.2248	Good
43	491	3.340	68.04	14.01	0.3183	Good
44	492	6.460	72.75	12.56	0.5904	Good
45	493	4.080	68.12	13.70	0.3807	Good
46	427	6.700	62.97	10.26	0.4328	Good
47	428	6.660	60.66	11.18	0.4515	Good
48	429	3.840	59.97	11.01	0.2534	Good
49	430	3.900	59.63	11.45	0.2664	Good
50	431	6.660	60.29	10.75	0.4316	Good
51	432	6.570	56.28	11.23	0.4152	Good
52	433	4.270	60.48	11.18	0.2887	Good
53	441	6.810	64.69	9.18	0.4045	Good
54	442	4.120	59.55	10.23	0.2509	Good
55	443	4.010	68.87	13.24	0.3657	Good
56	444	8.800	71.74	12.09	0.7630	Good
57	445	3.380	60.55	13.15	0.2690	Good
58	446	3.950	61.46	11.68	0.2836	Good
59	447	4.050	63.21	11.52	0.2948	Good
60	454	3.950	74.73	12.70	0.3749	Good
61	455	3.480	64.20	11.67	0.2607	Good
62	456	4.290	60.73	10.59	0.2758	Good
63	457	7.130	62.96	11.99	0.5383	Good
64	458	4.150	56.01	10.98	0.2552	Good
65	459	6.240	65.16	11.88	0.4830	Good
66	466	4.340	66.73	11.27	0.3264	Good
67	467	6.920	68.55	10.62	0.5038	Good
68	468	6.440	62.53	12.01	0.4836	Good
69	469	3.990	65.30	11.75	0.3060	Good
70	470	3.050	54.82	9.34	0.1562	Good
71	471	6.070	59.10	10.93	0.3921	Good
72	482	4.010	58.00	13.64	0.3172	Good
73	483	3.440	63.12	13.31	0.2890	Good
74	484	6.020	56.83	14.83	0.5075	Good

75	485	7.060	61.91	13.13	0.5740	Good
76	486	3.550	59.65	13.96	0.2957	Good
77	408	3.750	59.74	11.48	0.2573	Good
78	409	3.940	66.14	12.40	0.3231	Good
79	410	3.790	58.60	11.45	0.2543	Good
80	411	3.730	63.76	12.92	0.3074	Good
81	412	3.880	70.89	15.94	0.4384	Good
82	413	2.550	53.81	11.84	0.1624	Good
83	414	3.330	69.75	11.38	0.2644	Good
84	494	6.460	61.04	11.29	0.4451	Good
85	495	6.310	64.60	13.75	0.5603	Good
86	496	4.180	58.26	11.04	0.2688	Good
87	497	3.990	68.49	16.50	0.4509	Good
88	498	3.790	58.89	10.95	0.2445	Good
89	499	6.680	60.14	13.00	0.5224	Good
90	500	3.930	68.07	12.78	0.3419	Good
91	472	3.970	59.75	8.22	0.1949	Inferior
92	473	4.080	67.76	13.43	0.3713	Good
93	474	4.090	60.49	13.64	0.3374	Good
94	475	7.090	75.74	14.07	0.7558	Good
95	476	6.690	63.89	11.07	0.4730	Good
96	415	3.830	57.93	16.05	0.3562	Good
97	416	3.930	74.64	13.24	0.3883	Good
98	417	4.100	71.34	11.13	0.3255	Good
99	418	4.000	68.89	11.87	0.3272	Good
100	419	6.200	56.12	16.39	0.5704	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 09/109**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	861	4.000	59.00	12.29	0.2900	Good
2	862	8.520	52.73	11.85	0.5325	Good
3	863	4.060	59.35	12.52	0.3017	Good
4	864	8.550	57.94	13.53	0.6703	Good
5	865	4.460	58.90	12.22	0.3211	Good
6	866	5.830	46.98	12.13	0.3323	Good
7	873	6.900	64.14	13.33	0.5900	Good
8	874	2.970	48.78	15.95	0.2311	Good
9	875	3.910	50.99	9.22	0.1838	Good
10	876	4.240	70.82	10.87	0.3265	Good
11	877	4.080	56.64	12.29	0.2840	Good

12	878	8.040	61.59	11.67	0.5781	Good
13	885	3.840	54.54	11.51	0.2412	Good
14	886	4.140	60.91	15.22	0.3838	Good
15	887	3.440	67.69	13.58	0.3161	Good
16	888	3.520	54.70	12.60	0.2425	Good
17	889	3.030	67.14	14.67	0.2985	Good
18	890	2.790	56.38	14.53	0.2285	Good
19	891	1.390	51.12	11.56	0.0821	Good
20	892	3.770	53.59	10.41	0.2104	Good
21	801	4.240	59.16	13.00	0.3261	Good
22	802	4.160	59.73	10.50	0.2608	Good
23	803	5.030	64.55	12.63	0.4099	Good
24	804	7.230	53.86	14.61	0.5690	Good
25	805	7.270	52.14	9.36	0.3548	Good
26	806	3.350	63.47	15.05	0.3199	Good
27	807	7.240	48.09	13.41	0.4670	Good
28	820	3.610	66.37	18.01	0.4314	Good
29	821	6.810	61.55	9.33	0.3909	Good
30	822	6.490	53.77	14.69	0.5127	Good
31	823	4.010	50.08	12.90	0.2590	Good
32	824	4.000	60.02	12.65	0.3036	Good
33	825	3.780	54.93	11.49	0.2385	Good
34	826	4.090	54.50	12.53	0.2793	Good
35	827	2.380	48.97	7.47	0.0871	Inferior
36	828	3.820	62.02	11.95	0.2831	Good
37	838	4.120	61.10	12.82	0.3226	Good
38	839	4.160	55.37	12.50	0.2879	Good
39	840	4.520	58.87	15.59	0.4149	Good
40	841	3.870	56.90	11.21	0.2469	Good
41	842	3.500	57.42	13.62	0.2737	Good
42	843	1.860	65.85	13.42	0.1644	Good
43	844	3.970	52.66	13.71	0.2866	Good
44	845	3.220	59.39	14.04	0.2685	Good
45	846	3.510	60.18	10.92	0.2306	Good
46	867	6.500	53.28	11.17	0.3868	Good
47	868	4.020	53.41	14.34	0.3079	Good
48	869	4.270	62.74	14.41	0.3860	Good
49	870	7.810	64.51	15.66	0.7888	Good
50	871	7.750	56.33	13.19	0.5758	Good
51	872	3.830	60.96	14.11	0.3294	Good

52	879	3.980	74.05	15.23	0.4489	Good
53	880	3.170	58.64	11.72	0.2178	Good
54	881	6.540	54.46	11.88	0.4231	Good
55	882	8.360	55.44	11.62	0.5384	Good
56	883	4.230	57.01	13.75	0.3316	Good
57	884	6.110	54.14	9.01	0.2982	Good
58	893	3.420	55.21	14.60	0.2757	Good
59	894	3.390	64.65	13.84	0.3034	Good
60	895	3.510	59.29	11.81	0.2457	Good
61	896	6.630	57.51	11.55	0.4402	Good
62	897	6.310	57.89	14.13	0.5162	Good
63	898	4.070	64.56	15.58	0.4094	Good
64	899	4.090	57.32	11.46	0.2687	Good
65	900	4.080	54.86	9.37	0.2097	Good
66	808	3.460	61.41	11.63	0.2470	Good
67	809	6.780	54.56	10.45	0.3865	Good
68	810	4.180	54.22	13.78	0.3122	Good
69	811	3.810	52.17	11.19	0.2225	Good
70	812	4.050	62.32	10.56	0.2665	Good
71	813	7.810	67.56	12.98	0.6849	Good
72	814	4.040	57.08	10.20	0.2351	Good
73	829	3.360	54.93	11.82	0.2181	Good
74	830	4.180	58.60	13.11	0.3210	Good
75	831	4.330	66.58	10.92	0.3148	Good
76	832	3.260	59.56	10.95	0.2126	Good
77	833	2.010	59.68	15.45	0.1853	Good
78	834	7.160	50.32	10.37	0.3738	Good
79	835	4.140	55.32	14.26	0.3266	Good
80	836	2.130	56.78	13.47	0.1629	Good
81	837	3.420	61.40	14.23	0.2989	Good
82	847	4.160	59.51	11.24	0.2783	Good
83	848	7.400	61.96	14.72	0.6749	Good
84	849	3.940	58.38	15.67	0.3605	Good
85	850	4.130	58.85	14.61	0.3552	Good
86	851	4.290	62.57	14.96	0.4015	Good
87	852	5.900	57.39	12.11	0.4101	Good
88	853	4.200	65.24	14.09	0.3860	Good
89	854	4.240	50.10	11.00	0.2336	Good
90	855	4.100	71.41	12.04	0.3526	Good
91	815	6.940	64.82	11.62	0.5226	Good

92	816	3.740	52.06	11.89	0.2315	Good
93	817	3.680	57.40	12.44	0.2628	Good
94	818	4.320	54.42	13.27	0.3119	Good
95	819	3.790	54.91	11.89	0.2475	Good
96	856	4.400	68.19	13.30	0.3991	Good
97	857	3.930	58.65	14.51	0.3344	Good
98	858	4.080	62.67	8.35	0.2134	Inferior
99	859	7.260	60.91	14.94	0.6607	Good
100	860	2.730	60.09	13.06	0.2143	Good

DATE: 05.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 07/107**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	621	3.360	60.34	13.27	0.2691	Good
2	622	6.910	60.92	11.52	0.4851	Good
3	623	6.690	64.02	12.67	0.5426	Good
4	624	3.990	63.51	12.44	0.3152	Good
5	625	4.520	56.97	15.36	0.3955	Good
6	626	3.980	59.55	13.95	0.3307	Good
7	627	7.790	58.92	12.61	0.5788	Good
8	635	3.570	65.60	11.23	0.2631	Good
9	636	3.420	59.60	11.49	0.2343	Good
10	637	3.950	59.93	13.40	0.3172	Good
11	638	4.060	61.92	12.16	0.3057	Good
12	639	4.600	63.49	14.66	0.4283	Good
13	640	3.620	66.01	10.95	0.2617	Good
14	641	4.070	63.61	13.63	0.3529	Good
15	653	6.970	64.46	11.50	0.5165	Good
16	654	4.370	62.11	10.76	0.2919	Good
17	655	7.320	57.69	16.74	0.7071	Good
18	656	7.180	61.11	14.51	0.6369	Good
19	657	4.220	68.13	14.05	0.4039	Good
20	658	3.990	63.03	14.95	0.3759	Good
21	665	3.350	62.24	10.89	0.2271	Good
22	666	3.350	64.61	12.82	0.2774	Good
23	667	4.110	64.31	12.83	0.3391	Good
24	668	3.320	65.76	11.16	0.2437	Good
25	669	3.860	65.82	11.33	0.2880	Good
26	670	4.050	61.46	10.12	0.2519	Good
27	677	3.320	60.65	12.38	0.2493	Good
28	678	7.120	63.46	11.69	0.5283	Good
29	679	7.560	64.08	13.94	0.6751	Good
30	680	3.960	66.89	14.31	0.3790	Good
31	681	4.220	63.27	14.18	0.3785	Good
32	601	8.100	57.99	13.97	0.6561	Good
33	602	4.160	60.32	13.88	0.3482	Good
34	603	7.330	65.36	11.74	0.5622	Good



35	604	7.120	61.90	13.62	0.6002	Good
36	605	3.970	61.48	13.32	0.3251	Good
37	606	4.580	66.12	13.78	0.4172	Good
38	607	4.010	60.95	11.96	0.2923	Good
39	687	4.240	63.99	10.28	0.2790	Good
40	688	7.040	65.56	12.19	0.5625	Good
41	689	6.500	60.35	13.74	0.5389	Good
42	690	2.200	61.68	13.96	0.1894	Good
43	691	3.730	57.97	14.49	0.3133	Good
44	692	3.910	66.31	6.36	0.1650	Inferior
45	693	3.940	65.75	12.43	0.3219	Good
46	628	6.750	60.97	16.60	0.6831	Good
47	629	6.590	61.03	13.19	0.5305	Good
48	630	4.170	66.72	7.27	0.2022	Inferior
49	631	6.970	55.93	16.18	0.6308	Good
50	632	3.540	63.47	14.98	0.3367	Good
51	633	4.350	61.31	16.75	0.4467	Good
52	634	4.110	64.69	12.34	0.3280	Good
53	642	4.110	65.44	14.84	0.3991	Good
54	643	7.270	61.12	14.63	0.6499	Good
55	644	3.400	60.07	10.75	0.2196	Good
56	645	4.650	54.05	15.87	0.3990	Good
57	646	4.300	54.17	11.32	0.2636	Good
58	647	3.530	59.38	10.56	0.2213	Good
59	648	4.160	61.89	12.36	0.3182	Good
60	659	3.810	57.05	11.62	0.2526	Good
61	660	3.940	62.27	16.73	0.4105	Good
62	661	3.900	59.28	15.84	0.3662	Good
63	662	7.150	65.29	12.38	0.5777	Good
64	663	6.830	68.76	12.58	0.5908	Good
65	664	4.410	63.43	15.48	0.4331	Good
66	671	3.350	55.69	12.71	0.2372	Good
67	672	4.110	57.77	11.84	0.2811	Good
68	673	6.860	53.92	11.16	0.4130	Good
69	674	3.200	57.85	14.87	0.2752	Good
70	675	3.970	61.51	13.25	0.3236	Good
71	676	4.140	57.95	16.00	0.3838	Good
72	682	4.090	61.07	14.33	0.3579	Good
73	683	4.270	62.69	13.86	0.3711	Good
74	684	3.380	59.31	15.80	0.3167	Good

75	685	7.020	66.06	14.94	0.6929	Good
76	686	3.910	58.28	14.65	0.3339	Good
77	608	6.940	62.27	13.59	0.5871	Good
78	609	4.040	64.62	14.27	0.3725	Good
79	610	4.280	62.28	13.21	0.3522	Good
80	611	6.740	58.72	12.62	0.4994	Good
81	612	3.270	66.16	15.66	0.3388	Good
82	613	3.940	59.33	14.16	0.3310	Good
83	614	6.470	57.78	13.05	0.4878	Good
84	694	5.320	47.42	13.52	0.3410	Good
85	695	7.080	62.97	13.40	0.5976	Good
86	696	1.240	67.81	11.10	0.0934	Good
87	697	3.640	61.57	16.10	0.3607	Good
88	698	6.760	61.30	11.91	0.4935	Good
89	699	2.920	55.48	17.66	0.2862	Good
90	700	3.860	61.10	13.91	0.3281	Good
91	649	4.410	62.71	14.02	0.3876	Good
92	650	9.030	60.37	14.28	0.7784	Good
93	651	6.770	58.08	12.90	0.5071	Good
94	652	7.630	59.87	14.11	0.6447	Good
95	615	3.880	57.79	15.26	0.3422	Good
96	616	3.890	55.42	13.46	0.2902	Good
97	617	8.330	62.77	14.10	0.7372	Good
98	618	3.440	62.30	16.02	0.3433	Good
99	619	1.230	59.50	12.57	0.0920	Good
100	620	6.610	62.34	7.83	0.3226	Inferior

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 08/108**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	775	6.450	58.76	11.54	0.4373	Good
2	776	4.050	59.91	9.73	0.2361	Good
3	777	6.550	57.75	11.41	0.4316	Good
4	778	3.840	57.03	8.43	0.1847	Inferior
5	779	3.560	57.19	10.49	0.2136	Good
6	780	3.940	55.62	9.87	0.2163	Good
7	787	3.690	54.28	9.36	0.1875	Good
8	788	1.860	47.20	11.76	0.1032	Good
9	789	3.310	55.19	11.14	0.2036	Good
10	790	4.080	56.72	11.48	0.2656	Good
11	791	3.950	56.15	10.63	0.2358	Good

12	701	3.690	60.60	13.17	0.2945	Good
13	702	4.440	55.46	13.18	0.3246	Good
14	703	4.110	58.77	11.76	0.2840	Good
15	704	4.380	46.82	11.75	0.2409	Good
16	705	3.850	54.01	12.66	0.2633	Good
17	706	3.730	61.61	12.66	0.2909	Good
18	707	3.370	52.18	12.74	0.2241	Good
19	715	4.200	57.74	13.91	0.3373	Good
20	716	3.170	60.39	12.60	0.2412	Good
21	717	7.060	50.99	14.92	0.5373	Good
22	718	3.520	55.94	12.17	0.2397	Good
23	719	6.630	59.12	11.92	0.4674	Good
24	720	3.680	60.74	13.29	0.2970	Good
25	721	3.090	60.96	11.06	0.2083	Good
26	729	6.820	58.14	14.21	0.5633	Good
27	730	4.030	58.91	11.20	0.2660	Good
28	731	3.240	56.65	12.20	0.2239	Good
29	732	3.390	58.04	10.99	0.2163	Good
30	733	7.240	57.06	12.32	0.5090	Good
31	734	3.230	54.98	14.35	0.2548	Good
32	735	4.220	58.07	12.23	0.2996	Good
33	743	6.780	51.27	8.39	0.2915	Inferior
34	744	3.800	61.50	8.29	0.1938	Inferior
35	745	4.220	59.96	8.56	0.2165	Inferior
36	746	3.550	53.54	9.82	0.1867	Good
37	747	3.320	46.17	6.89	0.1056	Inferior
38	748	3.280	54.80	9.56	0.1719	Good
39	755	3.940	56.37	11.85	0.2632	Good
40	756	7.160	53.61	12.27	0.4711	Good
41	757	6.220	57.10	12.19	0.4329	Good
42	758	4.100	57.93	11.88	0.2821	Good
43	759	4.040	53.72	11.32	0.2456	Good
44	760	3.940	56.34	9.83	0.2183	Good
45	761	3.990	55.17	12.51	0.2753	Good
46	781	4.000	61.10	15.11	0.3692	Good
47	782	6.420	60.67	7.35	0.2863	Inferior
48	783	6.660	53.26	9.01	0.3197	Good
49	784	4.030	62.33	12.10	0.3039	Good
50	785	3.410	60.83	10.83	0.2247	Good
51	786	3.690	60.86	15.41	0.3461	Good

52	792	6.890	54.85	10.98	0.4148	Good
53	793	7.310	59.25	9.74	0.4218	Good
54	794	4.210	57.77	11.60	0.2821	Good
55	795	4.010	59.79	10.19	0.2442	Good
56	796	3.890	64.92	12.63	0.3190	Good
57	708	6.520	67.51	11.09	0.4883	Good
58	709	6.640	70.57	10.74	0.5033	Good
59	710	6.670	67.97	10.83	0.4909	Good
60	711	3.640	57.76	10.66	0.2242	Good
61	712	3.130	74.44	13.81	0.3218	Good
62	713	3.600	64.14	9.84	0.2272	Good
63	714	4.100	73.39	12.24	0.3682	Good
64	722	4.280	69.62	11.29	0.3364	Good
65	723	6.780	74.28	12.61	0.6353	Good
66	724	3.890	70.22	12.08	0.3299	Good
67	725	3.410	64.68	10.71	0.2363	Good
68	726	4.090	61.53	14.59	0.3673	Good
69	727	3.380	66.68	8.38	0.1889	Inferior
70	728	3.150	63.89	10.60	0.2133	Good
71	736	3.820	53.66	8.16	0.1673	Inferior
72	737	6.300	59.20	5.68	0.2117	Inferior
73	738	8.540	55.12	11.81	0.5560	Good
74	739	3.600	55.67	9.23	0.1850	Good
75	740	6.880	59.79	9.55	0.3928	Good
76	741	3.350	56.61	10.09	0.1913	Good
77	742	2.100	60.80	10.15	0.1296	Good
78	749	3.440	57.47	9.66	0.1909	Good
79	750	4.110	52.97	7.12	0.1549	Inferior
80	751	4.230	58.10	11.41	0.2804	Good
81	752	4.210	56.38	9.15	0.2172	Good
82	753	3.450	64.58	9.18	0.2046	Good
83	754	3.960	67.83	10.57	0.2839	Good
84	762	3.930	76.22	11.83	0.3545	Good
85	763	3.840	55.02	10.12	0.2139	Good
86	764	4.160	65.26	12.21	0.3316	Good
87	765	3.220	61.38	11.24	0.2222	Good
88	766	3.760	66.32	10.42	0.2598	Good
89	767	3.480	56.44	10.75	0.2112	Good
90	768	3.260	56.00	7.38	0.1346	Inferior
91	797	4.070	54.28	13.06	0.2886	Good

92	798	3.990	57.51	10.90	0.2502	Good
93	799	4.200	55.42	11.22	0.2612	Good
94	800	3.870	53.62	9.55	0.1981	Good
95	769	3.900	65.74	10.51	0.2695	Good
96	770	4.050	66.82	11.03	0.2985	Good
97	771	3.970	62.94	10.07	0.2517	Good
98	772	6.670	68.86	8.00	0.3675	Inferior
99	773	6.950	63.13	8.24	0.3614	Inferior
100	774	6.270	70.38	12.56	0.5543	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 17/181**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1606	8.460	62.00	7.42	0.3892	Inferior
2	1607	4.230	56.28	11.46	0.2728	Good
3	1608	4.250	52.20	9.67	0.2146	Good
4	1609	4.340	58.70	9.80	0.2496	Good
5	1610	3.570	53.15	12.34	0.2342	Good
6	1611	4.050	58.78	11.30	0.2689	Good
7	1624	6.810	57.74	9.51	0.3739	Good
8	1625	3.750	52.12	13.10	0.2561	Good
9	1626	4.030	69.33	10.73	0.2998	Good
10	1627	6.790	66.76	12.91	0.5853	Good
11	1628	3.540	65.84	11.48	0.2676	Good
12	1629	4.410	66.36	12.84	0.3757	Good
13	1630	4.520	58.59	10.63	0.2816	Good
14	1637	4.110	58.51	10.14	0.2437	Good
15	1638	4.370	58.13	8.43	0.2141	Inferior
16	1639	4.200	59.87	8.49	0.2134	Inferior
17	1640	4.340	64.08	10.67	0.2969	Good
18	1641	4.060	48.72	12.34	0.2440	Good
19	1642	4.010	57.49	9.76	0.2250	Good
20	1649	4.240	53.59	7.99	0.1815	Inferior
21	1650	3.950	58.49	13.08	0.3022	Good
22	1651	4.410	56.36	11.02	0.2739	Good
23	1652	3.130	60.37	1.90	0.0360	Inferior
24	1653	7.180	58.60	9.49	0.3992	Good
25	1654	4.120	64.05	10.15	0.2678	Good
26	1655	3.970	50.12	12.83	0.2553	Good
27	1663	7.060	63.12	8.92	0.3975	Inferior
28	1664	3.810	55.43	12.79	0.2701	Good

29	1665	3.220	59.31	10.15	0.1938	Good
30	1666	6.630	54.86	11.45	0.4164	Good
31	1667	6.340	50.75	15.15	0.4875	Good
32	1668	6.980	62.02	5.18	0.2241	Inferior
33	1675	3.860	65.14	9.47	0.2382	Good
34	1676	2.750	72.88	8.37	0.1678	Inferior
35	1677	3.690	53.35	9.67	0.1904	Good
36	1678	3.180	65.35	7.31	0.1520	Inferior
37	1679	6.350	57.58	9.93	0.3632	Good
38	1680	2.210	47.45	13.15	0.1379	Good
39	1687	4.060	57.97	11.89	0.2797	Good
40	1688	2.710	58.48	6.72	0.1065	Inferior
41	1689	3.720	63.18	10.91	0.2563	Good
42	1690	6.600	47.20	14.36	0.4475	Good
43	1691	3.750	63.43	10.01	0.2381	Good
44	1692	6.830	59.10	15.79	0.6372	Good
45	1693	4.340	59.59	9.78	0.2530	Good
46	1612	4.460	39.51	12.07	0.2127	Good
47	1613	4.180	60.71	11.45	0.2905	Good
48	1614	4.410	65.83	12.38	0.3594	Good
49	1615	4.360	62.79	9.71	0.2660	Good
50	1616	4.330	54.92	13.87	0.3299	Good
51	1617	4.270	64.14	12.35	0.3382	Good
52	1618	7.460	62.29	10.10	0.4692	Good
53	1631	3.440	57.04	10.41	0.2043	Good
54	1632	4.190	63.52	10.25	0.2728	Good
55	1633	3.390	43.55	13.34	0.1970	Good
56	1634	3.600	54.46	14.14	0.2772	Good
57	1635	7.100	54.92	11.56	0.4509	Good
58	1636	4.210	54.72	9.38	0.2160	Good
59	1643	4.390	58.93	10.79	0.2792	Good
60	1644	6.510	57.08	9.67	0.3594	Good
61	1645	4.280	69.31	10.91	0.3236	Good
62	1646	4.120	61.96	14.86	0.3795	Good
63	1647	6.800	61.21	9.15	0.3808	Good
64	1648	4.130	43.21	10.67	0.1904	Good
65	1656	4.440	50.13	12.03	0.2677	Good
66	1657	4.330	56.14	10.56	0.2568	Good
67	1658	3.590	60.54	11.18	0.2430	Good
68	1659	4.200	59.40	10.35	0.2583	Good

69	1660	4.130	58.41	10.56	0.2548	Good
70	1661	4.290	50.58	6.21	0.1347	Inferior
71	1662	4.050	63.50	10.93	0.2811	Good
72	1669	5.720	62.22	10.77	0.3832	Good
73	1670	4.260	56.02	8.30	0.1981	Inferior
74	1671	3.130	57.05	11.04	0.1972	Good
75	1672	3.460	57.59	9.88	0.1969	Good
76	1673	4.140	61.09	9.79	0.2476	Good
77	1674	3.590	63.98	9.92	0.2280	Good
78	1681	3.510	63.94	11.87	0.2664	Good
79	1682	6.490	65.46	11.78	0.5004	Good
80	1683	3.630	60.65	8.36	0.1840	Inferior
81	1684	3.780	49.75	13.63	0.2563	Good
82	1685	3.610	66.32	6.09	0.1458	Inferior
83	1686	3.630	58.44	12.08	0.2563	Good
84	1694	4.270	56.68	9.28	0.2246	Good
85	1695	4.300	58.97	9.28	0.2352	Good
86	1696	3.990	58.77	14.26	0.3344	Good
87	1697	4.030	60.01	9.70	0.2345	Good
88	1698	4.200	56.05	10.99	0.2587	Good
89	1699	6.330	62.09	10.34	0.4064	Good
90	1700	6.980	58.13	15.12	0.6135	Good
91	1619	4.290	61.78	12.12	0.3213	Good
92	1620	4.550	59.24	11.78	0.3176	Good
93	1621	4.160	55.63	10.19	0.2359	Good
94	1622	3.990	60.79	9.87	0.2394	Good
95	1623	3.490	60.49	9.27	0.1958	Good
96	1601	4.290	53.01	15.83	0.3599	Good
97	1602	4.070	60.23	10.91	0.2674	Good
98	1603	4.340	70.15	12.33	0.3754	Good
99	1604	4.310	58.93	11.84	0.3008	Good
100	1605	4.260	62.31	12.16	0.3229	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 42/409**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4156	4.180	61.65	11.34	0.2922	Good
2	4157	3.800	63.05	11.50	0.2755	Good
3	4158	3.890	56.54	15.78	0.3470	Good
4	4159	3.810	61.91	10.82	0.2553	Good
5	4160	4.060	72.11	11.45	0.3354	Good

6	4161	3.640	66.33	11.10	0.2679	Good
7	4162	3.980	67.61	13.31	0.3582	Good
8	4163	4.030	59.46	13.67	0.3276	Good
9	4164	3.680	65.35	12.07	0.2904	Good
10	4176	2.720	71.54	14.15	0.2753	Good
11	4177	6.130	59.08	9.78	0.3543	Good
12	4178	4.180	69.05	10.66	0.3076	Good
13	4179	8.430	62.43	10.65	0.5606	Good
14	4180	3.910	59.37	9.75	0.2264	Good
15	4188	6.900	51.77	12.54	0.4478	Good
16	4189	3.990	54.78	11.56	0.2526	Good
17	4190	3.160	67.17	10.41	0.2209	Good
18	4191	4.060	54.69	12.20	0.2708	Good
19	4192	1.030	49.57	7.73	0.0394	Inferior
20	4193	3.660	55.44	9.00	0.1826	Good
21	4108	3.960	59.37	8.30	0.1952	Inferior
22	4109	4.030	64.02	10.18	0.2628	Good
23	4110	3.800	49.02	11.93	0.2223	Good
24	4111	3.970	64.04	10.96	0.2787	Good
25	4112	4.070	57.79	11.13	0.2617	Good
26	4113	3.580	61.72	9.59	0.2119	Good
27	4114	3.610	66.32	10.84	0.2596	Good
28	4121	4.110	58.24	11.02	0.2639	Good
29	4122	5.540	57.40	10.07	0.3202	Good
30	4123	3.370	61.38	9.22	0.1907	Good
31	4124	3.710	67.66	11.90	0.2987	Good
32	4125	3.790	59.08	15.59	0.3491	Good
33	4126	3.940	61.43	9.65	0.2336	Good
34	4127	4.100	63.99	8.02	0.2103	Inferior
35	4133	4.000	68.10	14.58	0.3972	Good
36	4134	3.780	63.03	11.36	0.2706	Good
37	4135	4.140	66.33	14.28	0.3921	Good
38	4136	3.870	66.16	13.38	0.3425	Good
39	4137	3.840	66.65	11.40	0.2918	Good
40	4138	3.420	61.74	12.15	0.2565	Good
41	4145	3.790	59.36	15.95	0.3589	Good
42	4146	3.790	76.27	13.47	0.3892	Good
43	4147	4.260	72.61	13.66	0.4226	Good
44	4148	4.400	61.90	11.87	0.3234	Good
45	4149	3.950	63.29	12.78	0.3196	Good



46	4165	3.580	56.34	14.41	0.2907	Good
47	4166	3.610	69.56	14.26	0.3581	Good
48	4167	3.510	65.23	13.38	0.3064	Good
49	4168	3.840	49.07	7.44	0.1402	Inferior
50	4169	3.800	73.18	13.13	0.3652	Good
51	4170	3.750	56.02	11.21	0.2355	Good
52	4181	7.000	63.65	11.83	0.5271	Good
53	4182	3.570	59.93	9.73	0.2081	Good
54	4183	3.960	60.37	5.93	0.1418	Inferior
55	4184	3.880	56.72	10.93	0.2406	Good
56	4185	4.010	54.91	10.76	0.2370	Good
57	4186	4.210	57.04	12.01	0.2884	Good
58	4187	3.930	57.99	9.78	0.2228	Good
59	4194	1.000	56.44	2.62	0.0148	Inferior
60	4195	3.390	62.62	11.74	0.2492	Good
61	4196	4.310	62.24	9.29	0.2491	Good
62	4197	4.100	57.00	11.40	0.2665	Good
63	4198	3.460	59.93	8.39	0.1740	Inferior
64	4199	4.120	67.13	12.05	0.3333	Good
65	4200	4.110	65.33	14.48	0.3888	Good
66	4101	3.950	57.24	12.68	0.2868	Good
67	4102	3.510	65.94	11.28	0.2611	Good
68	4103	3.460	64.50	11.72	0.2616	Good
69	4104	6.370	72.06	13.34	0.6122	Good
70	4105	4.050	56.49	10.67	0.2442	Good
71	4106	6.090	59.36	9.40	0.3398	Good
72	4107	3.720	60.21	7.86	0.1760	Inferior
73	4115	3.850	61.27	9.76	0.2302	Good
74	4116	3.770	50.81	11.99	0.2296	Good
75	4117	6.670	51.85	10.28	0.3555	Good
76	4118	3.470	57.25	9.90	0.1967	Good
77	4119	3.980	59.31	11.25	0.2655	Good
78	4120	3.880	58.89	11.36	0.2596	Good
79	4139	4.030	62.20	10.82	0.2712	Good
80	4140	6.820	66.85	13.06	0.5954	Good
81	4141	6.510	72.43	12.81	0.6041	Good
82	4142	3.440	51.17	10.69	0.1882	Good
83	4143	3.920	73.56	12.10	0.3489	Good
84	4144	4.120	61.26	13.97	0.3527	Good
85	4150	4.180	62.30	16.53	0.4305	Good

86	4151	4.100	65.68	13.82	0.3723	Good
87	4152	1.850	63.47	12.65	0.1486	Good
88	4153	4.060	61.87	11.54	0.2899	Good
89	4154	3.560	57.53	11.23	0.2300	Good
90	4155	3.540	63.29	12.89	0.2889	Good
91	4128	3.660	71.00	11.77	0.3060	Good
92	4129	7.410	49.71	9.80	0.3609	Good
93	4130	3.600	62.97	11.13	0.2524	Good
94	4131	3.880	62.70	12.15	0.2957	Good
95	4132	4.080	53.41	10.05	0.2191	Good
96	4171	4.470	53.47	9.84	0.2351	Good
97	4172	3.780	59.08	15.54	0.3470	Good
98	4173	3.960	59.00	12.20	0.2851	Good
99	4174	3.800	62.82	10.62	0.2535	Good
100	4175	3.620	54.39	14.49	0.2853	Good

DATE: 04.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 20/214**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1958	3.910	59.68	15.57	0.3632	Good
2	1959	6.970	58.56	10.59	0.4321	Good
3	1960	6.550	57.19	13.88	0.5201	Good
4	1961	3.620	57.68	12.01	0.2509	Good
5	1962	6.940	53.73	11.97	0.4462	Good
6	1963	4.150	55.70	10.61	0.2453	Good
7	1964	4.210	57.83	13.40	0.3263	Good
8	1972	4.250	56.01	12.30	0.2928	Good
9	1973	7.950	54.36	11.24	0.4857	Good
10	1974	4.020	61.11	13.11	0.3220	Good
11	1975	6.800	75.93	12.12	0.6256	Good
12	1976	3.460	59.44	14.94	0.3072	Good
13	1977	4.200	68.87	15.10	0.4368	Good
14	1989	3.550	63.04	10.12	0.2265	Good
15	1990	3.830	58.11	10.00	0.2225	Good
16	1991	5.670	59.62	10.03	0.3391	Good
17	1992	5.480	61.87	11.56	0.3918	Good
18	1993	3.490	53.48	9.89	0.1846	Good
19	1994	3.690	55.41	11.75	0.2402	Good
20	1908	6.970	58.94	12.01	0.4935	Good
21	1909	3.690	62.62	12.50	0.2889	Good
22	1910	4.270	53.74	15.85	0.3638	Good
23	1911	3.970	62.40	11.30	0.2799	Good
24	1912	3.900	59.98	14.50	0.3393	Good
25	1913	3.870	63.60	9.65	0.2376	Good
26	1914	3.910	65.02	13.23	0.3363	Good
27	1921	3.580	59.82	11.20	0.2399	Good
28	1922	2.050	52.79	15.08	0.1632	Good
29	1923	2.930	53.67	8.27	0.1301	Inferior
30	1924	1.910	52.42	7.08	0.0709	Inferior
31	1925	4.060	59.72	11.19	0.2712	Good
32	1926	4.380	65.92	11.68	0.3373	Good
33	1938	3.740	56.32	11.65	0.2453	Good
34	1939	3.580	59.62	13.62	0.2907	Good

35	1940	4.260	65.66	14.24	0.3983	Good
36	1941	3.590	68.39	12.68	0.3113	Good
37	1942	7.320	60.64	10.98	0.4875	Good
38	1943	5.700	59.65	9.61	0.3266	Good
39	1951	3.750	56.26	11.84	0.2498	Good
40	1952	3.210	62.51	10.51	0.2109	Good
41	1953	4.010	56.36	13.64	0.3084	Good
42	1954	3.540	60.69	10.59	0.2276	Good
43	1955	3.900	58.10	11.77	0.2668	Good
44	1956	6.480	64.81	12.82	0.5385	Good
45	1957	4.240	55.52	16.10	0.3791	Good
46	1965	6.700	71.11	12.16	0.5796	Good
47	1966	4.200	57.68	10.25	0.2482	Good
48	1967	3.310	61.75	11.56	0.2363	Good
49	1968	4.000	55.32	9.56	0.2116	Good
50	1969	3.930	61.21	13.56	0.3262	Good
51	1970	3.620	63.82	11.70	0.2704	Good
52	1971	4.170	54.19	10.87	0.2456	Good
53	1978	4.040	62.95	14.39	0.3660	Good
54	1979	4.120	61.20	11.90	0.2999	Good
55	1980	3.470	69.59	12.16	0.2936	Good
56	1981	3.540	67.06	14.49	0.3441	Good
57	1982	4.220	59.20	13.34	0.3334	Good
58	1983	3.160	58.31	10.31	0.1899	Good
59	1995	3.990	58.78	14.77	0.3463	Good
60	1996	3.480	57.53	13.25	0.2652	Good
61	1997	1.630	56.67	10.82	0.0999	Good
62	1998	3.600	58.46	9.05	0.1904	Good
63	1999	6.170	56.45	14.53	0.5059	Good
64	2000	3.570	67.91	13.19	0.3199	Good
65	1901	7.140	53.82	12.13	0.4662	Good
66	1902	3.960	55.05	11.37	0.2479	Good
67	1903	4.050	58.19	12.53	0.2952	Good
68	1904	6.390	56.13	10.26	0.3681	Good
69	1905	3.930	58.01	13.81	0.3148	Good
70	1906	4.020	56.26	11.73	0.2653	Good
71	1907	3.540	65.66	13.65	0.3172	Good
72	1915	3.400	57.37	11.57	0.2258	Good
73	1916	7.030	57.83	7.33	0.2981	Inferior
74	1917	3.170	61.52	11.15	0.2175	Good

75	1918	3.320	59.03	9.83	0.1926	Good
76	1919	3.170	55.15	10.84	0.1896	Good
77	1920	3.910	52.81	11.72	0.2420	Good
78	1932	4.410	58.40	11.42	0.2941	Good
79	1933	4.200	58.32	9.48	0.2323	Good
80	1934	4.200	60.55	9.50	0.2415	Good
81	1935	3.240	57.96	11.63	0.2184	Good
82	1936	4.120	57.22	10.50	0.2476	Good
83	1937	6.570	57.60	13.84	0.5236	Good
84	1944	7.180	53.48	9.59	0.3683	Good
85	1945	4.260	55.89	13.47	0.3208	Good
86	1946	3.960	62.00	9.68	0.2376	Good
87	1947	3.530	54.01	10.39	0.1980	Good
88	1948	3.940	55.05	10.94	0.2372	Good
89	1949	4.080	59.82	10.21	0.2493	Good
90	1950	3.680	54.19	10.57	0.2109	Good
91	1927	6.750	58.53	10.51	0.4151	Good
92	1928	4.110	65.16	6.74	0.1804	Inferior
93	1929	4.260	55.78	11.80	0.2803	Good
94	1930	4.200	57.91	13.12	0.3192	Good
95	1931	3.770	53.47	12.16	0.2451	Good
96	1984	3.430	54.12	11.90	0.2209	Good
97	1985	4.060	54.96	10.04	0.2241	Good
98	1986	3.540	54.63	10.56	0.2043	Good
99	1987	4.120	59.37	14.74	0.3605	Good
100	1988	6.740	54.86	8.46	0.3127	Inferior

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 25/261**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2485	3.250	62.81	13.79	0.2815	Good
2	2486	3.930	55.37	12.91	0.2810	Good
3	2487	4.140	59.39	10.27	0.2525	Good
4	2488	3.500	57.68	12.47	0.2517	Good
5	2489	2.040	54.53	12.58	0.1399	Good
6	2490	3.500	49.36	13.21	0.2282	Good
7	2491	3.700	59.00	13.95	0.3045	Good
8	2497	3.830	51.08	14.00	0.2738	Good
9	2498	3.700	53.54	11.21	0.2220	Good
10	2499	3.460	54.78	15.32	0.2903	Good
11	2500	3.750	57.64	10.93	0.2363	Good

12	2408	3.520	67.57	13.29	0.3161	Good
13	2409	3.460	54.89	16.18	0.3072	Good
14	2410	3.520	52.64	12.10	0.2242	Good
15	2411	3.740	51.77	11.88	0.2300	Good
16	2412	6.300	53.50	12.37	0.4171	Good
17	2413	3.190	62.91	11.06	0.2220	Good
18	2414	4.020	58.72	12.84	0.3031	Good
19	2427	3.810	57.21	14.42	0.3143	Good
20	2428	4.020	57.52	12.57	0.2906	Good
21	2429	7.020	57.24	11.44	0.4598	Good
22	2430	3.450	61.77	10.99	0.2343	Good
23	2431	3.080	54.02	13.61	0.2264	Good
24	2432	4.150	58.69	9.83	0.2395	Good
25	2433	6.890	57.56	14.80	0.5870	Good
26	2441	3.230	58.89	11.94	0.2271	Good
27	2442	3.980	61.19	10.18	0.2480	Good
28	2443	6.410	61.43	10.87	0.4282	Good
29	2444	6.520	58.89	11.46	0.4401	Good
30	2445	3.980	61.97	10.07	0.2484	Good
31	2446	4.020	58.82	12.43	0.2939	Good
32	2447	3.860	54.09	10.39	0.2169	Good
33	2456	3.830	56.99	11.69	0.2551	Good
34	2457	4.260	60.13	14.20	0.3638	Good
35	2458	4.130	58.28	11.75	0.2829	Good
36	2459	6.950	55.36	12.27	0.4719	Good
37	2460	3.930	61.19	11.36	0.2731	Good
38	2461	3.720	61.79	13.95	0.3207	Good
39	2462	3.440	62.20	12.15	0.2601	Good
40	2469	4.100	58.34	10.22	0.2444	Good
41	2470	4.160	56.38	13.11	0.3075	Good
42	2471	4.020	62.21	10.14	0.2537	Good
43	2472	3.880	61.29	10.39	0.2472	Good
44	2473	3.170	55.36	11.90	0.2089	Good
45	2474	3.370	58.95	16.68	0.3313	Good
46	2475	3.890	61.82	11.71	0.2816	Good
47	2476	3.950	64.19	9.43	0.2390	Good
48	2477	4.100	56.48	15.99	0.3702	Good
49	2478	3.900	57.35	10.32	0.2309	Good
50	2479	4.130	57.27	12.97	0.3069	Good
51	2480	3.700	56.31	11.31	0.2357	Good

52	2492	3.460	54.87	9.19	0.1744	Good
53	2493	2.430	52.79	10.61	0.1361	Good
54	2494	3.410	61.69	10.52	0.2213	Good
55	2495	3.540	56.64	12.13	0.2432	Good
56	2496	3.370	56.26	10.04	0.1904	Good
57	2401	3.730	60.47	13.41	0.3025	Good
58	2402	3.460	62.55	11.29	0.2443	Good
59	2403	6.850	54.47	14.19	0.5295	Good
60	2404	3.440	56.85	14.20	0.2776	Good
61	2405	3.890	55.02	13.70	0.2933	Good
62	2406	3.330	58.70	13.25	0.2591	Good
63	2407	3.580	57.68	13.38	0.2764	Good
64	2421	3.090	57.98	13.35	0.2392	Good
65	2422	3.700	51.12	13.71	0.2594	Good
66	2423	4.140	51.93	10.11	0.2174	Good
67	2424	3.880	56.84	13.42	0.2960	Good
68	2425	3.750	55.70	11.01	0.2299	Good
69	2426	3.780	60.94	12.55	0.2892	Good
70	2434	6.710	55.27	10.19	0.3778	Good
71	2435	3.830	57.32	12.86	0.2823	Good
72	2436	3.970	61.37	11.42	0.2783	Good
73	2437	3.780	62.59	13.55	0.3205	Good
74	2438	4.150	65.79	13.73	0.3747	Good
75	2439	6.960	63.93	15.56	0.6925	Good
76	2440	3.930	63.09	12.17	0.3018	Good
77	2448	3.840	65.13	15.77	0.3944	Good
78	2449	3.150	54.20	9.96	0.1701	Good
79	2450	3.940	57.82	12.33	0.2809	Good
80	2451	7.080	61.74	11.66	0.5098	Good
81	2452	3.870	57.90	13.83	0.3100	Good
82	2453	4.190	54.67	12.29	0.2816	Good
83	2454	3.890	51.31	11.87	0.2369	Good
84	2455	3.850	61.16	12.18	0.2868	Good
85	2463	4.000	58.58	12.10	0.2836	Good
86	2464	3.390	60.20	10.43	0.2129	Good
87	2465	4.150	60.76	11.55	0.2913	Good
88	2466	4.070	58.56	9.65	0.2300	Good
89	2467	4.880	59.12	13.45	0.3880	Good
90	2468	3.900	56.56	11.67	0.2574	Good
91	2415	4.020	61.67	10.93	0.2709	Good

92	2416	6.560	57.60	11.11	0.4198	Good
93	2417	3.920	55.95	12.58	0.2760	Good
94	2418	3.850	58.89	12.41	0.2814	Good
95	2419	3.510	58.08	11.69	0.2383	Good
96	2420	3.950	55.49	10.96	0.2402	Good
97	2481	6.040	54.45	12.21	0.4017	Good
98	2482	6.690	57.75	12.97	0.5011	Good
99	2483	2.970	52.24	13.73	0.2129	Good
100	2484	4.210	58.61	11.09	0.2737	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 41/408**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4061	3.450	70.90	11.21	0.2743	Good
2	4062	3.200	65.80	14.76	0.3107	Good
3	4063	6.560	62.73	11.29	0.4644	Good
4	4064	3.650	60.52	9.81	0.2168	Good
5	4065	3.430	62.61	11.05	0.2374	Good
6	4066	6.390	67.55	13.95	0.6019	Good
7	4067	3.510	59.42	11.31	0.2359	Good
8	4075	4.120	61.52	10.96	0.2777	Good
9	4076	2.840	65.90	11.02	0.2062	Good
10	4077	3.420	52.92	9.86	0.1785	Good
11	4078	3.650	67.52	10.75	0.2650	Good
12	4079	3.940	73.10	11.31	0.3258	Good
13	4080	3.860	61.62	11.78	0.2802	Good
14	4081	3.950	67.17	10.05	0.2666	Good
15	4089	4.090	65.22	14.95	0.3988	Good
16	4090	3.660	51.47	12.08	0.2277	Good
17	4091	3.960	48.13	11.45	0.2182	Good
18	4092	4.210	68.07	11.11	0.3183	Good
19	4093	3.970	56.71	13.49	0.3037	Good
20	4094	3.870	61.21	10.11	0.2396	Good
21	4001	3.030	59.54	13.81	0.2491	Good
22	4002	3.210	58.40	9.33	0.1749	Good
23	4003	3.790	54.09	7.73	0.1584	Inferior
24	4004	3.410	63.60	10.58	0.2295	Good
25	4005	3.350	61.58	13.20	0.2724	Good
26	4006	3.160	52.36	9.09	0.1504	Good
27	4007	4.060	50.39	12.17	0.2489	Good
28	4008	0.500	60.50	14.13	0.0428	Good



29	4017	4.380	56.13	11.88	0.2921	Good
30	4018	6.490	65.96	10.76	0.4608	Good
31	4019	4.040	63.78	10.00	0.2578	Good
32	4020	4.090	64.85	14.42	0.3824	Good
33	4021	3.560	51.93	11.27	0.2083	Good
34	4022	4.130	63.58	12.47	0.3275	Good
35	4035	3.990	72.19	11.36	0.3272	Good
36	4036	4.140	65.84	12.85	0.3502	Good
37	4037	4.120	58.03	12.91	0.3086	Good
38	4038	4.150	64.16	9.69	0.2581	Good
39	4039	3.550	68.40	10.48	0.2545	Good
40	4044	4.220	50.27	8.28	0.1756	Inferior
41	4045	4.030	64.90	13.11	0.3430	Good
42	4046	4.050	67.25	11.21	0.3054	Good
43	4047	4.100	61.62	10.74	0.2714	Good
44	4048	4.050	64.13	11.02	0.2863	Good
45	4049	3.150	57.87	11.25	0.2051	Good
46	4068	3.570	56.34	11.24	0.2260	Good
47	4069	4.100	60.44	12.34	0.3059	Good
48	4070	3.140	67.87	12.10	0.2578	Good
49	4071	3.390	60.30	10.81	0.2210	Good
50	4072	4.150	69.55	10.81	0.3121	Good
51	4073	3.200	58.71	10.90	0.2048	Good
52	4074	3.380	59.07	12.63	0.2521	Good
53	4082	4.130	55.60	9.73	0.2234	Good
54	4083	3.210	64.74	10.75	0.2234	Good
55	4084	4.030	63.84	13.41	0.3450	Good
56	4085	3.710	60.49	10.56	0.2371	Good
57	4086	3.150	64.85	10.92	0.2230	Good
58	4087	3.570	73.44	12.61	0.3306	Good
59	4088	4.410	54.40	11.67	0.2800	Good
60	4095	5.960	63.39	9.99	0.3773	Good
61	4096	4.260	67.21	11.78	0.3374	Good
62	4097	4.160	66.04	13.45	0.3694	Good
63	4098	6.700	58.98	9.80	0.3873	Good
64	4099	4.300	58.43	9.84	0.2473	Good
65	4100	3.840	57.58	11.77	0.2604	Good
66	4009	4.040	53.24	11.04	0.2376	Good
67	4010	4.510	64.10	15.30	0.4424	Good
68	4011	4.280	56.38	7.91	0.1909	Inferior

69	4012	4.230	65.60	14.85	0.4120	Good
70	4013	4.180	56.78	11.80	0.2801	Good
71	4014	4.070	66.89	9.76	0.2658	Good
72	4015	4.350	56.91	10.21	0.2527	Good
73	4016	4.320	52.69	11.44	0.2605	Good
74	4023	1.880	59.78	11.29	0.1269	Good
75	4024	6.190	57.67	7.59	0.2711	Inferior
76	4025	3.310	53.67	8.44	0.1499	Inferior
77	4026	3.480	55.35	9.18	0.1768	Good
78	4027	3.590	59.33	10.99	0.2341	Good
79	4028	3.090	52.30	7.27	0.1174	Inferior
80	4029	7.580	79.91	11.29	0.6837	Good
81	4040	3.880	61.84	11.17	0.2681	Good
82	4041	4.350	78.35	14.05	0.4789	Good
83	4042	6.530	62.49	11.46	0.4675	Good
84	4043	3.880	63.76	10.05	0.2487	Good
85	4050	7.010	67.34	10.75	0.5075	Good
86	4051	3.910	57.33	11.58	0.2596	Good
87	4052	3.170	59.98	10.19	0.1937	Good
88	4053	3.880	71.11	9.37	0.2584	Good
89	4054	3.790	52.14	13.41	0.2649	Good
90	4055	6.740	56.09	11.48	0.4341	Good
91	4030	3.970	55.92	12.48	0.2771	Good
92	4031	4.220	78.74	12.66	0.4207	Good
93	4032	4.170	56.27	11.27	0.2644	Good
94	4033	4.080	70.30	12.05	0.3456	Good
95	4034	4.060	66.30	11.07	0.2980	Good
96	4056	3.880	56.39	11.69	0.2557	Good
97	4057	7.260	77.56	12.74	0.7173	Good
98	4058	4.070	60.91	10.38	0.2572	Good
99	4059	4.150	64.93	10.55	0.2843	Good
100	4060	3.270	57.15	9.20	0.1720	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 19/213**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1875	3.360	59.95	13.53	0.2725	Good
2	1876	4.020	56.70	12.12	0.2762	Good
3	1877	4.230	66.18	15.10	0.4226	Good
4	1878	2.760	59.20	14.44	0.2360	Good
5	1879	3.390	64.10	11.64	0.2529	Good

6	1880	3.140	61.52	14.19	0.2741	Good
7	1887	3.290	55.85	11.35	0.2086	Good
8	1888	4.080	53.48	13.65	0.2978	Good
9	1889	1.700	56.61	15.77	0.1518	Good
10	1890	3.330	62.74	11.95	0.2498	Good
11	1891	4.070	54.79	14.53	0.3240	Good
12	1801	3.950	53.74	13.62	0.2891	Good
13	1802	3.950	60.55	15.31	0.3662	Good
14	1803	4.000	54.86	15.88	0.3484	Good
15	1804	4.230	57.14	15.28	0.3693	Good
16	1805	3.800	53.95	16.74	0.3431	Good
17	1806	4.130	58.07	15.95	0.3824	Good
18	1807	4.220	57.70	16.72	0.4072	Good
19	1821	4.200	67.85	9.83	0.2801	Good
20	1822	4.070	60.83	12.81	0.3171	Good
21	1823	4.060	56.15	15.48	0.3528	Good
22	1824	4.090	55.39	13.07	0.2961	Good
23	1825	4.240	60.54	14.09	0.3617	Good
24	1826	4.060	60.68	10.66	0.2627	Good
25	1827	6.940	64.15	14.64	0.6517	Good
26	1835	6.870	63.43	9.95	0.4335	Good
27	1836	4.200	65.49	9.44	0.2596	Good
28	1837	4.030	52.65	13.50	0.2865	Good
29	1838	3.870	60.35	15.24	0.3560	Good
30	1839	6.120	59.94	13.90	0.5098	Good
31	1840	4.250	61.14	12.99	0.3375	Good
32	1847	3.590	63.83	13.91	0.3188	Good
33	1848	6.420	60.92	14.07	0.5502	Good
34	1849	3.990	59.47	12.85	0.3048	Good
35	1850	4.070	54.02	16.03	0.3525	Good
36	1851	3.760	64.19	13.09	0.3158	Good
37	1852	3.870	60.56	11.92	0.2794	Good
38	1859	2.900	58.34	15.14	0.2561	Good
39	1860	3.940	56.88	15.28	0.3424	Good
40	1861	3.660	57.61	12.05	0.2540	Good
41	1862	4.060	60.15	12.54	0.3061	Good
42	1863	4.090	63.10	12.27	0.3166	Good
43	1864	6.800	55.60	10.41	0.3937	Good
44	1865	3.910	59.64	12.37	0.2886	Good
45	1866	4.990	65.79	12.05	0.3957	Good

46	1881	4.160	61.69	12.30	0.3157	Good
47	1882	3.990	61.63	12.96	0.3188	Good
48	1883	3.800	63.23	9.50	0.2284	Good
49	1884	3.170	62.22	13.93	0.2748	Good
50	1885	2.820	65.92	12.04	0.2239	Good
51	1886	7.320	58.88	11.70	0.5043	Good
52	1892	3.840	59.29	15.03	0.3421	Good
53	1893	4.010	66.23	7.78	0.2065	Inferior
54	1894	4.040	61.87	12.90	0.3224	Good
55	1895	4.150	59.42	12.81	0.3158	Good
56	1896	3.490	57.50	14.28	0.2865	Good
57	1808	6.780	65.15	12.03	0.5316	Good
58	1809	4.200	62.72	11.11	0.2927	Good
59	1810	4.360	66.58	12.44	0.3610	Good
60	1811	3.510	62.85	12.90	0.2847	Good
61	1812	4.180	58.04	14.92	0.3620	Good
62	1813	4.180	56.11	14.10	0.3306	Good
63	1814	7.170	63.40	12.52	0.5693	Good
64	1828	7.010	63.51	12.68	0.5643	Good
65	1829	4.020	56.29	12.22	0.2766	Good
66	1830	4.050	59.90	12.39	0.3005	Good
67	1831	3.690	65.83	12.64	0.3070	Good
68	1832	7.000	63.93	12.86	0.5754	Good
69	1833	4.190	60.18	13.83	0.3486	Good
70	1834	4.060	65.71	10.24	0.2732	Good
71	1841	3.850	59.27	15.69	0.3581	Good
72	1842	6.710	63.20	14.22	0.6032	Good
73	1843	3.740	63.64	13.67	0.3254	Good
74	1844	3.920	64.93	12.58	0.3203	Good
75	1845	4.160	64.36	16.24	0.4347	Good
76	1846	3.900	61.43	13.92	0.3335	Good
77	1853	3.970	56.57	16.35	0.3672	Good
78	1854	3.770	58.53	12.56	0.2771	Good
79	1855	3.690	63.50	13.10	0.3070	Good
80	1856	3.950	62.01	11.59	0.2840	Good
81	1857	6.620	53.25	14.37	0.5064	Good
82	1858	3.750	58.59	13.52	0.2970	Good
83	1867	3.900	67.00	11.79	0.3081	Good
84	1868	3.890	58.85	13.32	0.3050	Good
85	1869	2.720	62.04	12.15	0.2051	Good

86	1870	3.260	61.09	15.22	0.3032	Good
87	1871	3.840	64.41	11.46	0.2834	Good
88	1872	1.770	65.13	12.25	0.1412	Good
89	1873	3.740	57.55	15.41	0.3317	Good
90	1874	6.220	60.92	13.62	0.5163	Good
91	1815	3.900	55.61	16.15	0.3502	Good
92	1816	4.050	54.32	15.22	0.3349	Good
93	1817	4.220	57.24	15.02	0.3629	Good
94	1818	4.360	51.01	15.60	0.3471	Good
95	1819	3.980	56.46	13.18	0.2961	Good
96	1820	3.890	55.18	12.65	0.2715	Good
97	1897	4.260	55.54	14.75	0.3489	Good
98	1898	5.940	59.11	14.26	0.5007	Good
99	1899	4.180	61.46	10.90	0.2801	Good
100	1900	4.510	55.72	14.41	0.3622	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 40/407**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3959	4.250	63.02	15.00	0.4016	Good
2	3960	4.250	58.95	16.37	0.4101	Good
3	3961	4.140	63.14	14.79	0.3867	Good
4	3962	3.670	59.51	13.68	0.2987	Good
5	3963	4.420	60.51	12.79	0.3421	Good
6	3964	4.230	60.67	11.65	0.2991	Good
7	3971	3.460	59.18	14.90	0.3052	Good
8	3972	3.630	55.22	16.84	0.3376	Good
9	3973	3.560	60.98	11.69	0.2538	Good
10	3974	3.420	62.45	12.30	0.2627	Good
11	3975	6.720	63.59	12.00	0.5127	Good
12	3976	4.080	63.47	14.24	0.3688	Good
13	3984	3.850	69.20	12.20	0.3249	Good
14	3985	3.420	59.30	14.27	0.2893	Good
15	3986	4.020	56.56	16.87	0.3835	Good
16	3987	4.140	62.93	11.98	0.3122	Good
17	3988	3.770	63.98	12.77	0.3080	Good
18	3989	3.430	66.87	14.54	0.3334	Good
19	3990	3.280	66.47	14.50	0.3162	Good
20	3991	6.400	75.34	11.41	0.5504	Good
21	3992	2.050	67.05	11.98	0.1646	Good
22	3901	3.810	63.70	10.50	0.2549	Good

23	3902	3.680	66.44	13.77	0.3367	Good
24	3903	2.580	61.39	11.17	0.1770	Good
25	3904	3.550	60.59	16.55	0.3561	Good
26	3905	3.700	58.29	14.58	0.3145	Good
27	3906	3.980	61.55	14.25	0.3490	Good
28	3919	3.770	62.13	12.07	0.2828	Good
29	3920	3.620	50.48	16.62	0.3037	Good
30	3921	3.810	61.07	13.51	0.3143	Good
31	3922	3.970	60.46	16.19	0.3887	Good
32	3923	3.960	62.31	16.55	0.4083	Good
33	3924	5.950	63.34	14.40	0.5426	Good
34	3925	3.060	60.07	15.95	0.2931	Good
35	3933	4.090	61.54	12.64	0.3182	Good
36	3934	3.630	56.51	15.31	0.3140	Good
37	3935	4.030	57.89	11.85	0.2765	Good
38	3936	4.060	62.34	13.78	0.3488	Good
39	3937	4.030	58.58	13.96	0.3297	Good
40	3944	7.150	63.85	12.84	0.5863	Good
41	3945	3.990	62.34	10.54	0.2621	Good
42	3946	4.090	63.24	14.41	0.3726	Good
43	3947	3.180	59.12	12.47	0.2344	Good
44	3948	4.020	62.16	12.56	0.3140	Good
45	3949	4.280	57.71	14.11	0.3484	Good
46	3965	7.090	56.43	16.99	0.6799	Good
47	3966	4.020	60.19	14.69	0.3554	Good
48	3967	4.240	59.69	16.70	0.4227	Good
49	3968	4.500	62.11	15.62	0.4365	Good
50	3969	3.540	53.42	16.44	0.3108	Good
51	3970	3.490	59.97	16.04	0.3357	Good
52	3977	4.060	60.21	15.35	0.3751	Good
53	3978	4.190	63.97	9.80	0.2627	Good
54	3979	4.060	64.29	12.47	0.3256	Good
55	3980	3.500	61.04	13.25	0.2832	Good
56	3981	4.050	63.38	16.54	0.4244	Good
57	3982	4.090	67.28	10.61	0.2920	Good
58	3983	4.140	65.30	14.27	0.3858	Good
59	3993	3.970	58.71	15.28	0.3561	Good
60	3994	3.540	70.93	11.35	0.2850	Good
61	3995	3.080	68.01	11.23	0.2353	Good
62	3996	3.520	56.14	16.21	0.3203	Good

63	3997	3.830	69.38	11.60	0.3083	Good
64	3998	3.050	67.18	9.51	0.1949	Good
65	3999	3.230	60.46	12.95	0.2529	Good
66	4000	3.560	66.27	11.72	0.2766	Good
67	3907	4.000	59.72	15.81	0.3776	Good
68	3908	3.480	55.34	16.34	0.3146	Good
69	3909	3.150	68.91	12.25	0.2659	Good
70	3910	1.770	61.38	14.60	0.1586	Good
71	3911	3.890	53.45	13.92	0.2894	Good
72	3912	3.860	61.02	16.01	0.3771	Good
73	3926	3.000	59.28	14.36	0.2553	Good
74	3927	2.930	63.12	15.72	0.2907	Good
75	3928	4.150	65.47	12.36	0.3357	Good
76	3929	4.350	64.92	13.40	0.3785	Good
77	3930	4.140	65.75	10.84	0.2952	Good
78	3931	3.750	53.22	15.05	0.3004	Good
79	3932	4.130	55.26	14.12	0.3221	Good
80	3938	4.020	60.15	9.74	0.2356	Good
81	3939	3.890	67.35	13.26	0.3474	Good
82	3940	3.770	62.03	14.72	0.3442	Good
83	3941	4.390	61.47	10.59	0.2858	Good
84	3942	3.510	60.91	11.76	0.2513	Good
85	3943	4.430	58.74	16.60	0.4319	Good
86	3950	4.090	50.61	16.97	0.3513	Good
87	3951	3.740	60.20	14.57	0.3280	Good
88	3952	3.590	68.82	6.93	0.1712	Inferior
89	3953	4.070	63.94	12.50	0.3252	Good
90	3954	4.220	64.80	12.04	0.3292	Good
91	3913	2.420	55.17	15.30	0.2042	Good
92	3914	3.350	66.17	12.41	0.2750	Good
93	3915	2.130	61.95	13.04	0.1721	Good
94	3916	4.180	60.38	16.64	0.4201	Good
95	3917	4.020	61.77	10.98	0.2726	Good
96	3918	6.320	59.45	15.17	0.5701	Good
97	3955	4.290	66.23	14.86	0.4221	Good
98	3956	4.180	59.24	14.89	0.3687	Good
99	3957	4.180	65.79	15.49	0.4259	Good
100	3958	4.240	64.22	11.91	0.3244	Good

DATE: 03.09.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 28/288**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2712	4.060	52.47	14.12	0.3008	Good
2	2713	4.340	57.76	15.43	0.3867	Good
3	2714	7.030	63.34	14.13	0.6292	Good
4	2715	3.820	61.15	11.74	0.2743	Good
5	2716	3.900	59.36	11.39	0.2636	Good
6	2717	4.020	64.85	12.09	0.3152	Good
7	2729	4.110	61.88	15.00	0.3814	Good
8	2730	6.950	62.46	11.96	0.5192	Good
9	2731	3.890	63.49	15.36	0.3793	Good
10	2732	4.260	61.67	12.28	0.3225	Good
11	2733	3.500	57.62	13.92	0.2807	Good
12	2734	4.000	54.10	15.32	0.3316	Good
13	2741	4.270	64.02	13.36	0.3651	Good
14	2742	4.240	57.30	17.12	0.4159	Good
15	2743	3.680	60.16	9.89	0.2190	Good
16	2744	3.960	56.60	10.41	0.2332	Good
17	2745	3.990	63.80	14.81	0.3771	Good
18	2746	3.970	58.89	13.84	0.3236	Good
19	2747	3.550	61.76	12.08	0.2648	Good
20	2748	3.730	48.80	9.71	0.1768	Good
21	2756	3.200	52.47	12.08	0.2029	Good
22	2757	3.790	62.01	15.16	0.3563	Good
23	2758	3.460	67.91	11.46	0.2692	Good
24	2759	4.020	68.39	12.15	0.3341	Good
25	2760	4.200	59.96	10.64	0.2680	Good
26	2767	4.060	72.26	9.26	0.2716	Good
27	2768	4.190	59.45	12.26	0.3055	Good
28	2769	4.100	62.55	10.79	0.2768	Good
29	2770	4.090	66.86	12.59	0.3444	Good
30	2771	4.170	52.27	14.00	0.3052	Good
31	2772	6.900	57.87	14.91	0.5955	Good
32	2779	4.190	63.46	12.67	0.3369	Good
33	2780	4.090	61.28	11.00	0.2757	Good
34	2781	6.880	57.93	9.01	0.3591	Good

35	2782	4.060	61.82	11.87	0.2980	Good
36	2783	4.070	64.84	11.49	0.3032	Good
37	2784	3.340	58.48	12.79	0.2498	Good
38	2793	3.890	65.17	11.16	0.2828	Good
39	2794	1.450	56.86	12.93	0.1066	Good
40	2795	7.070	51.99	10.93	0.4016	Good
41	2796	3.960	58.51	12.75	0.2954	Good
42	2797	3.810	53.69	13.69	0.2800	Good
43	2798	4.060	54.81	10.22	0.2274	Good
44	2799	3.700	54.65	13.25	0.2679	Good
45	2800	4.270	55.78	13.79	0.3284	Good
46	2706	3.700	52.14	11.81	0.2279	Good
47	2707	3.130	52.74	12.19	0.2013	Good
48	2708	4.040	56.51	13.06	0.2982	Good
49	2709	4.150	57.67	9.17	0.2195	Good
50	2710	3.670	52.51	10.36	0.1996	Good
51	2711	3.950	66.37	12.90	0.3381	Good
52	2723	4.140	63.22	14.85	0.3887	Good
53	2724	4.200	55.66	12.34	0.2885	Good
54	2725	4.260	70.94	12.46	0.3766	Good
55	2726	4.130	75.12	12.89	0.3998	Good
56	2727	6.740	59.38	11.60	0.4644	Good
57	2728	7.150	66.60	13.27	0.6321	Good
58	2735	3.370	63.92	13.45	0.2898	Good
59	2736	4.040	64.47	13.28	0.3458	Good
60	2737	4.150	65.38	13.66	0.3706	Good
61	2738	7.130	58.86	16.38	0.6873	Good
62	2739	3.530	58.38	12.30	0.2535	Good
63	2740	3.390	56.44	15.50	0.2966	Good
64	2749	4.090	56.30	14.25	0.3280	Good
65	2750	3.990	56.85	12.23	0.2773	Good
66	2751	3.200	55.84	13.18	0.2355	Good
67	2752	4.280	62.07	13.79	0.3664	Good
68	2753	3.950	55.57	9.75	0.2141	Good
69	2754	4.310	58.88	15.27	0.3875	Good
70	2755	6.980	55.30	13.96	0.5389	Good
71	2761	4.080	58.82	9.64	0.2313	Good
72	2762	4.170	61.52	12.73	0.3265	Good
73	2763	4.150	66.37	14.06	0.3872	Good
74	2764	3.840	67.14	13.35	0.3441	Good

75	2765	3.040	57.22	12.86	0.2237	Good
76	2766	4.150	70.89	14.83	0.4362	Good
77	2773	4.020	63.47	11.94	0.3047	Good
78	2774	3.870	57.44	13.74	0.3053	Good
79	2775	4.090	62.88	16.83	0.4327	Good
80	2776	6.720	56.22	14.64	0.5531	Good
81	2777	4.070	62.18	12.19	0.3085	Good
82	2778	4.100	70.47	11.92	0.3444	Good
83	2785	3.810	55.87	14.10	0.3002	Good
84	2786	3.260	60.37	12.34	0.2429	Good
85	2787	3.600	59.50	11.51	0.2466	Good
86	2788	7.320	64.04	12.10	0.5673	Good
87	2789	4.240	56.54	13.05	0.3129	Good
88	2790	3.460	51.48	11.95	0.2128	Good
89	2791	6.590	67.48	11.47	0.5101	Good
90	2792	4.050	65.83	11.23	0.2993	Good
91	2701	3.090	51.77	11.09	0.1774	Good
92	2702	3.060	58.84	12.27	0.2209	Good
93	2703	3.610	52.66	12.06	0.2292	Good
94	2704	3.860	55.95	10.83	0.2339	Good
95	2705	3.650	57.54	13.56	0.2847	Good
96	2718	4.120	58.40	16.97	0.4083	Good
97	2719	3.850	58.08	14.84	0.3319	Good
98	2720	4.230	67.88	15.94	0.4577	Good
99	2721	3.510	68.91	9.03	0.2183	Good
100	2722	6.750	52.21	11.65	0.4104	Good

DATE: 31.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 33/331**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3201	3.630	69.33	12.82	0.3227	Good
2	3202	4.040	56.90	12.57	0.2889	Good
3	3203	3.690	49.06	14.96	0.2708	Good
4	3204	4.050	50.88	15.41	0.3175	Good
5	3205	4.160	53.00	12.64	0.2787	Good
6	3206	3.850	60.52	13.07	0.3045	Good
7	3219	3.690	55.69	12.98	0.2668	Good
8	3220	3.210	60.57	11.69	0.2273	Good
9	3221	4.120	55.42	11.26	0.2571	Good
10	3222	2.740	59.38	12.65	0.2058	Good
11	3223	2.820	69.32	10.13	0.1980	Good
12	3224	3.590	53.77	12.01	0.2319	Good
13	3225	3.950	62.24	10.76	0.2647	Good
14	3237	3.920	56.22	11.22	0.2474	Good
15	3238	3.340	48.26	11.58	0.1867	Good
16	3239	4.010	52.65	14.95	0.3156	Good
17	3240	3.810	64.96	12.93	0.3200	Good
18	3241	3.960	60.64	11.79	0.2831	Good
19	3242	4.060	64.88	8.20	0.2160	Inferior
20	3249	3.660	57.10	12.70	0.2654	Good
21	3250	3.890	56.83	10.96	0.2423	Good
22	3251	4.250	50.50	16.57	0.3557	Good
23	3252	4.190	60.97	13.29	0.3394	Good
24	3253	8.760	52.60	12.64	0.5825	Good
25	3254	6.710	55.94	11.17	0.4194	Good
26	3255	3.980	65.26	7.06	0.1835	Inferior
27	3263	3.930	53.97	13.62	0.2889	Good
28	3264	3.990	55.31	11.99	0.2645	Good
29	3265	3.240	55.88	13.12	0.2375	Good
30	3266	4.140	46.15	14.93	0.2852	Good
31	3267	4.120	62.58	10.71	0.2760	Good
32	3268	3.730	48.72	14.37	0.2611	Good
33	3269	3.170	62.14	12.55	0.2473	Good
34	3270	3.880	66.09	9.35	0.2398	Good

35	3279	3.990	70.17	11.06	0.3096	Good
36	3280	3.840	60.57	11.67	0.2715	Good
37	3281	3.550	68.51	12.17	0.2961	Good
38	3282	3.870	60.72	12.76	0.2999	Good
39	3283	4.100	66.87	9.36	0.2567	Good
40	3289	3.720	59.32	12.42	0.2742	Good
41	3290	3.980	54.66	12.70	0.2762	Good
42	3291	7.070	58.06	10.49	0.4306	Good
43	3292	6.350	53.58	12.73	0.4331	Good
44	3293	4.030	68.19	13.52	0.3716	Good
45	3294	1.150	45.42	14.99	0.0783	Good
46	3207	3.970	60.25	11.62	0.2779	Good
47	3208	3.810	52.27	15.15	0.3018	Good
48	3209	7.280	67.21	11.81	0.5780	Good
49	3210	3.580	56.20	6.23	0.1253	Inferior
50	3211	3.850	60.32	10.64	0.2472	Good
51	3212	3.830	61.05	14.25	0.3332	Good
52	3226	4.000	65.83	7.23	0.1904	Inferior
53	3227	3.880	68.24	12.62	0.3341	Good
54	3228	3.890	57.39	11.05	0.2466	Good
55	3229	3.620	51.71	10.29	0.1926	Good
56	3230	4.120	60.80	10.03	0.2513	Good
57	3231	3.210	61.69	14.70	0.2911	Good
58	3232	3.940	59.45	13.25	0.3105	Good
59	3243	3.280	70.05	13.19	0.3031	Good
60	3244	3.360	57.67	9.49	0.1838	Good
61	3245	3.810	57.07	9.16	0.1993	Good
62	3246	3.640	54.78	9.84	0.1962	Good
63	3247	6.700	65.13	10.35	0.4516	Good
64	3248	4.070	50.23	15.13	0.3093	Good
65	3256	3.810	56.75	13.43	0.2903	Good
66	3257	4.070	57.14	11.18	0.2601	Good
67	3258	4.040	54.56	17.19	0.3790	Good
68	3259	4.100	62.11	7.92	0.2017	Inferior
69	3260	6.680	59.52	8.32	0.3307	Inferior
70	3261	8.410	54.45	15.39	0.7048	Good
71	3262	4.010	60.68	12.56	0.3056	Good
72	3271	3.870	49.26	14.62	0.2786	Good
73	3272	3.850	57.90	12.61	0.2811	Good
74	3273	6.920	64.33	10.60	0.4719	Good

75	3274	4.110	51.84	10.03	0.2137	Good
76	3275	3.880	64.13	11.02	0.2743	Good
77	3276	3.590	54.78	10.79	0.2122	Good
78	3277	6.830	60.54	10.75	0.4446	Good
79	3278	6.760	64.58	10.61	0.4631	Good
80	3284	3.700	56.63	10.60	0.2220	Good
81	3285	3.760	54.16	12.76	0.2598	Good
82	3286	3.970	62.15	10.33	0.2549	Good
83	3287	3.930	59.01	10.78	0.2499	Good
84	3288	4.010	60.44	12.41	0.3008	Good
85	3295	4.230	58.30	11.48	0.2830	Good
86	3296	6.200	61.01	12.85	0.4861	Good
87	3297	3.990	66.38	10.68	0.2829	Good
88	3298	3.240	66.48	10.91	0.2349	Good
89	3299	3.920	71.95	11.19	0.3156	Good
90	3300	4.210	59.79	11.54	0.2905	Good
91	3213	3.720	69.17	13.05	0.3359	Good
92	3214	3.790	68.76	13.60	0.3544	Good
93	3215	2.520	49.49	12.59	0.1570	Good
94	3216	2.840	56.06	12.02	0.1914	Good
95	3217	2.800	63.11	11.27	0.1991	Good
96	3218	3.880	61.98	13.21	0.3178	Good
97	3233	3.120	52.11	13.16	0.2140	Good
98	3234	3.720	62.52	10.88	0.2530	Good
99	3235	3.820	55.18	11.56	0.2437	Good
100	3236	3.770	57.32	10.31	0.2228	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 32/330**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3106	4.100	63.12	13.42	0.3473	Good
2	3107	4.200	58.94	14.27	0.3532	Good
3	3108	4.170	58.79	8.44	0.2068	Inferior
4	3109	3.960	61.62	11.13	0.2717	Good
5	3110	4.260	57.12	9.89	0.2407	Good
6	3111	3.730	60.32	10.06	0.2264	Good
7	3131	4.070	56.27	10.02	0.2295	Good
8	3132	4.290	60.37	10.00	0.2591	Good
9	3133	6.870	61.45	13.64	0.5757	Good
10	3134	6.720	62.24	11.66	0.4879	Good
11	3135	4.020	60.01	9.87	0.2380	Good

12	3136	3.180	62.83	13.08	0.2614	Good
13	3137	3.360	53.68	13.82	0.2493	Good
14	3144	4.320	60.44	10.70	0.2795	Good
15	3145	3.490	63.79	10.00	0.2227	Good
16	3146	4.060	56.09	11.07	0.2521	Good
17	3147	4.020	62.65	12.67	0.3192	Good
18	3148	4.020	59.34	11.46	0.2734	Good
19	3149	3.250	61.12	12.57	0.2496	Good
20	3150	3.950	59.12	10.05	0.2346	Good
21	3157	3.240	57.53	10.71	0.1996	Good
22	3158	4.070	61.82	8.31	0.2092	Inferior
23	3159	4.010	54.51	12.77	0.2791	Good
24	3160	6.660	57.78	12.74	0.4902	Good
25	3161	4.220	62.45	9.75	0.2570	Good
26	3162	4.070	57.55	10.50	0.2458	Good
27	3168	4.120	60.07	11.29	0.2793	Good
28	3169	4.130	56.61	10.21	0.2387	Good
29	3170	3.340	60.40	12.05	0.2432	Good
30	3171	4.200	58.47	11.90	0.2923	Good
31	3178	4.040	61.43	9.80	0.2432	Good
32	3179	4.380	55.51	11.89	0.2891	Good
33	3180	1.890	57.80	10.71	0.1170	Good
34	3181	4.240	56.35	11.57	0.2764	Good
35	3182	3.570	55.09	9.91	0.1949	Good
36	3183	3.900	59.46	10.09	0.2340	Good
37	3184	3.650	62.99	14.00	0.3219	Good
38	3193	4.040	55.08	10.46	0.2327	Good
39	3194	3.850	60.64	13.34	0.3115	Good
40	3195	4.120	54.24	11.98	0.2678	Good
41	3196	3.780	54.05	9.99	0.2041	Good
42	3197	3.320	61.32	9.69	0.1972	Good
43	3198	4.040	56.95	12.01	0.2763	Good
44	3199	7.820	69.12	13.12	0.7093	Good
45	3200	3.790	50.54	10.55	0.2020	Good
46	3112	4.010	60.64	10.60	0.2578	Good
47	3113	4.030	53.43	14.64	0.3151	Good
48	3114	4.140	61.39	10.83	0.2753	Good
49	3115	3.870	54.60	11.87	0.2508	Good
50	3116	3.900	59.54	9.74	0.2262	Good
51	3117	4.330	55.83	10.73	0.2594	Good

52	3123	4.210	61.40	9.10	0.2353	Good
53	3124	3.950	57.76	12.26	0.2797	Good
54	3125	3.620	56.56	12.38	0.2534	Good
55	3126	4.380	58.98	11.53	0.2978	Good
56	3127	6.460	64.61	7.75	0.3236	Inferior
57	3128	3.220	56.02	14.00	0.2524	Good
58	3129	4.090	57.28	14.66	0.3436	Good
59	3130	7.220	54.86	14.49	0.5740	Good
60	3138	3.810	61.09	9.71	0.2259	Good
61	3139	2.370	56.61	10.97	0.1472	Good
62	3140	4.090	56.83	11.60	0.2695	Good
63	3141	6.380	57.93	11.07	0.4090	Good
64	3142	4.250	56.21	13.25	0.3166	Good
65	3143	4.110	65.75	8.32	0.2248	Inferior
66	3151	4.220	53.85	15.75	0.3579	Good
67	3152	3.580	59.91	10.32	0.2212	Good
68	3153	4.160	58.08	12.64	0.3053	Good
69	3154	4.140	56.40	11.63	0.2716	Good
70	3155	4.300	52.37	11.44	0.2576	Good
71	3156	4.170	53.53	14.33	0.3198	Good
72	3163	3.990	58.58	13.20	0.3084	Good
73	3164	4.140	57.04	11.80	0.2786	Good
74	3165	4.260	56.04	13.54	0.3233	Good
75	3166	3.890	53.65	12.06	0.2517	Good
76	3167	4.080	58.16	11.42	0.2709	Good
77	3172	4.150	51.89	11.56	0.2490	Good
78	3173	4.310	53.81	12.49	0.2896	Good
79	3174	3.250	59.90	12.52	0.2438	Good
80	3175	4.340	52.55	12.03	0.2743	Good
81	3176	4.200	59.84	14.39	0.3616	Good
82	3177	4.190	56.98	13.27	0.3168	Good
83	3185	4.150	58.49	14.65	0.3557	Good
84	3186	2.470	62.75	12.10	0.1875	Good
85	3187	6.850	61.06	12.68	0.5302	Good
86	3188	4.020	55.65	12.97	0.2902	Good
87	3189	4.000	55.21	14.82	0.3272	Good
88	3190	3.080	57.81	15.57	0.2772	Good
89	3191	3.500	60.87	10.00	0.2132	Good
90	3192	2.150	54.85	15.86	0.1871	Good
91	3118	4.100	59.67	7.46	0.1825	Inferior



92	3119	2.020	58.63	11.91	0.1410	Good
93	3120	3.920	57.60	15.12	0.3414	Good
94	3121	4.030	52.31	14.64	0.3087	Good
95	3122	3.320	59.32	11.06	0.2178	Good
96	3101	4.200	54.58	11.51	0.2638	Good
97	3102	4.400	52.34	11.64	0.2680	Good
98	3103	4.000	56.75	11.38	0.2584	Good
99	3104	4.440	58.54	11.21	0.2913	Good
100	3105	4.060	62.82	13.63	0.3475	Good

DATE: 30.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 18/182**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1734	3.960	56.61	10.37	0.2325	Good
2	1735	4.180	61.04	10.76	0.2746	Good
3	1736	3.690	57.44	10.52	0.2229	Good
4	1737	4.210	57.84	11.64	0.2833	Good
5	1738	3.930	55.50	11.41	0.2488	Good
6	1739	4.230	63.36	9.80	0.2627	Good
7	1740	4.220	54.54	12.61	0.2903	Good
8	1748	4.050	55.95	11.92	0.2701	Good
9	1749	4.210	58.25	12.19	0.2989	Good
10	1750	3.920	62.94	11.42	0.2818	Good
11	1751	4.130	53.21	10.64	0.2338	Good
12	1752	3.930	58.70	10.10	0.2330	Good
13	1753	6.840	61.59	11.87	0.5000	Good
14	1754	6.870	56.96	9.99	0.3909	Good
15	1755	4.140	58.05	8.22	0.1975	Inferior
16	1764	4.180	58.60	11.45	0.2805	Good
17	1765	3.680	55.01	15.09	0.3054	Good
18	1766	3.720	57.01	8.82	0.1871	Inferior
19	1767	7.080	53.59	7.76	0.2945	Inferior
20	1768	3.820	54.91	13.00	0.2727	Good
21	1701	4.180	58.93	11.45	0.2822	Good
22	1702	4.250	58.62	12.11	0.3018	Good
23	1703	4.090	56.15	9.99	0.2294	Good
24	1704	4.380	57.41	13.22	0.3324	Good
25	1705	3.940	54.71	10.07	0.2171	Good
26	1706	4.070	56.69	9.58	0.2210	Good
27	1707	4.210	63.10	9.65	0.2564	Good
28	1769	3.990	54.69	8.48	0.1851	Inferior
29	1770	3.960	57.30	10.05	0.2281	Good
30	1771	4.160	60.48	7.18	0.1805	Inferior
31	1772	3.730	56.49	10.29	0.2167	Good
32	1773	4.060	54.71	10.60	0.2355	Good
33	1774	4.290	56.93	14.11	0.3445	Good
34	1775	4.320	60.89	9.00	0.2367	Good

35	1792	4.140	56.53	12.67	0.2964	Good
36	1793	3.640	65.12	15.25	0.3615	Good
37	1794	4.190	60.58	11.03	0.2799	Good
38	1795	3.910	58.21	12.06	0.2745	Good
39	1708	4.130	56.99	9.41	0.2214	Good
40	1709	3.310	55.51	9.89	0.1817	Good
41	1710	4.160	55.39	11.46	0.2642	Good
42	1711	6.650	52.79	14.74	0.5174	Good
43	1712	4.170	54.70	10.37	0.2364	Good
44	1713	4.240	57.40	9.22	0.2243	Good
45	1714	6.770	59.64	12.71	0.5132	Good
46	1741	4.130	53.64	10.68	0.2366	Good
47	1742	4.160	60.79	12.47	0.3153	Good
48	1743	7.190	59.48	10.61	0.4537	Good
49	1744	6.730	56.05	12.93	0.4879	Good
50	1745	3.990	58.77	10.45	0.2450	Good
51	1746	3.930	53.32	9.02	0.1890	Good
52	1747	7.110	57.72	10.34	0.4245	Good
53	1756	6.750	58.63	9.98	0.3949	Good
54	1757	3.930	52.55	10.60	0.2189	Good
55	1758	6.790	55.53	12.16	0.4583	Good
56	1759	3.960	53.88	11.28	0.2408	Good
57	1760	4.150	56.83	7.76	0.1830	Inferior
58	1761	7.110	58.18	14.15	0.5852	Good
59	1762	4.130	57.42	12.78	0.3031	Good
60	1763	6.450	57.96	13.27	0.4960	Good
61	1782	4.290	61.37	10.93	0.2879	Good
62	1783	4.150	57.16	11.74	0.2785	Good
63	1784	4.180	59.44	9.61	0.2387	Good
64	1785	4.120	59.47	9.43	0.2311	Good
65	1786	3.970	64.52	8.08	0.2068	Inferior
66	1715	4.160	56.06	10.60	0.2471	Good
67	1716	3.960	62.41	9.20	0.2273	Good
68	1717	4.010	58.80	9.46	0.2230	Good
69	1718	3.730	60.71	9.60	0.2175	Good
70	1719	4.050	55.70	9.98	0.2252	Good
71	1720	4.080	60.58	9.33	0.2305	Good
72	1721	4.280	61.97	7.94	0.2106	Inferior
73	1776	4.390	61.21	9.90	0.2660	Good
74	1777	4.340	52.01	13.48	0.3042	Good

75	1778	3.780	55.76	9.65	0.2034	Good
76	1779	4.190	50.46	13.32	0.2816	Good
77	1780	4.220	57.97	11.13	0.2722	Good
78	1781	4.150	59.48	10.15	0.2507	Good
79	1796	4.070	57.04	11.12	0.2580	Good
80	1797	4.180	50.84	13.49	0.2867	Good
81	1798	6.850	61.63	9.61	0.4055	Good
82	1799	4.180	57.65	9.42	0.2270	Good
83	1800	4.300	58.51	9.04	0.2275	Good
84	1722	3.800	52.86	9.82	0.1972	Good
85	1723	4.230	59.22	7.63	0.1912	Inferior
86	1724	4.030	62.48	12.42	0.3127	Good
87	1725	4.030	57.87	12.30	0.2869	Good
88	1726	4.260	60.42	9.93	0.2556	Good
89	1727	4.190	63.28	10.11	0.2682	Good
90	1728	4.130	57.12	10.05	0.2371	Good
91	1787	4.310	61.99	7.94	0.2121	Inferior
92	1788	3.950	59.46	13.00	0.3053	Good
93	1789	4.350	53.60	11.31	0.2636	Good
94	1790	4.110	53.83	10.96	0.2425	Good
95	1791	4.030	54.70	10.15	0.2237	Good
96	1729	3.760	63.18	7.61	0.1809	Inferior
97	1730	4.310	62.73	10.17	0.2750	Good
98	1731	3.990	54.67	12.37	0.2697	Good
99	1732	4.110	60.65	9.23	0.2302	Good
100	1733	4.260	58.84	12.63	0.3165	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 35/356**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3432	4.040	53.02	9.94	0.2129	Good
2	3433	4.170	55.29	11.61	0.2677	Good
3	3434	2.540	61.95	13.54	0.2131	Good
4	3435	4.040	57.92	12.48	0.2921	Good
5	3436	4.240	58.56	11.82	0.2934	Good
6	3437	2.460	62.56	13.70	0.2108	Good
7	3438	7.170	58.24	10.92	0.4560	Good
8	3446	3.970	60.76	10.78	0.2600	Good
9	3447	3.690	60.94	11.11	0.2498	Good
10	3448	4.110	59.84	10.81	0.2659	Good
11	3449	3.430	54.35	13.19	0.2459	Good

12	3450	0.680	54.06	13.37	0.0492	Good
13	3451	3.090	54.54	11.99	0.2021	Good
14	3452	3.290	65.27	11.02	0.2366	Good
15	3477	4.320	66.92	11.75	0.3396	Good
16	3478	3.890	59.24	10.25	0.2361	Good
17	3479	6.770	63.31	10.54	0.4516	Good
18	3480	6.880	63.55	11.50	0.5029	Good
19	3481	6.840	63.69	10.80	0.4706	Good
20	3482	3.930	59.86	10.71	0.2519	Good
21	3401	2.410	61.89	10.68	0.1593	Good
22	3402	1.040	49.19	13.03	0.0667	Good
23	3403	2.920	55.33	10.75	0.1737	Good
24	3404	3.410	63.06	10.77	0.2315	Good
25	3405	4.320	59.35	11.44	0.2933	Good
26	3406	4.190	65.02	12.77	0.3478	Good
27	3407	3.490	62.99	9.06	0.1993	Good
28	3460	3.720	71.20	10.90	0.2887	Good
29	3461	3.450	57.72	12.79	0.2546	Good
30	3462	3.170	63.40	10.88	0.2187	Good
31	3463	2.980	53.45	10.42	0.1660	Good
32	3464	3.730	61.71	10.55	0.2428	Good
33	3465	3.200	56.72	9.94	0.1805	Good
34	3483	4.030	61.57	11.53	0.2861	Good
35	3484	3.510	57.65	10.27	0.2078	Good
36	3485	4.160	51.51	11.67	0.2500	Good
37	3486	3.460	70.84	6.54	0.1602	Inferior
38	3487	7.770	60.06	11.66	0.5439	Good
39	3488	4.110	55.59	10.34	0.2363	Good
40	3408	4.250	61.02	12.06	0.3128	Good
41	3409	4.200	55.21	12.23	0.2835	Good
42	3410	3.460	63.00	12.32	0.2685	Good
43	3411	4.020	59.40	10.32	0.2464	Good
44	3412	4.210	63.58	12.72	0.3406	Good
45	3413	4.140	55.53	12.57	0.2890	Good
46	3439	3.840	55.71	11.92	0.2550	Good
47	3440	7.140	63.75	12.77	0.5812	Good
48	3441	4.150	60.74	13.22	0.3332	Good
49	3442	4.260	55.75	11.19	0.2658	Good
50	3443	4.080	58.18	12.48	0.2962	Good
51	3444	4.030	58.11	12.61	0.2954	Good

52	3445	4.090	60.63	11.58	0.2871	Good
53	3453	3.650	62.78	10.90	0.2497	Good
54	3454	3.670	61.33	12.78	0.2877	Good
55	3455	5.850	66.87	11.74	0.4592	Good
56	3456	3.660	62.44	12.27	0.2804	Good
57	3457	3.150	62.98	13.66	0.2709	Good
58	3458	3.780	58.24	11.78	0.2593	Good
59	3459	3.180	61.52	13.25	0.2592	Good
60	3489	3.900	54.00	11.00	0.2317	Good
61	3490	4.250	56.97	10.04	0.2431	Good
62	3491	3.790	54.68	10.50	0.2175	Good
63	3492	3.290	58.46	11.82	0.2273	Good
64	3493	4.450	60.59	9.97	0.2688	Good
65	3494	3.790	51.49	11.56	0.2255	Good
66	3414	4.160	57.49	10.66	0.2550	Good
67	3415	4.200	61.80	13.12	0.3406	Good
68	3416	4.290	65.98	13.03	0.3689	Good
69	3417	4.180	58.09	12.65	0.3072	Good
70	3418	3.160	61.63	12.41	0.2417	Good
71	3419	4.310	60.80	13.50	0.3539	Good
72	3420	4.220	53.09	10.98	0.2460	Good
73	3466	3.040	57.30	12.18	0.2122	Good
74	3467	3.650	55.10	11.89	0.2391	Good
75	3468	3.750	67.03	11.04	0.2775	Good
76	3469	3.580	61.25	11.85	0.2599	Good
77	3470	3.910	59.98	10.82	0.2538	Good
78	3471	3.940	61.96	12.54	0.3061	Good
79	3495	4.200	66.65	8.37	0.2344	Inferior
80	3496	4.120	54.72	12.76	0.2876	Good
81	3497	4.200	63.65	9.88	0.2642	Good
82	3498	3.920	49.98	13.21	0.2587	Good
83	3499	4.100	46.89	13.27	0.2550	Good
84	3500	4.170	61.22	11.73	0.2994	Good
85	3421	4.190	61.38	12.77	0.3285	Good
86	3422	3.540	63.92	12.55	0.2839	Good
87	3423	4.100	59.34	13.21	0.3214	Good
88	3424	4.300	66.77	13.69	0.3930	Good
89	3425	4.240	61.68	11.64	0.3044	Good
90	3426	3.510	55.99	11.86	0.2331	Good
91	3472	4.040	59.31	11.41	0.2735	Good

92	3473	7.140	69.93	12.31	0.6148	Good
93	3474	4.440	68.00	10.72	0.3237	Good
94	3475	3.880	59.62	10.53	0.2437	Good
95	3476	4.210	68.08	10.61	0.3040	Good
96	3427	3.920	61.79	11.67	0.2826	Good
97	3428	4.090	59.76	10.19	0.2491	Good
98	3429	4.160	61.32	10.81	0.2758	Good
99	3430	4.260	53.57	12.32	0.2812	Good
100	3431	7.250	63.36	11.24	0.5162	Good

DATE: 29.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 27/287**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2637	3.990	58.34	11.00	0.2562	Good
2	2638	3.830	62.65	12.11	0.2907	Good
3	2639	4.150	64.68	9.71	0.2606	Good
4	2640	4.140	63.31	12.35	0.3237	Good
5	2641	4.160	59.92	9.41	0.2346	Good
6	2642	3.180	63.22	11.45	0.2302	Good
7	2643	3.780	51.67	9.37	0.1830	Good
8	2644	4.060	56.47	12.84	0.2944	Good
9	2681	3.840	62.19	10.45	0.2496	Good
10	2682	3.100	63.92	11.05	0.2189	Good
11	2683	3.890	61.58	8.38	0.2007	Inferior
12	2684	3.310	61.84	11.69	0.2393	Good
13	2685	3.020	62.95	9.42	0.1791	Good
14	2686	3.800	56.66	12.35	0.2660	Good
15	2601	3.840	68.73	8.12	0.2143	Inferior
16	2602	3.800	65.12	11.36	0.2812	Good
17	2603	4.010	62.82	7.78	0.1961	Inferior
18	2604	2.740	63.63	10.89	0.1899	Good
19	2605	4.300	66.12	9.07	0.2580	Good
20	2606	4.080	58.32	11.88	0.2827	Good
21	2645	3.860	62.73	9.96	0.2413	Good
22	2646	4.130	62.88	11.91	0.3093	Good
23	2647	6.850	49.01	11.43	0.3836	Good
24	2648	4.100	61.36	11.26	0.2833	Good
25	2649	4.360	60.91	10.44	0.2773	Good
26	2650	4.170	60.20	13.87	0.3482	Good
27	2687	3.870	59.00	9.76	0.2229	Good
28	2688	2.930	61.02	12.62	0.2256	Good
29	2689	2.770	55.08	10.31	0.1573	Good
30	2690	3.660	63.28	12.83	0.2972	Good
31	2607	4.170	58.59	10.86	0.2652	Good
32	2608	3.930	58.76	11.49	0.2653	Good
33	2609	3.890	59.61	8.39	0.1945	Inferior
34	2610	3.710	64.54	11.39	0.2727	Good



35	2611	1.390	61.50	9.64	0.0824	Good
36	2612	3.740	61.48	11.24	0.2584	Good
37	2651	4.370	63.94	10.49	0.2932	Good
38	2652	4.060	62.19	11.75	0.2968	Good
39	2653	3.580	62.12	9.59	0.2134	Good
40	2654	4.160	65.23	11.22	0.3045	Good
41	2655	4.460	67.46	9.26	0.2788	Good
42	2656	4.060	65.45	10.86	0.2887	Good
43	2657	4.330	60.81	9.97	0.2624	Good
44	2658	3.940	59.93	13.28	0.3136	Good
45	2659	4.180	63.59	9.78	0.2600	Good
46	2613	4.240	61.40	10.96	0.2854	Good
47	2614	2.110	58.87	10.29	0.1279	Good
48	2615	4.730	61.11	12.26	0.3543	Good
49	2616	4.300	63.64	10.43	0.2855	Good
50	2617	3.980	62.20	12.17	0.3013	Good
51	2618	7.090	65.32	10.00	0.4630	Good
52	2660	4.050	64.80	12.11	0.3179	Good
53	2661	4.170	61.61	9.67	0.2485	Good
54	2662	4.030	65.64	10.89	0.2881	Good
55	2663	4.130	61.44	10.12	0.2569	Good
56	2664	4.510	58.93	11.44	0.3040	Good
57	2665	7.000	62.11	9.29	0.4039	Good
58	2666	4.200	66.19	11.32	0.3146	Good
59	2667	7.170	61.44	9.68	0.4266	Good
60	2668	4.110	63.65	10.60	0.2774	Good
61	2669	3.940	61.08	10.10	0.2431	Good
62	2691	3.400	62.88	12.82	0.2740	Good
63	2692	4.040	54.96	9.48	0.2105	Good
64	2693	3.860	61.69	11.62	0.2768	Good
65	2694	6.470	58.68	10.26	0.3895	Good
66	2619	3.980	63.03	11.07	0.2778	Good
67	2620	6.300	61.69	8.49	0.3301	Inferior
68	2621	4.160	57.53	11.79	0.2820	Good
69	2622	4.010	58.76	9.97	0.2350	Good
70	2623	4.180	61.03	13.52	0.3449	Good
71	2624	2.100	61.60	11.46	0.1483	Good
72	2670	3.620	63.30	10.92	0.2501	Good
73	2671	4.370	65.28	9.56	0.2727	Good
74	2672	4.090	61.45	11.33	0.2847	Good

75	2673	3.960	56.07	9.95	0.2210	Good
76	2674	8.070	60.45	13.42	0.6545	Good
77	2675	4.160	61.21	12.87	0.3278	Good
78	2695	3.280	58.26	11.83	0.2260	Good
79	2696	2.980	55.84	12.21	0.2032	Good
80	2697	3.570	58.54	9.87	0.2063	Good
81	2698	3.220	67.85	9.93	0.2170	Good
82	2699	3.910	65.20	10.40	0.2651	Good
83	2700	3.300	64.98	11.63	0.2495	Good
84	2625	3.490	59.71	7.97	0.1661	Inferior
85	2626	4.190	64.29	10.16	0.2736	Good
86	2627	4.030	64.03	10.79	0.2785	Good
87	2628	3.850	61.64	8.31	0.1971	Inferior
88	2629	4.040	64.85	12.21	0.3200	Good
89	2630	3.860	63.37	9.09	0.2223	Good
90	2631	4.050	69.14	11.79	0.3301	Good
91	2676	3.840	62.69	9.33	0.2246	Good
92	2677	6.330	59.57	11.15	0.4203	Good
93	2678	3.310	63.19	8.34	0.1744	Inferior
94	2679	3.030	62.01	11.58	0.2176	Good
95	2680	3.200	64.56	8.43	0.1741	Inferior
96	2632	3.890	55.83	13.24	0.2875	Good
97	2633	3.940	59.70	8.14	0.1915	Inferior
98	2634	3.840	61.90	11.10	0.2638	Good
99	2635	4.130	64.81	8.33	0.2230	Inferior
100	2636	3.980	60.18	11.18	0.2679	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 38/359**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3737	3.230	63.06	11.73	0.2390	Good
2	3738	4.090	65.83	10.68	0.2875	Good
3	3739	3.550	64.86	10.47	0.2410	Good
4	3740	3.580	61.22	9.28	0.2033	Good
5	3741	3.660	64.22	12.44	0.2924	Good
6	3742	2.850	62.34	9.05	0.1607	Good
7	3776	3.580	61.70	10.94	0.2417	Good
8	3777	6.760	67.06	9.53	0.4320	Good
9	3778	3.920	63.40	11.29	0.2807	Good
10	3779	3.610	58.25	9.73	0.2047	Good
11	3780	7.050	57.21	13.04	0.5259	Good

12	3781	3.050	54.18	13.12	0.2169	Good
13	3701	4.250	61.40	11.17	0.2916	Good
14	3702	4.110	56.75	9.83	0.2293	Good
15	3703	3.840	63.10	11.05	0.2676	Good
16	3704	3.980	49.73	11.08	0.2193	Good
17	3705	4.220	59.07	11.92	0.2971	Good
18	3706	4.040	57.73	11.16	0.2602	Good
19	3743	2.430	60.30	12.45	0.1825	Good
20	3744	3.800	61.03	10.32	0.2394	Good
21	3745	3.410	62.29	11.03	0.2343	Good
22	3746	3.210	54.84	9.50	0.1672	Good
23	3747	6.430	66.02	11.03	0.4681	Good
24	3748	1.250	69.03	10.72	0.0925	Good
25	3749	3.000	66.67	10.36	0.2073	Good
26	3750	3.130	66.46	10.56	0.2197	Good
27	3782	3.490	52.71	13.85	0.2548	Good
28	3783	3.730	63.74	9.81	0.2331	Good
29	3784	3.620	65.58	9.52	0.2259	Good
30	3785	4.000	63.00	10.19	0.2568	Good
31	3786	3.840	56.04	10.80	0.2323	Good
32	3787	3.790	62.69	10.22	0.2429	Good
33	3707	4.020	62.61	9.39	0.2364	Good
34	3708	4.220	55.09	9.93	0.2308	Good
35	3709	3.420	61.33	10.22	0.2144	Good
36	3710	3.830	65.67	9.21	0.2317	Good
37	3711	3.770	57.29	12.71	0.2745	Good
38	3712	3.930	61.54	10.04	0.2429	Good
39	3751	3.460	64.12	11.42	0.2533	Good
40	3752	3.970	57.78	9.55	0.2191	Good
41	3753	3.600	62.10	9.87	0.2207	Good
42	3754	3.560	58.02	9.62	0.1986	Good
43	3755	2.500	58.98	10.80	0.1593	Good
44	3756	4.100	61.47	9.19	0.2317	Good
45	3757	3.970	58.22	10.86	0.2509	Good
46	3713	4.000	55.36	10.40	0.2304	Good
47	3714	3.990	55.79	10.66	0.2374	Good
48	3715	3.800	53.13	10.58	0.2136	Good
49	3716	2.080	68.66	10.63	0.1518	Good
50	3717	0.430	61.38	11.19	0.0295	Good
51	3718	4.060	63.41	10.33	0.2659	Good

52	3758	3.850	63.12	10.38	0.2522	Good
53	3759	3.450	59.51	9.83	0.2018	Good
54	3760	4.210	60.18	10.80	0.2737	Good
55	3761	3.910	60.88	10.92	0.2600	Good
56	3762	3.920	56.80	10.02	0.2230	Good
57	3763	4.160	66.28	10.09	0.2783	Good
58	3788	3.920	61.40	9.32	0.2242	Good
59	3789	3.760	62.55	9.94	0.2339	Good
60	3790	4.460	59.63	9.54	0.2538	Good
61	3791	3.030	60.55	10.01	0.1836	Good
62	3792	6.790	60.17	11.77	0.4807	Good
63	3793	3.790	55.63	12.15	0.2562	Good
64	3794	3.930	58.38	9.58	0.2197	Good
65	3719	3.890	52.60	13.38	0.2739	Good
66	3720	4.110	64.25	9.84	0.2598	Good
67	3721	2.300	62.48	12.23	0.1757	Good
68	3722	3.990	61.18	9.53	0.2326	Good
69	3723	4.100	56.42	11.98	0.2772	Good
70	3724	4.080	59.72	9.49	0.2313	Good
71	3764	4.130	65.11	10.86	0.2920	Good
72	3765	3.820	60.13	9.50	0.2181	Good
73	3766	1.370	69.62	10.80	0.1030	Good
74	3767	3.790	55.03	10.25	0.2138	Good
75	3768	3.990	64.97	9.14	0.2370	Good
76	3769	3.680	52.36	12.22	0.2355	Good
77	3770	2.220	61.36	11.23	0.1530	Good
78	3795	3.630	58.02	9.32	0.1964	Good
79	3796	4.070	55.10	11.02	0.2470	Good
80	3797	3.780	60.71	9.45	0.2170	Good
81	3798	2.930	57.36	11.28	0.1896	Good
82	3799	3.270	55.71	10.43	0.1900	Good
83	3800	3.270	65.39	10.22	0.2184	Good
84	3725	3.940	53.22	9.56	0.2005	Good
85	3726	3.980	63.26	9.91	0.2495	Good
86	3727	7.830	63.50	12.85	0.6389	Good
87	3728	6.590	63.73	10.36	0.4349	Good
88	3729	3.560	66.17	10.17	0.2396	Good
89	3730	3.720	63.94	11.24	0.2675	Good
90	3731	3.560	65.44	12.13	0.2827	Good
91	3732	3.730	68.24	9.94	0.2529	Good

92	3733	2.470	58.82	10.06	0.1462	Good
93	3734	3.610	63.35	11.57	0.2646	Good
94	3735	4.200	67.15	10.28	0.2898	Good
95	3736	2.870	56.14	10.87	0.1751	Good
96	3771	3.960	63.61	10.28	0.2590	Good
97	3772	3.970	61.15	10.89	0.2644	Good
98	3773	3.730	53.73	9.40	0.1884	Good
99	3774	3.540	55.47	10.56	0.2074	Good
100	3775	4.060	61.46	9.49	0.2367	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 43/422**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4237	7.390	63.73	11.53	0.5432	Good
2	4238	3.790	64.95	10.69	0.2630	Good
3	4239	4.160	64.98	7.34	0.1984	Inferior
4	4240	3.760	63.06	11.02	0.2613	Good
5	4241	3.750	57.85	12.10	0.2625	Good
6	4242	4.000	58.45	10.81	0.2528	Good
7	4276	3.510	64.66	10.35	0.2348	Good
8	4277	4.250	58.00	9.07	0.2236	Good
9	4278	3.920	59.94	11.88	0.2791	Good
10	4279	4.200	64.19	8.71	0.2348	Inferior
11	4280	4.100	64.79	10.51	0.2792	Good
12	4281	4.040	58.81	10.32	0.2452	Good
13	4201	1.240	58.47	9.63	0.0698	Good
14	4202	1.220	52.62	12.41	0.0797	Good
15	4203	4.020	59.59	12.49	0.2991	Good
16	4204	4.210	56.35	13.75	0.3263	Good
17	4205	4.040	66.01	11.56	0.3083	Good
18	4206	3.830	58.55	10.37	0.2325	Good
19	4243	3.650	61.54	10.32	0.2318	Good
20	4244	8.070	59.25	10.90	0.5213	Good
21	4245	4.260	62.16	11.31	0.2995	Good
22	4246	3.920	65.97	8.34	0.2156	Inferior
23	4247	3.790	60.61	12.31	0.2827	Good
24	4248	3.870	65.44	10.41	0.2635	Good
25	4249	4.020	64.98	10.70	0.2794	Good
26	4250	3.490	59.15	10.74	0.2216	Good
27	4282	3.520	63.92	11.14	0.2506	Good
28	4283	3.830	62.30	11.32	0.2700	Good

29	4284	4.110	61.33	12.26	0.3091	Good
30	4285	3.770	59.38	11.23	0.2515	Good
31	4286	4.140	65.15	11.93	0.3217	Good
32	4287	4.140	59.05	9.43	0.2306	Good
33	4207	4.100	64.68	10.39	0.2755	Good
34	4208	4.200	57.62	10.33	0.2499	Good
35	4209	3.590	64.32	10.39	0.2398	Good
36	4210	4.080	60.26	11.40	0.2803	Good
37	4211	3.780	66.64	10.28	0.2589	Good
38	4212	3.630	63.01	11.41	0.2610	Good
39	4251	3.860	63.48	11.81	0.2895	Good
40	4252	3.980	67.75	9.64	0.2599	Good
41	4253	4.210	63.09	11.48	0.3048	Good
42	4254	3.330	61.01	10.80	0.2194	Good
43	4255	3.690	63.87	9.07	0.2137	Good
44	4256	4.030	64.71	10.38	0.2708	Good
45	4257	4.160	61.07	11.33	0.2879	Good
46	4213	4.080	63.82	9.62	0.2505	Good
47	4214	3.570	66.59	9.84	0.2338	Good
48	4215	1.790	52.23	13.42	0.1255	Good
49	4216	3.910	64.98	10.83	0.2753	Good
50	4217	3.710	63.78	11.67	0.2760	Good
51	4218	4.060	61.68	11.51	0.2883	Good
52	4258	3.610	57.06	10.87	0.2238	Good
53	4259	4.280	57.76	11.03	0.2726	Good
54	4260	3.720	57.71	9.15	0.1964	Good
55	4261	3.920	58.81	14.25	0.3285	Good
56	4262	3.850	68.12	10.10	0.2649	Good
57	4263	3.450	54.90	13.79	0.2612	Good
58	4288	4.110	70.36	9.93	0.2873	Good
59	4289	4.190	63.63	11.80	0.3147	Good
60	4290	4.140	65.83	7.69	0.2095	Inferior
61	4291	4.090	61.33	13.19	0.3309	Good
62	4292	4.070	66.45	10.11	0.2735	Good
63	4293	4.040	64.61	11.17	0.2917	Good
64	4294	3.370	56.57	11.58	0.2207	Good
65	4219	3.920	61.62	10.68	0.2579	Good
66	4220	3.550	60.94	10.06	0.2176	Good
67	4221	6.420	58.95	12.50	0.4732	Good
68	4222	7.420	68.28	8.29	0.4200	Inferior

69	4223	3.500	61.90	12.75	0.2762	Good
70	4224	3.750	61.92	9.61	0.2231	Good
71	4264	3.500	58.00	12.41	0.2520	Good
72	4265	4.200	49.05	11.91	0.2453	Good
73	4266	3.710	60.76	11.80	0.2660	Good
74	4267	3.980	61.70	9.34	0.2292	Good
75	4268	2.520	61.22	9.92	0.1530	Good
76	4269	3.830	61.40	10.94	0.2574	Good
77	4270	4.230	62.23	13.02	0.3426	Good
78	4295	4.060	58.95	9.45	0.2261	Good
79	4296	1.950	59.40	6.94	0.0803	Inferior
80	4297	3.930	64.06	10.30	0.2594	Good
81	4298	4.340	62.56	11.73	0.3186	Good
82	4299	4.220	63.45	9.25	0.2477	Good
83	4300	3.520	58.28	11.43	0.2344	Good
84	4225	4.030	61.45	9.05	0.2241	Good
85	4226	4.290	60.25	11.98	0.3097	Good
86	4227	4.300	61.92	9.32	0.2481	Good
87	4228	5.790	63.63	10.06	0.3706	Good
88	4229	3.550	64.36	10.71	0.2446	Good
89	4230	3.600	63.93	9.24	0.2128	Good
90	4231	4.110	60.00	11.47	0.2828	Good
91	4271	4.200	59.24	9.94	0.2474	Good
92	4272	3.160	58.52	9.71	0.1795	Good
93	4273	3.350	56.84	11.42	0.2174	Good
94	4274	3.990	55.37	8.92	0.1971	Inferior
95	4275	3.350	63.90	9.77	0.2090	Good
96	4232	6.510	59.28	11.03	0.4258	Good
97	4233	3.910	60.38	9.22	0.2178	Good
98	4234	3.840	67.35	9.80	0.2534	Good
99	4235	4.210	61.32	11.64	0.3006	Good
100	4236	3.710	64.56	9.90	0.2371	Good

DATE: 04.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।





**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 37/358**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3638	4.500	65.46	9.43	0.2777	Good
2	3639	4.130	57.50	11.77	0.2796	Good
3	3640	4.620	62.36	9.83	0.2832	Good
4	3641	4.090	58.64	8.10	0.1943	Inferior
5	3642	3.960	61.30	10.70	0.2598	Good
6	3643	4.150	58.04	10.04	0.2419	Good
7	3678	3.740	67.21	11.64	0.2925	Good
8	3679	3.890	63.24	10.09	0.2482	Good
9	3680	6.940	66.72	11.17	0.5170	Good
10	3681	4.380	65.99	10.32	0.2983	Good
11	3682	7.230	63.35	10.94	0.5010	Good
12	3601	3.990	58.94	10.91	0.2566	Good
13	3602	4.090	57.89	11.95	0.2830	Good
14	3603	3.380	60.33	9.63	0.1964	Good
15	3604	3.940	61.27	11.46	0.2766	Good
16	3605	4.230	55.65	12.35	0.2906	Good
17	3606	3.940	65.14	10.81	0.2774	Good
18	3644	4.370	59.26	9.26	0.2399	Good
19	3645	3.860	60.14	9.01	0.2092	Good
20	3646	4.600	58.63	10.11	0.2728	Good
21	3647	3.930	62.95	11.80	0.2920	Good
22	3648	4.180	64.46	10.41	0.2805	Good
23	3649	3.970	58.52	12.32	0.2862	Good
24	3650	6.760	58.17	10.31	0.4056	Good
25	3683	4.350	66.93	11.31	0.3293	Good
26	3684	4.070	64.28	9.94	0.2601	Good
27	3685	4.400	60.20	13.12	0.3476	Good
28	3686	4.170	63.60	10.30	0.2731	Good
29	3687	4.180	62.07	12.60	0.3269	Good
30	3688	4.220	65.04	8.95	0.2456	Inferior
31	3607	3.980	62.45	9.94	0.2472	Good
32	3608	4.040	57.36	10.86	0.2517	Good
33	3609	4.130	60.04	12.29	0.3048	Good
34	3610	3.930	64.84	9.69	0.2468	Good

35	3611	3.560	57.78	12.15	0.2499	Good
36	3612	3.890	68.17	9.27	0.2458	Good
37	3651	7.470	59.53	10.40	0.4624	Good
38	3652	4.210	65.70	8.05	0.2227	Inferior
39	3653	3.970	62.27	11.39	0.2815	Good
40	3654	4.210	51.14	11.18	0.2408	Good
41	3655	4.090	55.55	10.37	0.2356	Good
42	3656	4.110	53.68	10.92	0.2408	Good
43	3657	4.010	64.20	9.95	0.2562	Good
44	3658	4.380	55.84	10.14	0.2479	Good
45	3659	3.480	64.60	10.34	0.2325	Good
46	3613	4.050	55.68	11.66	0.2628	Good
47	3614	2.890	68.23	9.63	0.1899	Good
48	3615	6.730	61.68	9.26	0.3843	Good
49	3616	6.620	65.96	11.16	0.4872	Good
50	3617	4.000	66.75	9.57	0.2556	Good
51	3618	3.990	58.61	12.93	0.3024	Good
52	3660	4.200	60.03	10.46	0.2638	Good
53	3661	8.250	61.15	10.63	0.5363	Good
54	3662	3.910	61.32	10.36	0.2483	Good
55	3663	3.990	61.31	10.52	0.2574	Good
56	3664	8.200	63.06	8.12	0.4198	Inferior
57	3665	4.190	59.23	12.31	0.3055	Good
58	3666	4.210	56.91	9.26	0.2219	Good
59	3689	3.730	66.57	9.90	0.2458	Good
60	3690	3.660	58.42	10.20	0.2181	Good
61	3691	3.670	67.09	11.18	0.2753	Good
62	3692	4.210	55.54	11.04	0.2581	Good
63	3619	3.910	58.90	12.02	0.2768	Good
64	3620	4.110	56.42	10.46	0.2425	Good
65	3621	4.110	61.62	13.91	0.3522	Good
66	3622	4.300	53.21	11.13	0.2546	Good
67	3623	3.100	61.57	13.48	0.2573	Good
68	3624	3.420	59.94	11.54	0.2367	Good
69	3667	3.930	63.28	11.01	0.2739	Good
70	3668	3.590	58.40	9.47	0.1985	Good
71	3669	3.380	66.36	9.90	0.2221	Good
72	3670	3.310	58.26	10.30	0.1986	Good
73	3671	4.210	70.22	10.18	0.3010	Good
74	3672	3.960	59.02	9.91	0.2317	Good

75	3673	4.180	68.08	10.02	0.2851	Good
76	3693	6.990	60.57	9.96	0.4215	Good
77	3694	4.180	60.17	12.53	0.3152	Good
78	3695	4.000	53.07	11.66	0.2476	Good
79	3696	3.960	56.51	14.17	0.3172	Good
80	3697	4.370	67.72	9.73	0.2880	Good
81	3698	3.920	57.91	12.95	0.2940	Good
82	3699	3.750	56.82	10.33	0.2201	Good
83	3700	3.970	64.83	9.63	0.2477	Good
84	3625	3.960	59.29	11.92	0.2800	Good
85	3626	4.130	60.49	11.09	0.2771	Good
86	3627	4.090	58.69	11.13	0.2671	Good
87	3628	3.820	58.68	12.56	0.2815	Good
88	3629	4.270	63.17	9.31	0.2511	Good
89	3630	4.170	55.91	14.86	0.3465	Good
90	3631	3.750	65.36	9.50	0.2329	Good
91	3674	4.270	61.14	11.60	0.3027	Good
92	3675	6.980	69.22	10.98	0.5305	Good
93	3676	7.160	62.81	11.02	0.4955	Good
94	3677	3.980	58.31	11.40	0.2647	Good
95	3632	4.160	58.56	11.56	0.2816	Good
96	3633	4.130	60.48	10.25	0.2561	Good
97	3634	4.000	58.42	13.06	0.3052	Good
98	3635	4.240	59.88	11.37	0.2887	Good
99	3636	4.190	60.30	13.58	0.3432	Good
100	3637	3.780	59.99	11.19	0.2536	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 46/479**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4537	3.970	59.62	9.85	0.2330	Good
2	4538	3.920	57.66	12.04	0.2720	Good
3	4539	3.930	67.37	9.44	0.2499	Good
4	4540	6.270	57.19	12.78	0.4583	Good
5	4541	4.140	53.33	13.80	0.3047	Good
6	4542	3.780	58.08	13.65	0.2998	Good
7	4543	4.140	64.40	9.29	0.2476	Good
8	4576	4.120	59.25	13.23	0.3230	Good
9	4577	4.300	55.77	9.43	0.2262	Good
10	4578	4.010	63.48	9.01	0.2294	Good
11	4579	3.300	64.42	10.56	0.2244	Good

12	4580	4.090	62.63	10.03	0.2569	Good
13	4581	3.950	60.87	9.63	0.2315	Good
14	4582	3.860	60.52	12.52	0.2926	Good
15	4501	3.480	61.41	10.21	0.2182	Good
16	4502	3.590	63.27	10.53	0.2391	Good
17	4503	3.570	62.93	11.35	0.2549	Good
18	4504	3.540	62.25	14.63	0.3225	Good
19	4505	3.730	63.31	11.12	0.2626	Good
20	4506	3.720	64.79	12.72	0.3065	Good
21	4544	3.490	62.49	9.87	0.2153	Good
22	4545	3.910	61.56	10.77	0.2592	Good
23	4546	3.910	61.84	10.95	0.2647	Good
24	4547	3.780	62.39	10.63	0.2506	Good
25	4548	4.030	61.94	12.67	0.3164	Good
26	4549	1.360	61.64	10.90	0.0914	Good
27	4550	4.030	60.88	11.47	0.2813	Good
28	4583	2.350	62.71	9.66	0.1424	Good
29	4584	3.270	63.50	12.90	0.2678	Good
30	4585	3.410	62.49	11.20	0.2387	Good
31	4586	2.580	57.93	13.76	0.2056	Good
32	4587	3.840	60.29	8.16	0.1889	Inferior
33	4507	3.390	67.52	9.40	0.2153	Good
34	4508	3.490	58.04	11.25	0.2279	Good
35	4509	3.580	56.66	11.86	0.2406	Good
36	4510	3.700	46.60	12.53	0.2161	Good
37	4511	4.200	62.83	11.55	0.3049	Good
38	4512	3.540	67.84	10.10	0.2425	Good
39	4551	3.920	65.78	10.76	0.2775	Good
40	4552	3.390	63.13	10.25	0.2193	Good
41	4553	3.680	64.39	9.58	0.2271	Good
42	4554	2.610	71.25	9.73	0.1809	Good
43	4555	3.220	62.33	9.19	0.1845	Good
44	4556	2.680	54.10	10.13	0.1469	Good
45	4557	3.880	60.14	10.59	0.2472	Good
46	4513	3.150	59.42	9.51	0.1780	Good
47	4514	3.760	58.48	16.33	0.3591	Good
48	4515	3.260	59.32	9.49	0.1835	Good
49	4516	1.760	61.96	10.52	0.1148	Good
50	4517	2.710	64.38	9.55	0.1667	Good
51	4518	6.020	64.71	6.12	0.2384	Inferior

52	4558	3.810	65.03	10.86	0.2690	Good
53	4559	3.460	64.18	10.92	0.2425	Good
54	4560	2.480	54.54	10.84	0.1466	Good
55	4561	3.120	62.22	11.27	0.2187	Good
56	4562	3.350	60.93	12.00	0.2449	Good
57	4563	4.430	59.25	11.65	0.3057	Good
58	4564	4.510	57.05	9.54	0.2453	Good
59	4565	3.320	60.20	12.89	0.2576	Good
60	4588	3.940	69.44	4.42	0.1210	Inferior
61	4589	1.080	72.65	10.08	0.0791	Good
62	4590	1.520	60.91	8.06	0.0746	Inferior
63	4591	3.540	63.58	10.57	0.2379	Good
64	4592	3.990	55.97	11.38	0.2542	Good
65	4593	2.960	60.81	12.81	0.2306	Good
66	4519	2.070	59.69	9.05	0.1118	Good
67	4520	1.680	51.40	14.38	0.1242	Good
68	4521	1.440	58.56	12.77	0.1077	Good
69	4522	3.760	67.01	12.52	0.3155	Good
70	4523	2.780	57.00	10.40	0.1649	Good
71	4524	3.870	60.51	12.68	0.2968	Good
72	4566	6.490	64.89	9.11	0.3836	Good
73	4567	3.850	61.95	11.90	0.2837	Good
74	4568	3.820	59.00	12.93	0.2915	Good
75	4569	4.120	59.08	12.78	0.3111	Good
76	4570	3.920	67.45	10.36	0.2740	Good
77	4594	4.070	60.82	11.72	0.2902	Good
78	4595	3.220	57.37	9.17	0.1694	Good
79	4596	3.440	68.08	10.25	0.2401	Good
80	4597	4.000	60.07	12.54	0.3012	Good
81	4598	4.100	65.67	9.58	0.2579	Good
82	4599	3.670	60.23	7.95	0.1758	Inferior
83	4600	4.350	63.02	12.73	0.3489	Good
84	4525	4.280	61.62	9.75	0.2572	Good
85	4526	7.010	59.49	13.41	0.5594	Good
86	4527	3.810	66.29	11.34	0.2865	Good
87	4528	4.230	63.97	6.74	0.1823	Inferior
88	4529	4.180	56.74	9.32	0.2211	Good
89	4530	4.150	58.53	11.64	0.2826	Good
90	4531	1.720	48.56	12.81	0.1070	Good
91	4571	4.240	60.45	11.89	0.3049	Good

92	4572	6.310	63.10	11.81	0.4701	Good
93	4573	3.440	73.62	10.40	0.2635	Good
94	4574	3.930	60.99	9.12	0.2185	Good
95	4575	4.130	61.45	11.15	0.2829	Good
96	4532	3.060	59.54	11.59	0.2111	Good
97	4533	4.270	57.58	11.10	0.2729	Good
98	4534	4.130	71.49	10.56	0.3118	Good
99	4535	3.630	58.78	12.74	0.2719	Good
100	4536	3.240	60.99	11.28	0.2229	Good

DATE: 02.08.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 47/480**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4637	4.040	58.56	9.77	0.2311	Good
2	4638	3.800	58.91	11.66	0.2611	Good
3	4639	4.220	60.78	9.36	0.2401	Good
4	4640	3.940	57.81	14.82	0.3377	Good
5	4641	3.700	63.81	10.31	0.2435	Good
6	4642	3.960	66.41	12.15	0.3196	Good
7	4678	3.930	60.81	9.95	0.2378	Good
8	4679	3.700	57.26	12.78	0.2708	Good
9	4680	3.840	55.97	15.08	0.3241	Good
10	4681	3.210	67.25	12.40	0.2677	Good
11	4682	3.820	71.65	9.53	0.2609	Good
12	4683	3.260	63.40	12.16	0.2513	Good
13	4684	3.140	69.85	9.58	0.2101	Good
14	4601	3.320	56.89	12.66	0.2390	Good
15	4602	3.440	60.66	7.17	0.1496	Inferior
16	4603	1.270	53.12	13.97	0.0942	Good
17	4604	3.200	49.46	10.45	0.1654	Good
18	4605	3.600	65.00	6.88	0.1609	Inferior
19	4606	4.070	56.18	10.04	0.2295	Good
20	4643	3.460	62.71	12.79	0.2775	Good
21	4644	3.610	62.03	9.82	0.2198	Good
22	4645	3.770	60.81	10.84	0.2484	Good
23	4646	3.970	58.32	11.95	0.2767	Good
24	4647	4.040	59.21	12.90	0.3087	Good
25	4648	3.800	60.51	10.87	0.2500	Good
26	4649	3.700	61.36	11.83	0.2686	Good
27	4650	2.870	61.56	9.83	0.1736	Good
28	4685	3.370	59.49	14.44	0.2895	Good
29	4686	3.170	63.30	9.51	0.1908	Good
30	4687	3.620	56.92	10.52	0.2168	Good
31	4688	3.060	64.21	10.90	0.2142	Good
32	4689	1.760	68.94	10.62	0.1288	Good
33	4607	3.120	56.37	10.64	0.1872	Good
34	4608	4.050	57.68	13.18	0.3078	Good

35	4609	4.000	58.00	11.90	0.2760	Good
36	4610	3.190	60.76	10.83	0.2099	Good
37	4611	1.540	64.40	11.79	0.1169	Good
38	4612	4.170	57.52	12.05	0.2890	Good
39	4651	3.980	63.29	11.09	0.2794	Good
40	4652	3.850	62.47	10.49	0.2522	Good
41	4653	3.980	64.41	10.48	0.2687	Good
42	4654	3.770	65.11	9.68	0.2375	Good
43	4655	3.560	64.79	11.75	0.2709	Good
44	4656	3.770	59.69	9.68	0.2179	Good
45	4657	4.160	62.25	12.72	0.3295	Good
46	4613	4.230	58.96	12.21	0.3046	Good
47	4614	4.000	58.79	12.89	0.3032	Good
48	4615	3.470	55.92	15.02	0.2915	Good
49	4616	3.040	58.59	16.68	0.2970	Good
50	4617	4.100	61.16	12.15	0.3046	Good
51	4618	3.830	59.71	9.36	0.2141	Good
52	4658	3.760	65.01	11.88	0.2903	Good
53	4659	3.670	60.72	13.03	0.2903	Good
54	4660	3.720	63.69	10.00	0.2370	Good
55	4661	3.030	62.16	13.26	0.2497	Good
56	4662	3.290	62.56	10.42	0.2145	Good
57	4663	3.890	54.85	16.13	0.3443	Good
58	4664	4.040	62.28	11.08	0.2788	Good
59	4665	3.050	62.45	13.72	0.2614	Good
60	4666	3.840	63.32	10.31	0.2508	Good
61	4690	3.010	56.25	13.00	0.2200	Good
62	4691	4.100	58.12	12.37	0.2948	Good
63	4692	1.920	58.86	10.55	0.1192	Good
64	4693	3.760	60.65	9.18	0.2094	Good
65	4619	3.700	54.54	14.54	0.2934	Good
66	4620	4.290	68.74	5.56	0.1639	Inferior
67	4621	3.100	57.45	15.51	0.2762	Good
68	4622	3.940	59.29	9.31	0.2175	Good
69	4623	4.120	54.33	13.16	0.2946	Good
70	4624	3.290	60.43	9.85	0.1958	Good
71	4667	4.150	59.53	13.54	0.3345	Good
72	4668	3.580	61.02	13.19	0.2882	Good
73	4669	2.970	66.53	11.84	0.2340	Good
74	4670	3.780	59.18	10.71	0.2397	Good



75	4671	3.810	61.21	15.59	0.3635	Good
76	4672	4.000	67.16	9.63	0.2588	Good
77	4673	1.200	53.12	10.90	0.0695	Good
78	4694	3.640	66.42	10.03	0.2424	Good
79	4695	3.850	64.00	12.25	0.3018	Good
80	4696	3.630	65.55	12.72	0.3027	Good
81	4697	3.420	60.84	14.14	0.2941	Good
82	4698	3.960	65.03	7.89	0.2031	Inferior
83	4699	3.210	57.79	13.43	0.2491	Good
84	4700	2.980	56.41	12.76	0.2146	Good
85	4625	1.470	59.51	11.59	0.1014	Good
86	4626	2.470	60.92	11.01	0.1657	Good
87	4627	4.080	54.37	16.99	0.3770	Good
88	4628	3.100	57.35	15.17	0.2697	Good
89	4629	3.600	70.75	3.48	0.0886	Inferior
90	4630	3.300	56.61	9.70	0.1812	Good
91	4674	4.000	55.63	12.94	0.2880	Good
92	4675	3.980	59.08	12.25	0.2882	Good
93	4676	3.790	55.49	13.61	0.2861	Good
94	4677	3.770	59.76	12.27	0.2763	Good
95	4631	3.920	64.54	12.29	0.3109	Good
96	4632	3.900	54.52	11.72	0.2492	Good
97	4633	3.910	61.37	11.60	0.2784	Good
98	4634	1.540	62.06	9.47	0.0906	Good
99	4635	3.310	61.12	14.79	0.2992	Good
100	4636	3.930	61.53	6.79	0.1643	Inferior

DATE: 28.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 30/290**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	2937	4.020	67.52	12.35	0.3353	Good
2	2938	8.380	59.06	10.79	0.5338	Good
3	2939	3.910	60.26	14.09	0.3320	Good
4	2940	7.920	55.16	11.33	0.4950	Good
5	2941	6.270	64.09	12.01	0.4828	Good
6	2942	4.120	65.69	10.15	0.2748	Good
7	2977	4.140	57.68	9.55	0.2281	Good
8	2978	3.580	61.13	10.18	0.2227	Good
9	2979	4.120	69.75	10.54	0.3028	Good
10	2980	4.000	60.35	12.41	0.2996	Good
11	2981	3.900	60.38	12.34	0.2906	Good
12	2982	3.780	69.64	12.64	0.3326	Good
13	2901	3.760	63.24	12.08	0.2873	Good
14	2902	4.040	61.24	9.81	0.2428	Good
15	2903	3.840	65.06	13.16	0.3287	Good
16	2904	4.310	56.76	10.25	0.2508	Good
17	2905	4.030	58.18	15.37	0.3603	Good
18	2906	4.110	62.35	9.29	0.2380	Good
19	2943	1.950	56.17	14.10	0.1544	Good
20	2944	4.130	56.73	11.07	0.2594	Good
21	2945	2.990	70.52	11.54	0.2434	Good
22	2946	4.060	61.65	11.58	0.2899	Good
23	2947	4.280	53.72	12.92	0.2970	Good
24	2948	3.980	56.20	12.01	0.2687	Good
25	2983	3.960	65.20	12.09	0.3120	Good
26	2984	4.070	67.71	11.31	0.3118	Good
27	2985	7.090	66.27	11.32	0.5318	Good
28	2986	4.130	68.59	10.05	0.2846	Good
29	2987	4.100	62.09	12.93	0.3292	Good
30	2988	4.120	62.22	10.09	0.2587	Good
31	2907	3.730	63.38	13.02	0.3077	Good
32	2908	7.020	65.86	10.28	0.4753	Good
33	2909	6.810	63.77	11.95	0.5189	Good
34	2910	4.100	60.31	11.42	0.2825	Good

35	2911	3.830	62.26	10.10	0.2409	Good
36	2912	3.780	67.18	10.14	0.2574	Good
37	2949	4.030	64.27	11.16	0.2890	Good
38	2950	4.130	64.98	10.16	0.2726	Good
39	2951	3.150	59.62	13.40	0.2517	Good
40	2952	3.980	62.23	12.10	0.2997	Good
41	2953	6.570	58.37	14.37	0.5512	Good
42	2954	4.010	59.43	11.22	0.2675	Good
43	2955	3.340	61.42	11.89	0.2438	Good
44	2956	3.970	59.52	13.54	0.3200	Good
45	2957	3.870	63.52	11.90	0.2926	Good
46	2913	3.720	59.00	11.14	0.2444	Good
47	2914	3.610	57.57	14.09	0.2928	Good
48	2915	3.410	58.20	10.89	0.2162	Good
49	2916	4.120	56.77	14.23	0.3329	Good
50	2917	3.860	63.63	10.45	0.2567	Good
51	2918	3.530	58.31	13.38	0.2753	Good
52	2958	6.860	59.81	11.35	0.4658	Good
53	2959	2.050	65.33	12.54	0.1679	Good
54	2960	4.080	61.22	11.40	0.2848	Good
55	2961	3.850	63.47	12.84	0.3138	Good
56	2962	4.160	55.91	11.84	0.2754	Good
57	2963	3.760	50.77	12.27	0.2342	Good
58	2964	3.810	59.59	14.26	0.3239	Good
59	2965	2.730	62.68	12.92	0.2211	Good
60	2989	6.940	56.19	11.30	0.4407	Good
61	2990	3.950	60.34	11.04	0.2631	Good
62	2991	4.210	61.66	10.61	0.2753	Good
63	2992	6.340	59.93	11.60	0.4406	Good
64	2993	7.530	64.70	9.61	0.4684	Good
65	2919	3.470	61.24	13.01	0.2766	Good
66	2920	5.120	66.00	10.53	0.3558	Good
67	2921	3.370	68.34	11.85	0.2730	Good
68	2922	4.010	59.76	9.99	0.2394	Good
69	2923	6.030	63.06	11.08	0.4215	Good
70	2924	4.100	58.30	10.29	0.2460	Good
71	2966	6.870	56.93	13.44	0.5256	Good
72	2967	3.800	61.85	9.86	0.2318	Good
73	2968	4.170	61.36	11.44	0.2927	Good
74	2969	3.400	67.23	12.05	0.2754	Good

75	2970	4.140	54.97	11.32	0.2575	Good
76	2971	4.210	53.66	11.57	0.2614	Good
77	2972	6.860	69.41	11.04	0.5255	Good
78	2994	3.870	63.62	9.48	0.2334	Good
79	2995	3.970	60.85	11.09	0.2680	Good
80	2996	6.790	60.68	9.29	0.3830	Good
81	2997	4.100	53.24	12.23	0.2669	Good
82	2998	4.220	56.70	10.60	0.2536	Good
83	2999	4.040	55.24	12.47	0.2784	Good
84	3000	4.220	62.33	10.28	0.2705	Good
85	2925	3.730	52.49	13.26	0.2596	Good
86	2926	4.000	57.48	9.39	0.2160	Good
87	2927	4.140	61.34	12.57	0.3192	Good
88	2928	6.890	56.81	10.54	0.4127	Good
89	2929	3.820	60.47	14.09	0.3255	Good
90	2930	3.920	62.27	11.00	0.2685	Good
91	2973	6.860	57.04	11.40	0.4459	Good
92	2974	3.560	64.69	11.38	0.2620	Good
93	2975	3.460	55.86	11.15	0.2156	Good
94	2976	4.050	62.78	11.17	0.2839	Good
95	2931	3.990	61.85	11.84	0.2921	Good
96	2932	3.960	59.65	14.69	0.3469	Good
97	2933	4.420	60.64	15.39	0.4124	Good
98	2934	3.750	65.09	11.18	0.2730	Good
99	2935	3.980	59.35	13.85	0.3272	Good
100	2936	4.190	60.05	10.62	0.2673	Good

DATE: 26.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 39/406**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	3836	4.130	57.55	15.59	0.3705	Good
2	3837	3.260	65.91	11.64	0.2500	Good
3	3838	4.510	62.44	12.06	0.3396	Good
4	3839	4.080	63.96	11.79	0.3076	Good
5	3840	3.860	59.78	12.98	0.2995	Good
6	3841	4.180	55.75	13.09	0.3051	Good
7	3879	2.800	65.89	11.31	0.2086	Good
8	3880	3.850	61.35	12.08	0.2853	Good
9	3881	1.710	62.85	13.56	0.1457	Good
10	3882	4.040	57.64	13.15	0.3062	Good
11	3883	3.750	62.92	12.76	0.3011	Good
12	3884	4.040	59.20	15.52	0.3713	Good
13	3801	1.740	54.17	14.34	0.1352	Good
14	3802	3.090	59.42	11.70	0.2148	Good
15	3803	4.260	58.85	15.79	0.3958	Good
16	3804	3.070	58.31	14.95	0.2677	Good
17	3805	3.310	58.44	11.26	0.2178	Good
18	3806	3.370	59.74	10.29	0.2073	Good
19	3842	4.050	59.14	11.94	0.2859	Good
20	3843	3.030	65.13	11.81	0.2330	Good
21	3844	3.930	59.80	14.16	0.3329	Good
22	3845	3.870	61.32	12.82	0.3042	Good
23	3846	3.790	66.31	9.68	0.2433	Good
24	3847	6.690	58.50	11.47	0.4489	Good
25	3885	2.200	60.37	11.79	0.1566	Good
26	3886	3.620	66.55	11.31	0.2726	Good
27	3887	6.510	62.15	12.49	0.5052	Good
28	3888	4.020	59.50	11.70	0.2798	Good
29	3889	3.890	59.81	12.16	0.2828	Good
30	3807	4.160	59.95	14.53	0.3623	Good
31	3808	3.190	58.48	13.42	0.2504	Good
32	3809	4.010	58.97	12.96	0.3064	Good
33	3810	4.150	70.82	12.24	0.3598	Good
34	3811	3.270	61.68	14.25	0.2874	Good

35	3812	3.960	56.82	13.41	0.3018	Good
36	3848	4.230	62.31	11.01	0.2902	Good
37	3849	3.910	65.59	7.03	0.1803	Inferior
38	3850	4.200	61.00	10.85	0.2780	Good
39	3851	4.050	57.70	14.21	0.3321	Good
40	3852	3.580	63.33	10.12	0.2295	Good
41	3853	3.920	63.88	9.91	0.2481	Good
42	3854	4.030	60.16	13.18	0.3196	Good
43	3855	1.830	52.15	16.09	0.1535	Good
44	3856	4.270	63.30	11.88	0.3211	Good
45	3857	4.060	60.82	11.30	0.2789	Good
46	3813	3.380	58.45	14.82	0.2927	Good
47	3814	4.280	56.68	13.51	0.3278	Good
48	3815	3.990	62.29	13.76	0.3419	Good
49	3816	4.120	65.63	12.31	0.3329	Good
50	3817	3.110	59.77	12.05	0.2239	Good
51	3818	6.290	63.86	12.07	0.4850	Good
52	3858	3.890	57.07	14.93	0.3314	Good
53	3859	4.130	62.37	14.29	0.3680	Good
54	3860	4.010	61.20	13.45	0.3300	Good
55	3861	4.250	60.66	12.96	0.3341	Good
56	3862	3.880	63.36	12.93	0.3178	Good
57	3863	3.500	59.42	12.07	0.2510	Good
58	3864	3.340	61.30	12.25	0.2508	Good
59	3865	2.590	58.24	12.53	0.1891	Good
60	3890	4.010	56.90	13.13	0.2995	Good
61	3891	4.050	57.24	12.18	0.2823	Good
62	3892	2.790	59.42	12.27	0.2034	Good
63	3893	6.370	60.09	12.13	0.4644	Good
64	3819	3.360	57.00	13.51	0.2587	Good
65	3820	1.720	62.29	9.31	0.0998	Good
66	3821	4.000	62.62	11.50	0.2880	Good
67	3822	3.960	62.67	11.14	0.2764	Good
68	3823	4.230	59.70	11.69	0.2953	Good
69	3824	3.310	58.32	7.72	0.1490	Inferior
70	3866	4.000	61.28	15.18	0.3720	Good
71	3867	3.950	62.60	11.96	0.2959	Good
72	3868	3.150	63.18	13.42	0.2671	Good
73	3869	1.670	64.86	12.87	0.1394	Good
74	3870	3.750	63.43	11.29	0.2685	Good

75	3871	2.960	59.41	11.66	0.2051	Good
76	3872	3.370	59.08	12.20	0.2430	Good
77	3873	4.000	61.35	11.10	0.2724	Good
78	3894	7.490	61.09	11.97	0.5475	Good
79	3895	2.470	61.05	13.10	0.1976	Good
80	3896	2.960	61.16	11.09	0.2007	Good
81	3897	3.960	63.20	13.51	0.3382	Good
82	3898	3.560	64.25	13.51	0.3090	Good
83	3899	3.830	58.86	14.70	0.3313	Good
84	3900	3.570	59.10	11.73	0.2474	Good
85	3825	3.910	63.27	7.11	0.1760	Inferior
86	3826	4.040	60.21	13.29	0.3232	Good
87	3827	3.780	56.08	13.77	0.2918	Good
88	3828	4.120	58.62	14.04	0.3391	Good
89	3829	3.840	57.36	13.41	0.2953	Good
90	3830	3.820	61.89	13.65	0.3228	Good
91	3874	1.160	56.74	14.26	0.0938	Good
92	3875	3.410	65.88	12.74	0.2861	Good
93	3876	2.640	64.96	10.42	0.1787	Good
94	3877	2.670	71.09	10.44	0.1981	Good
95	3878	6.740	64.21	12.77	0.5527	Good
96	3831	5.740	57.40	12.23	0.4029	Good
97	3832	4.230	55.14	11.88	0.2771	Good
98	3833	3.480	55.84	12.54	0.2436	Good
99	3834	3.800	59.94	15.77	0.3591	Good
100	3835	3.590	52.22	14.55	0.2728	Good

DATE: 13.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 11/142**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1032	4.540	57.49	15.29	0.3991	Good
2	1033	3.830	62.40	14.49	0.3462	Good
3	1034	4.160	61.72	14.34	0.3682	Good
4	1035	7.380	63.60	12.52	0.5874	Good
5	1036	3.740	58.93	14.17	0.3123	Good
6	1061	1.920	73.53	9.87	0.1394	Good
7	1062	6.380	64.56	14.47	0.5959	Good
8	1063	8.050	67.89	13.45	0.7350	Good
9	1064	4.000	56.82	15.03	0.3416	Good
10	1065	4.130	56.48	13.70	0.3197	Good
11	1066	3.980	61.04	14.60	0.3546	Good
12	1067	6.680	59.64	15.41	0.6139	Good
13	1001	3.440	61.60	12.47	0.2642	Good
14	1002	4.420	66.98	13.27	0.3929	Good
15	1003	3.700	60.15	14.85	0.3304	Good
16	1004	4.140	63.90	10.13	0.2679	Good
17	1005	3.860	63.72	13.59	0.3343	Good
18	1006	3.970	55.95	14.76	0.3279	Good
19	1037	4.160	60.18	14.74	0.3690	Good
20	1038	4.190	55.99	15.27	0.3582	Good
21	1039	3.930	60.77	13.28	0.3172	Good
22	1040	4.200	62.77	13.21	0.3482	Good
23	1041	2.170	52.86	17.54	0.2012	Good
24	1042	4.220	57.78	15.07	0.3676	Good
25	1068	6.510	65.26	13.59	0.5774	Good
26	1069	3.590	53.86	16.43	0.3177	Good
27	1070	4.220	62.25	12.40	0.3258	Good
28	1071	7.210	58.48	15.15	0.6388	Good
29	1072	7.290	57.43	16.44	0.6882	Good
30	1073	4.080	58.64	14.85	0.3554	Good
31	1074	4.410	59.05	11.48	0.2990	Good
32	1075	4.200	60.32	11.26	0.2852	Good
33	1089	3.710	63.91	11.80	0.2797	Good
34	1090	3.370	64.75	13.37	0.2918	Good



35	1091	6.740	61.72	14.94	0.6214	Good
36	1092	6.250	56.90	15.61	0.5550	Good
37	1093	4.470	57.61	15.52	0.3996	Good
38	1094	6.680	58.66	11.52	0.4516	Good
39	1007	6.940	57.34	14.58	0.5802	Good
40	1008	4.320	60.57	13.29	0.3478	Good
41	1009	4.210	58.67	15.20	0.3755	Good
42	1010	3.900	56.68	15.91	0.3518	Good
43	1011	3.530	56.82	15.29	0.3068	Good
44	1012	3.970	63.21	12.31	0.3089	Good
45	1013	7.060	70.36	11.61	0.5768	Good
46	1043	6.960	61.34	12.59	0.5373	Good
47	1044	3.400	61.26	12.88	0.2683	Good
48	1045	6.770	57.75	13.92	0.5443	Good
49	1046	4.070	67.36	11.06	0.3032	Good
50	1047	4.120	61.54	13.86	0.3514	Good
51	1048	4.210	55.61	16.67	0.3903	Good
52	1083	3.930	64.65	13.46	0.3419	Good
53	1084	3.820	64.98	11.71	0.2907	Good
54	1085	4.120	54.76	15.23	0.3436	Good
55	1086	7.310	58.95	12.84	0.5534	Good
56	1087	4.080	59.06	13.41	0.3231	Good
57	1088	3.510	56.87	14.47	0.2889	Good
58	1014	3.680	60.47	13.06	0.2907	Good
59	1015	4.190	58.64	13.44	0.3302	Good
60	1016	4.570	62.72	13.63	0.3907	Good
61	1017	4.400	62.82	11.76	0.3252	Good
62	1018	4.270	59.72	13.55	0.3454	Good
63	1019	4.090	61.65	13.77	0.3472	Good
64	1049	4.380	60.91	13.97	0.3727	Good
65	1050	3.820	61.56	10.83	0.2548	Good
66	1051	8.270	60.00	10.15	0.5036	Good
67	1052	4.100	60.77	7.70	0.1919	Inferior
68	1053	3.940	64.30	14.60	0.3700	Good
69	1054	4.140	58.29	17.60	0.4248	Good
70	1055	7.200	59.18	13.43	0.5724	Good
71	1076	4.160	55.94	14.05	0.3270	Good
72	1077	4.570	60.15	15.06	0.4140	Good
73	1078	4.020	59.55	14.39	0.3445	Good
74	1079	4.120	55.71	15.53	0.3564	Good

75	1080	4.090	60.83	13.37	0.3325	Good
76	1081	3.910	63.82	11.94	0.2979	Good
77	1082	4.080	55.20	15.54	0.3501	Good
78	1095	4.260	57.95	13.99	0.3455	Good
79	1096	6.940	59.06	15.58	0.6385	Good
80	1097	3.800	59.73	12.82	0.2911	Good
81	1098	4.670	59.54	13.57	0.3773	Good
82	1099	4.100	59.78	15.02	0.3682	Good
83	1100	6.970	66.16	13.17	0.6071	Good
84	1020	3.810	57.69	13.97	0.3071	Good
85	1021	4.140	66.78	12.55	0.3469	Good
86	1022	4.030	58.69	15.05	0.3558	Good
87	1023	4.030	58.92	13.83	0.3284	Good
88	1024	3.880	62.84	14.04	0.3422	Good
89	1025	6.950	61.40	13.81	0.5894	Good
90	1026	3.980	60.47	13.41	0.3228	Good
91	1056	4.250	58.39	12.98	0.3222	Good
92	1057	3.350	63.18	13.44	0.2844	Good
93	1058	3.800	65.60	12.96	0.3230	Good
94	1059	6.950	70.27	10.59	0.5171	Good
95	1060	3.470	57.10	13.05	0.2585	Good
96	1027	4.080	54.60	16.30	0.3631	Good
97	1028	3.720	59.08	15.37	0.3378	Good
98	1029	7.470	58.64	16.01	0.7014	Good
99	1030	4.160	58.92	15.24	0.3736	Good
100	1031	3.590	60.61	12.46	0.2710	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 14/145**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1330	3.120	52.56	16.70	0.2739	Good
2	1331	3.600	58.27	12.60	0.2642	Good
3	1332	4.130	52.55	15.95	0.3461	Good
4	1333	3.520	53.63	14.92	0.2816	Good
5	1334	3.600	62.66	8.19	0.1847	Inferior
6	1335	5.070	62.16	13.82	0.4355	Good
7	1336	3.680	59.63	15.43	0.3386	Good
8	1362	4.190	56.82	13.38	0.3184	Good
9	1363	4.090	58.53	13.31	0.3186	Good
10	1364	3.800	56.49	17.54	0.3766	Good
11	1365	2.250	58.78	13.12	0.1735	Good

12	1366	3.800	56.22	13.89	0.2968	Good
13	1367	3.170	67.25	12.76	0.2720	Good
14	1301	3.930	54.26	15.28	0.3258	Good
15	1302	6.810	58.91	13.41	0.5380	Good
16	1303	3.880	48.43	16.62	0.3123	Good
17	1304	3.620	55.28	17.13	0.3428	Good
18	1305	3.820	51.00	16.27	0.3171	Good
19	1306	4.050	58.33	14.80	0.3495	Good
20	1337	3.530	53.99	12.02	0.2291	Good
21	1338	4.780	63.32	12.10	0.3661	Good
22	1339	3.830	65.11	12.55	0.3129	Good
23	1340	6.030	54.25	14.99	0.4902	Good
24	1341	6.930	54.52	13.87	0.5239	Good
25	1342	3.990	55.28	14.67	0.3236	Good
26	1368	3.980	57.46	13.49	0.3085	Good
27	1369	4.000	53.14	16.96	0.3604	Good
28	1370	4.410	59.61	14.43	0.3793	Good
29	1371	3.830	51.67	15.50	0.3068	Good
30	1372	6.230	62.83	13.31	0.5208	Good
31	1373	3.250	50.83	15.82	0.2613	Good
32	1374	3.550	50.93	15.26	0.2758	Good
33	1375	3.420	64.30	13.93	0.3064	Good
34	1307	4.130	58.74	16.84	0.4085	Good
35	1308	3.830	65.16	11.79	0.2941	Good
36	1309	3.690	57.44	14.05	0.2978	Good
37	1310	6.850	55.17	14.25	0.5384	Good
38	1311	6.770	59.42	14.20	0.5714	Good
39	1312	3.990	49.94	17.82	0.3551	Good
40	1343	2.450	58.80	14.85	0.2139	Good
41	1344	3.530	59.64	13.70	0.2884	Good
42	1345	3.790	44.82	16.85	0.2861	Good
43	1346	3.520	62.61	13.86	0.3055	Good
44	1347	3.510	54.75	15.65	0.3008	Good
45	1348	3.890	54.52	14.69	0.3116	Good
46	1376	3.370	61.65	13.95	0.2898	Good
47	1377	3.690	62.22	12.91	0.2963	Good
48	1378	3.760	62.01	12.87	0.3000	Good
49	1379	3.660	63.38	14.04	0.3257	Good
50	1380	3.550	62.86	11.87	0.2648	Good
51	1381	3.980	57.22	13.04	0.2969	Good

52	1382	3.210	61.83	14.44	0.2867	Good
53	1395	3.860	70.78	11.46	0.3130	Good
54	1396	3.110	59.00	13.97	0.2563	Good
55	1397	6.840	58.02	11.93	0.4733	Good
56	1398	4.180	65.89	10.78	0.2968	Good
57	1399	8.290	60.08	12.92	0.6433	Good
58	1400	3.240	60.13	11.21	0.2184	Good
59	1313	3.910	59.55	15.15	0.3527	Good
60	1314	4.100	56.20	14.06	0.3239	Good
61	1315	3.940	53.83	16.53	0.3507	Good
62	1316	3.830	57.80	14.22	0.3148	Good
63	1317	4.050	53.21	15.41	0.3321	Good
64	1318	3.690	54.20	16.03	0.3207	Good
65	1349	3.710	57.42	13.34	0.2842	Good
66	1350	6.380	55.08	14.34	0.5040	Good
67	1351	3.640	57.12	13.04	0.2712	Good
68	1352	2.960	54.95	16.47	0.2679	Good
69	1353	6.120	56.35	14.29	0.4927	Good
70	1354	6.680	66.63	7.88	0.3507	Inferior
71	1355	3.230	55.53	17.02	0.3052	Good
72	1356	3.190	66.01	13.85	0.2916	Good
73	1383	6.090	68.89	12.11	0.5079	Good
74	1384	3.570	55.89	15.58	0.3109	Good
75	1385	4.210	66.04	9.43	0.2623	Good
76	1386	3.570	63.36	13.08	0.2960	Good
77	1387	6.940	57.96	16.13	0.6489	Good
78	1388	1.340	55.06	16.45	0.1214	Good
79	1319	3.980	59.20	15.54	0.3662	Good
80	1320	3.900	55.94	15.28	0.3335	Good
81	1321	3.870	55.18	12.67	0.2705	Good
82	1322	4.060	53.46	15.30	0.3321	Good
83	1323	3.940	55.59	12.09	0.2648	Good
84	1324	8.320	64.05	14.64	0.7804	Good
85	1389	7.150	61.91	13.31	0.5892	Good
86	1390	3.410	62.50	8.11	0.1729	Inferior
87	1391	3.300	58.34	14.78	0.2845	Good
88	1392	3.970	54.45	10.69	0.2311	Good
89	1393	0.800	64.99	11.72	0.0610	Good
90	1394	3.310	59.75	11.85	0.2343	Good
91	1357	4.060	66.28	13.02	0.3504	Good

92	1358	1.550	55.00	16.71	0.1424	Good
93	1359	3.690	58.19	15.90	0.3413	Good
94	1360	7.590	65.94	7.84	0.3924	Inferior
95	1361	3.750	53.11	13.97	0.2783	Good
96	1325	4.140	53.45	14.67	0.3246	Good
97	1326	6.350	46.93	16.11	0.4801	Good
98	1327	3.700	45.77	15.18	0.2572	Good
99	1328	3.760	53.29	15.88	0.3181	Good
100	1329	4.000	57.56	15.60	0.3592	Good

Date : 08.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 02/35**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	137	7.930	65.14	12.42	0.6415	Good
2	138	7.690	65.36	10.31	0.5183	Good
3	139	6.510	64.31	7.34	0.3073	Inferior
4	140	5.650	58.81	16.95	0.5633	Good
5	141	4.160	64.80	10.17	0.2741	Good
6	142	6.790	65.17	10.99	0.4862	Good
7	172	4.090	53.76	13.28	0.2920	Good
8	173	7.330	64.76	13.82	0.6560	Good
9	174	6.080	63.31	14.37	0.5533	Good
10	175	6.790	62.86	14.79	0.6315	Good
11	101	8.390	69.93	11.60	0.6804	Good
12	102	7.100	68.22	11.45	0.5545	Good
13	103	8.430	65.99	11.62	0.6466	Good
14	104	5.710	69.16	10.47	0.4134	Good
15	105	3.160	72.49	9.57	0.2193	Good
16	106	6.950	65.10	14.18	0.6415	Good
17	143	4.190	67.08	13.82	0.3884	Good
18	144	6.240	59.93	10.71	0.4006	Good
19	145	8.380	57.33	16.92	0.8129	Good
20	146	8.430	57.87	16.81	0.8202	Good
21	147	4.000	62.46	13.50	0.3372	Good
22	148	3.990	57.73	16.89	0.3890	Good
23	176	1.870	55.86	14.23	0.1487	Good
24	177	7.270	60.88	12.48	0.5525	Good
25	178	3.930	63.55	11.35	0.2834	Good
26	179	6.180	65.63	8.88	0.3603	Inferior
27	107	7.550	59.74	8.59	0.3873	Inferior
28	108	8.140	68.14	11.11	0.6162	Good
29	109	8.160	61.76	17.45	0.8796	Good
30	110	6.400	71.85	12.05	0.5542	Good
31	111	3.670	69.40	11.59	0.2951	Good
32	112	6.900	67.60	11.60	0.5410	Good
33	149	6.620	54.24	13.13	0.4713	Good
34	150	3.900	61.90	13.84	0.3342	Good

35	151	6.860	56.18	15.72	0.6057	Good
36	152	4.160	59.95	12.63	0.3149	Good
37	153	7.560	58.99	12.70	0.5662	Good
38	154	6.690	58.98	10.48	0.4134	Good
39	180	4.020	65.94	12.77	0.3385	Good
40	181	7.060	66.31	14.75	0.6905	Good
41	182	4.100	66.29	10.59	0.2878	Good
42	183	8.320	62.26	15.79	0.8179	Good
43	184	4.300	59.50	12.64	0.3234	Good
44	185	4.150	63.96	15.96	0.4237	Good
45	186	4.340	59.30	11.72	0.3016	Good
46	113	7.420	56.82	8.47	0.3569	Inferior
47	114	7.660	62.13	12.81	0.6097	Good
48	115	6.690	60.54	13.23	0.5359	Good
49	116	4.130	62.41	10.51	0.2709	Good
50	117	5.880	48.62	17.19	0.4916	Good
51	118	3.020	51.67	14.34	0.2238	Good
52	155	3.350	68.47	9.33	0.2141	Good
53	156	4.250	58.46	13.03	0.3239	Good
54	157	3.900	52.48	15.21	0.3112	Good
55	158	8.110	60.25	10.21	0.4988	Good
56	159	3.460	69.03	9.31	0.2225	Good
57	160	3.780	59.56	12.91	0.2907	Good
58	187	4.000	58.91	13.36	0.3148	Good
59	188	4.100	57.90	16.04	0.3809	Good
60	189	3.910	57.98	13.33	0.3022	Good
61	190	6.650	51.15	15.50	0.5273	Good
62	119	6.290	58.48	13.12	0.4824	Good
63	120	7.520	63.26	11.07	0.5264	Good
64	121	7.890	62.57	12.77	0.6304	Good
65	122	8.550	70.47	12.35	0.7439	Good
66	123	6.670	55.99	7.32	0.2735	Inferior
67	124	6.250	62.90	5.36	0.2106	Inferior
68	161	4.070	65.70	10.12	0.2707	Good
69	162	3.980	66.94	8.04	0.2141	Inferior
70	163	6.780	70.79	12.74	0.6116	Good
71	164	7.110	55.52	14.70	0.5802	Good
72	165	4.000	64.75	11.24	0.2912	Good
73	195	6.540	63.17	15.85	0.6547	Good
74	196	4.310	69.17	12.62	0.3763	Good

75	197	3.500	47.60	10.74	0.1789	Good
76	198	4.000	73.81	9.32	0.2752	Good
77	199	3.880	61.94	11.96	0.2875	Good
78	200	7.030	59.71	12.93	0.5427	Good
79	125	5.540	67.02	6.61	0.2454	Inferior
80	126	3.300	52.43	15.53	0.2686	Good
81	127	4.270	58.94	15.73	0.3958	Good
82	128	6.740	62.90	8.78	0.3720	Inferior
83	129	4.130	61.78	9.06	0.2313	Good
84	130	3.610	57.86	11.94	0.2495	Good
85	166	7.070	59.82	16.30	0.6893	Good
86	167	6.600	57.20	16.00	0.6039	Good
87	168	4.090	61.73	11.29	0.2851	Good
88	169	4.190	58.72	13.52	0.3327	Good
89	170	8.050	57.51	17.08	0.7905	Good
90	171	3.980	68.34	10.39	0.2826	Good
91	191	3.270	56.69	16.69	0.3093	Good
92	192	8.350	62.21	7.36	0.3824	Inferior
93	193	4.050	62.16	11.21	0.2823	Good
94	194	6.220	52.33	16.66	0.5424	Good
95	131	8.300	60.24	16.93	0.8466	Good
96	132	3.870	61.61	15.34	0.3657	Good
97	133	8.200	63.59	14.56	0.7593	Good
98	134	3.950	53.90	13.34	0.2840	Good
99	135	6.830	57.15	12.06	0.4706	Good
100	136	3.320	61.61	13.80	0.2822	Good

**Name of Division : MANDSAUR-II**

**Challan No. : 10/110**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	938	3.580	59.90	16.16	0.3465	Good
2	939	4.220	58.13	15.50	0.3802	Good
3	940	6.630	60.82	15.90	0.6411	Good
4	941	6.960	68.86	10.89	0.5220	Good
5	942	3.730	69.18	10.51	0.2712	Good
6	974	3.520	67.12	13.41	0.3168	Good
7	975	3.740	59.37	13.34	0.2962	Good
8	976	8.480	65.85	11.01	0.6148	Good
9	977	6.850	65.05	9.98	0.4446	Good
10	978	4.400	58.65	12.51	0.3230	Good
11	901	7.390	59.32	12.61	0.5528	Good



12	902	3.930	59.27	10.63	0.2476	Good
13	903	4.070	59.45	11.30	0.2735	Good
14	904	6.460	63.83	10.59	0.4367	Good
15	905	4.080	63.93	12.17	0.3174	Good
16	906	8.570	60.10	14.64	0.7542	Good
17	943	4.060	60.26	15.20	0.3719	Good
18	944	8.420	66.14	12.84	0.7149	Good
19	945	4.110	62.61	12.06	0.3103	Good
20	946	7.690	73.86	10.71	0.6083	Good
21	947	7.130	53.97	11.27	0.4335	Good
22	948	3.240	63.68	8.34	0.1720	Inferior
23	979	3.810	69.10	8.87	0.2336	Inferior
24	980	4.320	66.20	13.63	0.3897	Good
25	981	4.280	62.40	15.61	0.4169	Good
26	982	4.100	65.88	13.10	0.3538	Good
27	983	7.170	68.30	12.62	0.6181	Good
28	984	4.280	65.15	11.73	0.3270	Good
29	907	2.180	57.41	17.21	0.2154	Good
30	908	7.350	61.63	12.38	0.5608	Good
31	909	6.730	67.19	12.22	0.5525	Good
32	910	3.850	60.66	15.38	0.3592	Good
33	911	8.480	61.67	15.13	0.7912	Good
34	912	4.410	61.91	10.01	0.2734	Good
35	949	4.470	67.06	13.99	0.4193	Good
36	950	4.170	56.83	15.36	0.3640	Good
37	951	4.220	62.81	14.81	0.3925	Good
38	952	3.270	67.44	14.92	0.3290	Good
39	953	6.910	65.24	11.99	0.5404	Good
40	985	3.840	53.13	15.60	0.3183	Good
41	986	4.330	61.51	13.66	0.3637	Good
42	987	3.800	63.68	12.09	0.2926	Good
43	988	3.930	57.29	16.81	0.3785	Good
44	989	7.150	60.92	14.90	0.6492	Good
45	990	4.050	65.13	11.67	0.3078	Good
46	913	7.010	66.42	13.87	0.6456	Good
47	914	4.460	61.84	13.96	0.3849	Good
48	915	7.370	62.59	10.21	0.4709	Good
49	916	4.200	63.73	14.47	0.3872	Good
50	917	4.070	66.90	10.19	0.2776	Good
51	918	7.290	54.72	17.60	0.7020	Good

52	968	4.130	55.06	16.29	0.3705	Good
53	969	4.160	54.89	15.23	0.3478	Good
54	970	7.250	47.01	18.74	0.6387	Good
55	971	3.170	69.33	16.44	0.3614	Good
56	972	4.220	62.00	10.84	0.2836	Good
57	973	3.970	57.99	16.45	0.3787	Good
58	991	4.250	53.96	13.21	0.3030	Good
59	992	3.450	65.09	10.59	0.2377	Good
60	993	2.940	64.02	12.29	0.2314	Good
61	994	6.150	59.60	10.96	0.4016	Good
62	919	7.200	62.42	9.74	0.4378	Good
63	920	4.050	65.38	8.24	0.2183	Inferior
64	921	3.860	62.12	11.99	0.2876	Good
65	922	8.240	64.38	9.71	0.5150	Good
66	923	6.770	64.56	12.25	0.5355	Good
67	924	4.400	61.52	12.70	0.3436	Good
68	954	4.270	68.00	10.63	0.3087	Good
69	955	4.300	68.80	12.17	0.3599	Good
70	956	3.840	59.49	16.12	0.3683	Good
71	957	6.560	59.29	17.07	0.6639	Good
72	958	6.820	57.11	12.57	0.4897	Good
73	959	3.720	70.95	11.78	0.3110	Good
74	960	7.380	61.94	15.10	0.6900	Good
75	995	4.290	58.42	8.46	0.2119	Inferior
76	996	3.130	62.36	10.49	0.2047	Good
77	997	4.070	59.40	15.17	0.3667	Good
78	998	3.950	62.51	11.61	0.2868	Good
79	999	4.330	67.48	9.23	0.2698	Good
80	1000	4.270	63.60	12.88	0.3497	Good
81	925	6.730	59.70	14.59	0.5862	Good
82	926	8.030	65.38	15.69	0.8239	Good
83	927	4.070	71.52	9.23	0.2686	Good
84	928	4.320	61.63	11.88	0.3162	Good
85	929	3.870	72.26	10.41	0.2910	Good
86	930	3.820	65.74	10.60	0.2663	Good
87	961	4.120	64.87	9.36	0.2501	Good
88	962	4.270	68.32	7.76	0.2263	Inferior
89	963	3.410	58.45	16.51	0.3291	Good
90	964	6.890	48.83	19.05	0.6408	Good
91	965	3.840	64.34	13.91	0.3437	Good

92	966	4.260	57.37	17.20	0.4205	Good
93	967	3.450	57.11	17.05	0.3360	Good
94	931	3.320	64.81	9.94	0.2138	Good
95	932	6.410	62.65	11.80	0.4737	Good
96	933	4.160	61.26	9.94	0.2533	Good
97	934	3.990	68.19	13.17	0.3583	Good
98	935	3.890	69.53	13.10	0.3544	Good
99	936	7.870	65.36	14.24	0.7327	Good
100	937	3.690	62.46	11.24	0.2590	Good

DATE: 07.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 16/180**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1539	3.370	57.88	14.13	0.2757	Good
2	1540	4.170	59.27	15.29	0.3778	Good
3	1541	4.320	62.87	12.66	0.3439	Good
4	1542	3.630	53.77	15.31	0.2987	Good
5	1543	4.150	64.07	12.63	0.3357	Good
6	1544	4.080	63.04	13.86	0.3566	Good
7	1567	4.230	56.59	14.51	0.3473	Good
8	1568	3.400	56.46	15.39	0.2955	Good
9	1569	4.070	54.53	16.63	0.3691	Good
10	1570	6.750	57.36	16.18	0.6264	Good
11	1571	3.720	60.57	11.14	0.2511	Good
12	1572	4.250	60.15	14.58	0.3727	Good
13	1501	3.090	63.52	14.33	0.2812	Good
14	1502	4.170	65.61	11.32	0.3098	Good
15	1503	3.970	62.98	13.75	0.3438	Good
16	1504	4.110	63.55	12.70	0.3317	Good
17	1505	4.210	61.55	7.26	0.1882	Inferior
18	1506	4.210	61.14	15.10	0.3886	Good
19	1507	6.960	62.61	13.62	0.5937	Good
20	1545	4.190	60.22	13.55	0.3419	Good
21	1546	4.220	63.33	13.71	0.3663	Good
22	1547	4.210	61.22	14.52	0.3743	Good
23	1548	4.200	57.67	15.21	0.3683	Good
24	1549	4.350	60.86	7.99	0.2114	Inferior
25	1550	4.170	58.99	15.65	0.3849	Good
26	1573	3.960	53.46	15.21	0.3219	Good
27	1574	4.300	53.59	16.87	0.3887	Good
28	1575	4.270	61.65	13.48	0.3548	Good
29	1576	6.860	60.04	13.49	0.5557	Good
30	1577	4.270	56.55	12.77	0.3083	Good
31	1578	4.260	61.61	11.82	0.3101	Good
32	1591	6.660	59.73	11.32	0.4502	Good
33	1592	4.190	62.24	12.05	0.3143	Good
34	1593	7.400	60.91	13.13	0.5920	Good

35	1594	6.910	59.47	14.26	0.5860	Good
36	1595	4.160	56.41	16.93	0.3973	Good
37	1508	3.980	61.40	13.01	0.3180	Good
38	1509	3.870	62.42	15.38	0.3715	Good
39	1510	4.160	60.02	12.46	0.3112	Good
40	1511	3.950	67.02	13.21	0.3496	Good
41	1512	3.870	50.36	17.87	0.3483	Good
42	1513	4.160	62.94	11.96	0.3132	Good
43	1514	4.220	65.48	9.18	0.2536	Good
44	1515	3.740	58.52	11.98	0.2622	Good
45	1516	3.780	57.25	14.04	0.3039	Good
46	1551	3.400	59.62	13.89	0.2815	Good
47	1552	4.200	60.85	15.27	0.3902	Good
48	1553	4.060	57.19	17.08	0.3967	Good
49	1554	3.980	55.38	13.71	0.3021	Good
50	1555	4.260	58.06	14.64	0.3621	Good
51	1556	3.650	65.68	12.29	0.2946	Good
52	1579	4.120	56.05	15.63	0.3609	Good
53	1580	4.360	63.54	11.95	0.3309	Good
54	1581	4.720	62.55	14.00	0.4135	Good
55	1582	4.290	58.82	13.09	0.3303	Good
56	1583	4.260	55.15	16.83	0.3953	Good
57	1584	4.190	64.24	13.47	0.3624	Good
58	1517	8.280	63.21	11.74	0.6144	Good
59	1518	3.650	58.73	12.55	0.2690	Good
60	1519	3.290	61.10	11.96	0.2405	Good
61	1520	4.050	65.38	13.40	0.3548	Good
62	1521	3.900	62.59	11.42	0.2789	Good
63	1522	4.150	59.58	14.85	0.3673	Good
64	1523	4.180	63.81	11.25	0.3001	Good
65	1524	3.990	57.85	13.57	0.3132	Good
66	1557	6.510	61.91	10.94	0.4407	Good
67	1558	4.220	64.21	11.32	0.3068	Good
68	1559	4.370	57.74	15.07	0.3802	Good
69	1560	4.270	66.15	13.71	0.3873	Good
70	1561	4.290	61.54	10.72	0.2831	Good
71	1562	4.370	58.70	13.97	0.3583	Good
72	1585	7.260	63.88	13.13	0.6091	Good
73	1586	4.250	60.64	11.31	0.2916	Good
74	1587	4.120	59.29	14.32	0.3498	Good

75	1588	4.240	57.87	13.32	0.3269	Good
76	1589	4.350	66.51	10.65	0.3080	Good
77	1590	3.850	59.47	14.41	0.3299	Good
78	1596	4.100	65.46	10.17	0.2731	Good
79	1597	4.360	68.20	11.52	0.3427	Good
80	1598	4.210	59.44	13.19	0.3301	Good
81	1599	4.210	60.51	12.43	0.3166	Good
82	1600	4.240	63.62	11.66	0.3146	Good
83	1525	8.770	57.31	14.64	0.7358	Good
84	1526	4.080	57.11	13.99	0.3260	Good
85	1527	4.080	59.64	13.31	0.3240	Good
86	1528	3.630	63.69	13.88	0.3209	Good
87	1529	4.240	66.69	11.25	0.3180	Good
88	1530	4.020	62.86	11.01	0.2782	Good
89	1531	4.120	61.81	10.84	0.2760	Good
90	1532	3.910	54.05	15.69	0.3316	Good
91	1563	4.160	65.19	11.26	0.3053	Good
92	1564	4.460	61.44	11.95	0.3274	Good
93	1565	4.240	59.24	12.32	0.3095	Good
94	1566	4.270	55.75	12.50	0.2976	Good
95	1533	3.740	55.52	13.27	0.2756	Good
96	1534	3.510	65.70	10.84	0.2499	Good
97	1535	7.420	60.13	11.79	0.5261	Good
98	1536	4.330	63.85	9.37	0.2589	Good
99	1537	6.940	61.02	12.09	0.5122	Good
100	1538	6.690	59.77	13.38	0.5352	Good

DATE: 05.07.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSAUR-II****Challan No. : 01/34**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	39	4.190	59.69	11.12	0.2782	Good
2	40	6.930	60.98	10.25	0.4331	Good
3	41	6.950	62.60	10.51	0.4573	Good
4	42	4.190	66.01	9.35	0.2585	Good
5	43	4.480	64.49	13.47	0.3893	Good
6	44	4.220	57.98	10.06	0.2460	Good
7	45	6.880	61.27	11.88	0.5009	Good
8	1	3.840	63.46	10.81	0.2634	Good
9	2	6.460	61.32	10.96	0.4341	Good
10	3	6.450	63.78	12.95	0.5328	Good
11	4	6.980	62.11	11.72	0.5081	Good
12	5	3.290	61.41	11.30	0.2283	Good
13	6	3.470	63.67	10.90	0.2408	Good
14	46	3.300	59.37	12.43	0.2435	Good
15	47	7.120	65.34	11.13	0.5176	Good
16	48	7.150	64.64	11.79	0.5448	Good
17	49	3.400	63.14	11.24	0.2414	Good
18	50	3.870	65.34	14.60	0.3692	Good
19	51	3.260	58.53	10.92	0.2083	Good
20	78	4.400	60.54	11.12	0.2961	Good
21	79	8.750	61.42	11.76	0.6318	Good
22	80	7.080	63.74	9.81	0.4425	Good
23	81	6.990	59.45	11.42	0.4746	Good
24	82	3.960	64.90	13.28	0.3414	Good
25	83	7.140	61.19	11.67	0.5098	Good
26	7	8.090	60.32	11.85	0.5784	Good
27	8	6.560	61.14	9.76	0.3916	Good
28	9	3.920	61.56	11.26	0.2717	Good
29	10	3.860	64.93	9.55	0.2393	Good
30	11	7.730	63.25	10.28	0.5025	Good
31	12	4.000	61.25	11.53	0.2824	Good
32	52	3.530	64.85	11.23	0.2570	Good
33	53	7.220	63.67	9.93	0.4563	Good
34	54	4.220	57.46	9.57	0.2321	Good

35	55	4.220	60.76	9.08	0.2329	Good
36	56	7.120	65.20	9.54	0.4429	Good
37	57	8.850	60.92	10.78	0.5814	Good
38	58	8.390	62.37	9.92	0.5193	Good
39	13	3.440	64.74	10.10	0.2250	Good
40	14	7.060	61.24	11.90	0.5147	Good
41	15	5.720	65.55	16.20	0.6075	Good
42	16	4.010	58.82	10.97	0.2586	Good
43	17	7.710	64.74	10.58	0.5281	Good
44	18	7.360	61.63	10.84	0.4916	Good
45	19	5.960	58.39	9.62	0.3350	Good
46	64	8.480	63.48	11.11	0.5978	Good
47	65	4.130	62.21	10.35	0.2660	Good
48	66	4.230	62.50	10.08	0.2665	Good
49	67	3.260	57.44	10.45	0.1956	Good
50	68	4.040	64.10	9.56	0.2477	Good
51	69	3.380	63.77	10.51	0.2265	Good
52	70	3.830	63.34	10.74	0.2604	Good
53	84	7.050	63.79	8.83	0.3969	Inferior
54	85	4.360	61.07	10.82	0.2882	Good
55	86	3.500	64.62	10.01	0.2265	Good
56	87	4.190	63.19	11.08	0.2933	Good
57	88	4.050	60.75	9.84	0.2422	Good
58	96	8.070	66.25	14.66	0.7836	Good
59	97	3.690	57.60	10.43	0.2218	Good
60	98	6.700	64.68	13.79	0.5976	Good
61	99	3.630	56.72	10.47	0.2156	Good
62	100	7.990	67.59	9.23	0.4986	Good
63	20	6.560	63.45	11.30	0.4704	Good
64	21	3.690	63.51	9.16	0.2148	Good
65	22	9.380	60.13	9.70	0.5469	Good
66	23	4.350	55.76	11.98	0.2906	Good
67	24	3.310	60.25	10.32	0.2059	Good
68	25	4.220	61.39	11.00	0.2849	Good
69	26	6.750	61.17	10.25	0.4232	Good
70	59	8.470	65.67	10.19	0.5666	Good
71	60	4.380	66.85	12.09	0.3539	Good
72	61	4.190	63.75	11.50	0.3071	Good
73	62	8.710	65.49	9.28	0.5296	Good
74	63	7.000	65.40	13.85	0.6342	Good



75	93	8.450	61.93	8.35	0.4369	Inferior
76	94	4.240	60.08	10.20	0.2599	Good
77	95	8.380	65.15	14.37	0.7844	Good
78	27	7.000	60.54	10.85	0.4599	Good
79	28	3.370	61.31	11.73	0.2423	Good
80	29	7.050	60.89	10.05	0.4315	Good
81	30	4.720	61.14	9.42	0.2719	Good
82	31	7.050	64.05	10.90	0.4921	Good
83	32	4.190	65.90	10.68	0.2950	Good
84	71	4.100	60.53	11.02	0.2735	Good
85	72	9.340	59.62	10.97	0.6108	Good
86	73	3.310	66.92	11.63	0.2575	Good
87	74	4.220	60.72	12.02	0.3081	Good
88	75	7.070	59.77	10.84	0.4581	Good
89	76	4.000	63.08	11.00	0.2776	Good
90	77	6.750	62.21	10.88	0.4570	Good
91	89	3.630	54.31	12.21	0.2407	Good
92	90	8.190	54.97	10.53	0.4742	Good
93	91	3.360	66.58	12.48	0.2792	Good
94	92	4.070	56.23	12.73	0.2914	Good
95	33	7.170	64.26	10.52	0.4847	Good
96	34	8.140	64.48	10.08	0.5291	Good
97	35	4.320	62.71	9.23	0.2501	Good
98	36	4.410	61.61	11.10	0.3016	Good
99	37	7.060	61.05	10.97	0.4730	Good
100	38	4.240	62.62	10.86	0.2883	Good

DATE: 21.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2020-21****Name of Division : MANDSORE-II****Challan No. : 12/143**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	1136	4.180	57.51	11.91	0.2863	Good
2	1137	3.230	53.33	11.01	0.1896	Good
3	1138	3.270	66.97	9.42	0.2657	Good
4	1139	4.210	53.77	12.09	0.2522	Good
5	1140	3.880	58.07	12.05	0.3129	Good
6	1178	4.470	57.94	11.75	0.2792	Good
7	1179	4.100	56.55	11.56	0.2708	Good
8	1180	4.140	57.19	12.40	0.2992	Good
9	1181	4.220	60.96	12.42	0.3195	Good
10	1101	3.890	66.42	11.95	0.3089	Good
11	1102	3.450	68.60	11.52	0.2726	Good
12	1103	4.150	64.56	10.61	0.2843	Good
13	1104	6.870	62.84	11.28	0.4871	Good
14	1105	4.210	67.07	11.48	0.3242	Good
15	1141	4.140	55.87	13.46	0.3113	Good
16	1142	3.810	50.41	14.84	0.2850	Good
17	1143	3.360	61.03	11.50	0.2359	Good
18	1144	3.980	54.66	12.88	0.2802	Good
19	1145	3.980	64.78	8.71	0.2245	Inferior
20	1193	4.100	47.64	14.46	0.2825	Good
21	1194	4.220	63.70	10.24	0.2751	Good
22	1195	3.500	49.37	15.01	0.2594	Good
23	1196	4.180	58.26	13.18	0.3210	Good
24	1106	4.360	59.22	10.27	0.2651	Good
25	1107	7.340	61.13	12.15	0.5454	Good
26	1108	4.420	59.42	10.33	0.2714	Good
27	1109	3.950	61.16	11.94	0.2884	Good
28	1146	3.500	56.28	10.47	0.2062	Good
29	1147	7.920	57.82	11.47	0.5251	Good
30	1148	3.600	58.48	11.29	0.2376	Good
31	1149	4.070	66.88	11.56	0.3146	Good
32	1110	4.000	55.94	12.39	0.2772	Good
33	1111	2.010	64.79	10.99	0.1431	Good
34	1112	3.590	57.20	12.55	0.2578	Good

35	1113	4.110	57.97	13.14	0.3132	Good
36	1150	4.020	60.89	11.92	0.2919	Good
37	1151	6.400	59.04	11.11	0.4198	Good
38	1152	8.100	66.59	11.23	0.6059	Good
39	1153	3.930	59.96	12.04	0.2837	Good
40	1154	7.170	58.92	10.76	0.4546	Good
41	1155	2.810	59.47	12.41	0.2074	Good
42	1182	4.190	67.66	10.08	0.2858	Good
43	1183	7.290	54.91	14.37	0.5752	Good
44	1184	6.790	65.35	9.59	0.4257	Good
45	1185	4.180	60.20	11.99	0.3018	Good
46	1114	3.950	66.99	11.63	0.3077	Good
47	1115	7.280	60.39	13.25	0.5824	Good
48	1116	6.880	59.29	11.18	0.4561	Good
49	1117	4.220	64.43	12.57	0.3418	Good
50	1118	4.000	59.69	11.06	0.2640	Good
51	1119	6.510	60.50	13.01	0.5123	Good
52	1120	4.240	56.60	11.36	0.2726	Good
53	1156	3.090	56.70	12.40	0.2172	Good
54	1157	6.270	60.60	10.38	0.3944	Good
55	1158	6.170	62.62	11.51	0.4449	Good
56	1159	7.050	68.61	10.22	0.4942	Good
57	1160	3.890	59.16	12.10	0.2785	Good
58	1161	6.430	60.31	11.46	0.4443	Good
59	1121	4.070	61.39	12.75	0.3187	Good
60	1122	3.170	60.57	10.80	0.2073	Good
61	1123	4.010	58.04	12.68	0.2951	Good
62	1124	3.520	57.73	12.33	0.2506	Good
63	1125	6.850	57.43	12.71	0.5001	Good
64	1186	7.060	61.71	11.96	0.5210	Good
65	1187	7.060	62.27	9.76	0.4292	Good
66	1188	6.860	62.04	10.77	0.4582	Good
67	1189	4.280	63.39	11.77	0.3193	Good
68	1190	4.040	57.93	13.31	0.3115	Good
69	1191	3.670	58.91	12.27	0.2653	Good
70	1192	2.710	46.29	13.20	0.1656	Good
71	1162	6.710	57.30	12.76	0.4905	Good
72	1163	3.870	51.95	11.18	0.2248	Good
73	1164	7.030	62.02	11.14	0.4858	Good
74	1165	4.050	58.66	11.92	0.2831	Good

75	1166	4.100	59.80	13.49	0.3309	Good
76	1197	4.310	59.40	10.77	0.2758	Good
77	1198	3.500	64.51	11.18	0.2524	Good
78	1199	4.270	60.62	11.76	0.3045	Good
79	1200	4.000	57.48	12.77	0.2936	Good
80	1126	7.920	63.14	11.04	0.5520	Good
81	1127	4.080	57.92	9.63	0.2277	Good
82	1128	4.180	53.35	12.41	0.2767	Good
83	1129	3.810	62.96	10.13	0.2431	Good
84	1130	3.900	62.98	9.99	0.2453	Good
85	1167	6.380	53.89	12.75	0.4383	Good
86	1168	4.230	60.82	11.16	0.2872	Good
87	1169	6.020	66.50	11.58	0.4635	Good
88	1170	3.590	59.20	11.40	0.2423	Good
89	1131	6.190	59.42	12.17	0.4475	Good
90	1132	7.250	60.47	8.95	0.3922	Inferior
91	1133	6.670	56.94	13.33	0.5063	Good
92	1134	3.990	63.35	9.94	0.2514	Good
93	1135	7.170	62.12	10.38	0.4625	Good
94	1171	3.020	55.12	10.79	0.1797	Good
95	1172	4.180	62.55	10.44	0.2730	Good
96	1173	4.030	56.43	12.49	0.2841	Good
97	1174	7.190	61.57	11.06	0.4896	Good
98	1175	4.250	60.04	11.14	0.2843	Good
99	1176	4.200	60.49	12.13	0.3083	Good
100	1177	4.120	60.99	11.07	0.2781	Good

**Name of Division : MANDSORE-II**

**Challan No. : 48/481**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)	Remarks on Morphine ODB
1	4747	3.340	47.20	15.13	0.2385	Good
2	4748	3.990	56.59	13.18	0.2977	Good
3	4749	3.320	60.92	11.56	0.2337	Good
4	4750	3.530	56.46	15.05	0.3001	Good
5	4751	3.560	59.91	9.31	0.1986	Good
6	4799	4.060	61.00	10.85	0.2688	Good
7	4800	5.940	59.43	13.49	0.4764	Good
8	4701	3.590	59.81	11.14	0.2391	Good
9	4702	3.160	59.77	10.81	0.2041	Good
10	4703	3.960	69.77	9.19	0.2538	Good
11	4704	6.520	68.92	11.45	0.5144	Good

12	4705	4.000	62.13	10.78	0.2680	Good
13	4752	3.690	52.96	12.16	0.2376	Good
14	4753	3.560	53.20	14.42	0.2731	Good
15	4754	3.530	58.97	12.46	0.2595	Good
16	4755	3.240	58.29	12.99	0.2453	Good
17	4756	3.230	57.43	11.89	0.2206	Good
18	4706	3.460	59.92	12.20	0.2529	Good
19	4707	3.380	59.55	10.16	0.2045	Good
20	4708	3.830	60.05	11.72	0.2696	Good
21	4709	3.680	66.40	10.63	0.2598	Good
22	4710	3.960	58.33	11.43	0.2641	Good
23	4757	4.030	58.22	12.80	0.3002	Good
24	4758	3.400	57.57	12.04	0.2356	Good
25	4759	4.160	59.93	10.51	0.2621	Good
26	4760	3.480	52.25	14.89	0.2707	Good
27	4761	3.310	48.58	13.75	0.2211	Good
28	4711	3.210	62.32	12.97	0.2594	Good
29	4712	3.690	59.77	12.03	0.2653	Good
30	4713	3.850	54.35	13.36	0.2795	Good
31	4714	3.620	60.61	11.57	0.2538	Good
32	4715	3.030	58.17	12.48	0.2200	Good
33	4716	3.840	55.74	12.09	0.2588	Good
34	4762	4.060	60.72	13.55	0.3341	Good
35	4763	4.090	56.87	13.15	0.3059	Good
36	4771	3.940	64.00	9.34	0.2356	Good
37	4772	2.570	61.69	10.39	0.1647	Good
38	4773	2.540	66.30	9.91	0.1669	Good
39	4774	4.180	68.90	9.71	0.2796	Good
40	4717	3.530	57.85	10.41	0.2125	Good
41	4718	3.580	63.41	12.95	0.2939	Good
42	4719	3.520	54.72	12.19	0.2348	Good
43	4720	3.770	52.21	13.48	0.2654	Good
44	4783	3.850	58.52	9.74	0.2195	Good
45	4784	4.030	62.86	7.45	0.1886	Inferior
46	4785	3.980	62.80	10.27	0.2567	Good
47	4786	3.440	62.14	10.64	0.2274	Good
48	4787	3.360	61.90	8.19	0.1704	Inferior
49	4788	4.020	67.51	9.39	0.2549	Good
50	4721	3.040	55.49	12.20	0.2058	Good
51	4722	3.870	60.73	7.94	0.1865	Inferior

52	4723	3.810	60.70	11.05	0.2557	Good
53	4724	3.990	64.59	5.81	0.1496	Inferior
54	4725	3.960	65.67	7.71	0.2004	Inferior
55	4795	2.180	60.56	9.84	0.1299	Good
56	4796	3.140	60.76	11.04	0.2107	Good
57	4797	3.590	62.86	14.38	0.2965	Good
58	4798	3.280	62.70	14.37	0.3541	Good
59	4726	3.930	61.67	11.29	0.2770	Good
60	4727	3.980	67.32	9.66	0.2581	Good
61	4728	3.970	59.30	12.48	0.2250	Good
62	4729	3.040	62.70	6.91	0.1299	Inferior
63	4730	3.000	64.35	10.78	0.2075	Good
64	4764	2.990	47.72	13.79	0.1908	Good
65	4765	2.900	68.58	3.91	0.0777	Inferior
66	4766	3.970	60.78	7.98	0.1925	Inferior
67	4767	3.060	48.29	15.43	0.2280	Good
68	4768	3.960	60.82	13.50	0.3251	Good
69	4769	3.770	57.68	14.63	0.3182	Good
70	4770	3.920	67.18	9.85	0.2595	Good
71	4775	3.730	65.97	14.78	0.3637	Good
72	4776	3.290	62.77	13.10	0.2704	Good
73	4777	5.030	60.00	7.63	0.2304	Inferior
74	4778	3.760	52.68	10.69	0.2117	Good
75	4731	3.390	67.06	11.08	0.2519	Good
76	4732	3.630	48.08	15.64	0.2730	Good
77	4733	4.180	62.86	9.69	0.2546	Good
78	4734	4.100	54.51	11.80	0.2636	Good
79	4735	4.110	61.16	11.36	0.2856	Good
80	4789	3.470	66.38	10.36	0.2387	Good
81	4790	4.180	66.73	11.75	0.3277	Good
82	4791	4.160	64.97	12.48	0.3374	Good
83	4792	4.120	66.60	13.66	0.3749	Good
84	4793	3.830	61.60	12.91	0.3045	Good
85	4794	3.970	59.01	14.51	0.3398	Good
86	4736	3.900	62.99	11.72	0.2878	Good
87	4737	3.910	61.64	13.68	0.3296	Good
88	4738	4.040	60.83	11.51	0.2828	Good
89	4739	4.070	54.24	14.51	0.3203	Good
90	4740	6.910	58.62	11.55	0.4678	Good
91	4779	4.050	62.02	12.79	0.3212	Good

92	4780	1.280	48.97	16.50	0.1034	Good
93	4781	3.650	62.52	12.72	0.2902	Good
94	4782	3.460	62.23	8.26	0.1778	Inferior
95	4741	4.000	62.08	15.35	0.3812	Good
96	4742	4.030	61.58	12.13	0.3010	Good
97	4743	4.170	63.40	14.21	0.3757	Good
98	4744	7.930	61.77	12.63	0.6185	Good
99	4745	4.160	55.87	14.35	0.3336	Good
100	4746	4.200	53.95	12.62	0.2860	Good

DATE: 14.06.2021

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2020.21 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।